



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 4  
PART I—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2]  
No 2]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 15, 1979/श्रावण 24, 1901  
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 15, 1979/SRAVANA 24, 1901

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## थल सेना विभाग

नई दिल्ली 15 अगस्त, 1979

सं० 8 ई विभांक 13 अगस्त 1979—राष्ट्रपति महर्ष स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त 1979) के अवसर पर निम्नलिखित जे सी ब्रीड को सेना नियमितवाला 1962 के पैरा 178 के अधीन अवैतनिक पद प्रदान करते हैं —

अवैतनिक कैप्टन के रैंक से

16 केब्रेररी

1 जे सी 34407 एच	रिजालदार मेजर व अवैतनिक कैप्टनेट	एम बालाकृष्णा राय	31-12-79
2 लांसस			
2 जे सी 33712 एच	रिजालदार मेजर व अवैतनिक कैप्टनेट	रमधीर सिंह	31-11-79
3 जे सी 51881 एम	रिजालदार व अवैतनिक कैप्टनेट	रतन सिंह	31-08-79
रेजिमेंट ग्राफ ग्रांटिलरी			
4 जे सी 34320 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक कैप्टनेट	बचम सिंह	31-10-79
5 जे सी 14359 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक कैप्टनेट	जोगिन्द्र सिंह	31-08-79
6 जे सी 25752 पा	सूबेदार मेजर व अवैतनिक कैप्टनेट	एम चिन्तापन	31-10-79
7 जे सी 25891 वार्ड	सूबेदार मेजर व अवैतनिक कैप्टनेट	नेन सुख	30-11-79
8 जे सी 56444 डब्ल्यू	सूबेदार व अवैतनिक कैप्टनेट	खरनजीत सिंह	30-11-79
9 जे सी 47185 एफ	सूबेदार व अवैतनिक कैप्टनेट	हरवीर सिंह	31-10-79
10 जे सी 47221 एच	सूबेदार व अवैतनिक कैप्टनेट	जगमाल सिंह	31-08-79
11 जे सी 45444 डब्ल्यू	सूबेदार व अवैतनिक कैप्टनेट	निर्मल सिंह	30-09-79
मद्रास इंजीनियर ग्रेड			
12 जे सी 25176 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक कैप्टनेट	चोक्कालिगम	31-12-79
13 जे सी 25173 एच	सूबेदार मेजर व अवैतनिक कैप्टनेट	बी मुत्तुसामी	31-12-79
14 जे सी 18606 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक कैप्टनेट	के धनपाल	31-12-79
15 जे सी 21758 वार्ड	सूबेदार मेजर व अवैतनिक कैप्टनेट	वेन्कटा राव	31-10-79

**बंगाल इंजीनियर ग्रुप**

16	जे सी 25241 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	धर्म सिंह	31-10-79
17	जे सी 14406 वार्ड	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	वज्ररंगी प्रसाद	30-08-79
18	जे सी 33354 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	गिर्धर सिंह	31-10-79
19	जे सी 25248 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	निर्मल सिंह	31-10-79
20	जे सी 24658 वार्ड	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	तुला राम	31-10-79
21	जे सी 39097 ए	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	रूप सिंह	30-11-79

**बोम्बे इंजीनियर ग्रुप**

22	जे सी 27772 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	गुरुमुख सिंह	31-10-79
----	----------------	-----------------------------------	--------------	----------

**कोर ब्राफ सिगनल**

23	जे सी 31813 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बुज लाल	30-09-79
24	जे सी 18157 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	गुरुबक्स सिंह	30-08-69
25	जे सी 27338 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	करनार सिंह	30-11-79
26	जे सी 22382 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	मुखक राज	31-08-79
27	जे सी 44433 एम	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	जार्ज बेजामिन	30-11-79

**ब्रिगेड ब्राफ वी गार्ड्स**

28	जे सी 29018 वार्ड	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	अर्जुन सिंह शिष्ट	31-10-79
29	जे सी 30426 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	गोमुख सिंह	31-10-79

**वी पंजाब रेजिमेंट**

30	जे सी 17051 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	वीना नाथ	31-08-79
31	जे सी 39393 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	सबू राम	30-11-79
32	जे सी 25296 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	परभू राम	30-08-79
33	जे सी 41226 ए	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बलवन्त सिंह	30-11-79

**वी मद्रास रेजिमेंट**

34	जे सी 30569 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	के राघवम नायर	31-08-79
----	---------------------	-----------------------------------	---------------	----------

**वी प्रोटेक्टोर्स**

35	जे सी 42543 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बाले राम	31-12-79
36	जे सी 16787 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	श्रीम प्रकाश	30-11-79

**वी राजपुताना रायफल्स**

37	जे सी 33817 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	सोहन लाल	31-10-79
----	----------------	-----------------------------------	----------	----------

**वी राजपूत रेजिमेंट**

38	जे सी 40606 एम	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	किरण सिंह	31-08-79
----	----------------	------------------------------	-----------	----------

**वी सिख रेजिमेंट**

39	जे सी 59096 एल	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	गुरुबक्स सिंह	31-12-79
----	----------------	------------------------------	---------------	----------

**वी बीगरा रेजिमेंट**

40	जे सी 32722 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	श्री राम	33-12-79
41	जे सी 62989 के	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	महताब सिंह	31-10-79

**वी कुमायू रेजिमेंट**

42	जे सी 35619 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	नाथू सिंह	31-08-79
43	जे सी 39315 ए	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	छोटे लाल सिंह	31-12-79
44	जे सी 36883 ए	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	फूल सिंह, एस एम	30-09-79

**वी महार रेजिमेंट**

45	जे सी 27838 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	वलीप	30-09-79
46	जे सी 23272 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	दर्शन सिंह	30-09-79
47	जे सी 28957 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	गणपति कांबसे	31-08-79
48	जे सी 12303 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	जसवन्त सिंह	30-11-79
49	जे सी 30411 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	भद्रमण कारपे	31-12-79
50	जे सी 24865 एल	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	ग्यारा सिंह	31-08-79

**वी जम्मू एण्ड काश्मीर रायफल्स**

51	जे सी 25161 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	ईशर दाम	31-08-79
----	----------------	-----------------------------------	---------	----------

**वी जम्मू एण्ड काश्मीर लाइट इन्फेन्ट्री**

52	जे सी 19 वार्ड	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	गुलाम नबी मजिक	30-11-79
----	----------------	-----------------------------------	----------------	----------

1 गोरखा रायफल			
53 जे सी 36770 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जाह्न सिंह थापा	30-09-79
5 गोरखा रायफल			
54 जे सी 37812 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	धन बहादुर भाले	31-12-79
55 जे सी 33979 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	शेर सिंह थापा	31-08-79
8 गोरखा रायफल			
56 जे सी 36578 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सूरत सिंह बोहरा	31-10-79
ग्रामी मबिस कोर (मप्लार्ड)			
57 जे सी 36136 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सोहन सिंह	31-12-79
58 जे सी 57467 के	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अरविन्द बसन्त	30-11-79
ग्रामी सविस कोर (मकेनिकल ट्रांसपोर्ट)			
59 जे सी 44049 इन्फ्यू	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बाबू राम	31-08-79
60 जे सी 57070 एक्स	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भोला नाथ धर गुप्ता	30-08-79
61 जे सी 52673 के	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अमल राम सकलानी	31-12-79
ग्रामी मेडिकल कोर			
62 जे सी 35100 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	असल कुमार दास	31-12-79
63 जे सी 44253 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	पिन्डी दास गुजरास	31-12-79
64 जे सी 33745 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	स्वर्ण सिंह	30-11-79
65 जे सी 35099 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सुलसी दास	31-08-79
ग्रामी आइनेस कोर			
66 जे सी 49322 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हीरा सिंह यादव	31-08-79
67 जे सी 57137 एन	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	निर्मल सिंह	31-10-79
68 जे सी 62643 ए	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रतन चन्द	30-09-79
कोर ग्राफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मकेनिकल इंजीनियर्स			
69 जे सी 35429 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अमर दीप गिर	31-10-79
70 जे सी 35457 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अप्पमहा के अर्नैया	31-12-79
71 जे सी 37181 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गनपत सिंह रायत	30-09-79
72 जे सी 18857 इन्फ्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	किशोरी लाल	31-12-79
73 जे सी 13378 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्यारे लाल	31-10-79
74 जे सी 37170 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राज सिंह	31-12-79
75 जे सी 37174 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राजेश्वर प्रसाद गोस्वामी	31-12-79
76 जे सी 55659 एन	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बलचन्द राय	31-08-79
ग्रामी एजुकेशनल कोर			
77 जे सी 19430 बाई	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	महावीर सिंह	31-12-79
78 जे सी 18302 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राजिन्द्र सिंह आम्बाल	30-09-79
बी इंटेलिजेंस कोर			
79 जे सी 33550 एन	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	महेन्द्र भगत	31-10-79
कोर ग्राफ मिनिटरी पुलिस			
80 जे सी 65164 के	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	वेद प्रकाश	31-10-79
अवैतनिक लैफ्टिनेंट के रैंक में			
9 होर्स			
1 जे सी 50144 एफ	रिजालदार	होशियार सिंह	31-08-79
14 होर्स			
2 जे सी 16982 एन	रिजालदार मेजर	देहल सिंह	31-01-80
3 जे सी 67923 एक्स	रिजालदार	अजीत सिंह	30-09-79
63 केबलरी			
4 जे सी 30756 पी	रिजालदार	रिजाल सिंह	30-11-79
72 ग्रामर्ब रेजिमेंट			
5 जे सी 41486 एन	रिजालदार मेजर	मोहन लाल	30-08-80
73 ग्रामर्ब रेजिमेंट			
6 जे सी 23028 एम	रिजालदार मेजर	गुलाम मुईउद्दीन खान	31-08-79
81 ग्रामर्ब रेजिमेंट			
7 जे सी 54634 के	रिजालदार	सत्यपाल सिंह खाना	31-08-79

82	ग्रामबंध रेजिमेंट	रिसालदार मेजर	धरम सिंह	29-02-80
8	जे सी 31115 एम	रिसालदार	सुभा सिंह	30-09-79
9	जे सी 51842 एम			
85	ग्रामबंध रेजिमेंट	रिसालदार	यु. डी. बोपाया	31-08-79
10	जे सी 52012 के			
रेजिमेंट ग्राफ ग्राटिलरी				
11	जे सी 24289 एम	सुबेदार मेजर	ए. सेतु माधवन नायर	30-11-79
12	जे सी 25840 एल	सुबेदार मेजर	भरजन देव	31-10-79
13	जे सी 12972 ए	सुबेदार मेजर	बालाकृष्णन नायर	30-09-79
14	जे सी 16858 ए	सुबेदार मेजर	बलराज सिंह	30-04-80
15	जे सी 77920 एक्स	सुबेदार मेजर	सी. जे. जोसफ, बी. एम. एम.	30-09-79
16	जे सी 14754 ए	सुबेदार मेजर	हरचन्द सिंह	30-06-80
17	जे सी 24219 एन	सुबेदार मेजर	हयात सिंह कोरंगा	31-08-79
18	जे सी 45518 ए	सुबेदार मेजर	हेतु राम नेहरा	31-10-79
19	जे सी 25779 एम	सुबेदार मेजर	के. सी. कुमारन	31-07-80
20	जे सी 24238 बाई	सुबेदार मेजर	के. पी. बेलुकुट्टन पिल्लै	31-01-80
21	जे सी 31006 एच	सुबेदार मेजर	किशन लाल	30-04-80
22	जे सी 10965 एल	सुबेदार मेजर	नेत्र प्रकाश	31-05-80
23	जे सी 11219 पी	सुबेदार मेजर	पंचामन घोष	31-08-79
24	जे सी 33272 ए	सुबेदार मेजर	प्रभ सिंह	30-04-80
25	जे सी 17388 एम	सुबेदार मेजर	पृथ्वी राज	31-10-79
26	जे सी 24190 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	रघुनाथ दलवी	30-09-79
27	जे सी 17367 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	एस. भन्नु यन नायर	31-08-79
28	जे सी 30337 एक्स	सुबेदार मेजर	सतनाम सिंह भामन्द	31-03-80
29	जे सी 53340 के	सुबेदार	धरम सिंह	31-08-79
30	जे सी 45412 एन	सुबेदार	बी. प्रणाला नायडू	31-08-79
31	जे सी 56415 एम	सुबेदार	बहाल सिंह	31-10-79
32	जे सी 47917 एच	सुबेदार	भगवान पालव	30-11-79
33	जे सी 55844 डब्ल्यू	सुबेदार	चरण सिंह	31-08-79
34	जे सी 53373 पी	सुबेदार	दिनकर पोवार	30-11-79
35	जे सी 45544 एफ	सुबेदार	फकीर ग्रहमद	31-12-79
36	जे सी 56714 ए	सुबेदार	गिरधारी लाल जर्मा	30-09-79
37	जे सी 50920 एन	सुबेदार	हाकम सिंह	31-10-79
38	जे सी 56691 के	सुबेदार	जोगिन्दर सिंह	30-09-79
39	जे सी 56934 के	सुबेदार	के. कृष्णन	31-12-79
40	जे सी 48530 एम	सुबेदार	के. सी. धर्मिया	30-11-79
41	जे सी 55845 बाई	सुबेदार	काशी राम	31-10-79
42	जे सी 45604 एल	सुबेदार	मदन सिंह	31-10-79
43	जे सी 56468 ए	सुबेदार	मंगल सिंह	30-09-79
44	जे सी 40976 एम	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह सोहल	31-08-79
45	जे सी 58411 के	सुबेदार	नसीब सिंह	30-11-79
46	जे सी 48379 एम	सुबेदार	ओम प्रकाश	30-09-79
47	जे सी 49914 एन	सुबेदार	पी. कृष्णन नायर	30-11-79
48	जे सी 45274 एक्स	सुबेदार	पी. एम. प्रभातम्	31-12-79
49	जे सी 66784 एम	सुबेदार	प्रीतम सिंह	31-01-80
50	जे सी 45388 एच	सुबेदार	राम लखन सिंह	31-08-79
51	जे सी 45569 एन	सुबेदार	शैतान सिंह	31-10-79
52	जे सी 49945 एन	सुबेदार	सीता राम	30-11-79
53	जे सी 50917 एम	सुबेदार	सीतल सिंह	31-08-79
54	जे सी 47170 पी	सुबेदार	टी. विल्लीमिंगम	30-09-79
महास इंजीनियर ग्रुप				
55	जे सी 25178 एफ	सुबेदार मेजर	ए. इसाक	31-05-80
56	जे सी 19647 एच	सुबेदार मेजर	ए. सोमाबायन	31-08-79
57	जे सी 25206 एफ	सुबेदार मेजर	उमावती	29-02-80
58	जे सी 44614 एच	सुबेदार	प्रणाली राज	31-12-79
59	जे सी 41256 एक्स	सुबेदार	गोपाल	30-09-79
60	जे सी 41306 एक्स	सुबेदार	हनुमन्धन	31-12-79

## बंगाल इंजीनियर ग्रुप

61	जे सी 32684 पी	सूबेदार मेजर	बलदेव सिंह	31-12-79
62	जे सी 43577 एन	सूबेदार मेजर	भगवान दास	31-12-79
63	जे सी 41749 वार्ड	सूबेदार मेजर	भगवती प्रसाद	31-10-79
64	जे सी 34208 पी	सूबेदार मेजर	बिशन सिंह, एस एम	31-03-80
65	जे सी 26797 एफ	सूबेदार मेजर	सी आई मैथ्यू	30-11-79
66	जे सी 28274 एफ	सूबेदार मेजर	सी जे सीरिक	31-12-79
67	जे सी 49012 वार्ड	सूबेदार मेजर	देवी प्रसाद बुबे	30-11-79
68	जे सी 34185 वार्ड	सूबेदार मेजर	हरचरन सिंह	30-11-79
69	जे सी 23352 के	सूबेदार मेजर	इन्दर सैन	30-11-79
70	जे सी 24370 वार्ड	सूबेदार मेजर	जगदीश सिंह	29-02-80
71	जे सी 34178 एन	सूबेदार मेजर	जय कृष्णा	31-07-80
72	जे सी 34198 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर	क्रिपाल सिंह	30-06-80
73	जे सी 34386 एक्स	सूबेदार मेजर	मेहर चन्द	31-12-79
74	जे सी 28267 एन	सूबेदार मेजर	एन ए बालागोपालन	31-12-79
75	जे सी 33976 के	सूबेदार मेजर	नित्या नन्व पाण्डेय	31-10-79
76	जे सी 39944 एक्स	सूबेदार	पी कुमारन नायर	31-12-79
77	जे सी 28271 एन	सूबेदार मेजर	पी के भास्करन नायर	31-10-79
78	जे सी 42391 एक्स	सूबेदार मेजर	पी के पुष्पगंधन	31-12-79
79	जे सी 34191 एम	सूबेदार मेजर	प्यारा सिंह	30-06-80
80	जे सी 29478 ए	सूबेदार मेजर	रामधन	31-10-79
81	जे सी 34168 वार्ड	सूबेदार मेजर	राम सिंह	31-12-79
82	जे सी 20222 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर	सुबशीन सिंह	29-02-80
83	जे सी 36125 एच	सूबेदार मेजर	सुरिन्दर कुमार	31-01-80
84	जे सी 50460 एक्स	सूबेदार मेजर	वी मुनीकृष्णा रेड्डी	31-10-79
85	जे सी 11872 एन	सूबेदार मेजर	वी एस नायडू	30-09-79
86	जे सी 42136 एल	सूबेदार	धर्म सिंह	30-11-79
87	जे सी 44529 ए	सूबेदार	बसन्त सिंह	31-12-79
88	जे सी 43760 डब्ल्यू	सूबेदार	भोलानाथ बेनर्जी	31-08-79
89	जे सी 35953 एफ	सूबेदार	कमिशना तिवारी	31-10-79
90	जे सी 45069 डब्ल्यू	सूबेदार	नन्व सिंह	31-10-79
91	जे सी 46228 पी	सूबेदार	रतजीत सिंह	31-12-79
92	जे सी 45059 एम	सूबेदार	सरदारा सिंह	31-12-79

## बाम्बे इंजीनियर ग्रुप

93	जे सी 17505 एम	सूबेदार मेजर	वरुण सिंह निगाह	31-03-80
94	जे सी 24596 के	सूबेदार मेजर	वत्साराम सावंत	31-10-79
95	जे सी 27744 पी	सूबेदार मेजर	हरनेक सिंह	31-07-80
96	जे सी 16471 एक्स	सूबेदार मेजर	मधुसूदन कारंजकर	30-04-80
97	जे सी 43800 एम	सूबेदार	प्रीतम सिंह	31-08-79

## कोर घाफ मिशनल्स

98	जे सी 31261 पी	सूबेदार मेजर	सी पुष्पसामी	29-02-80
99	जे सी 31042 एन	सूबेदार मेजर	वर्षेन सिंह	31-01-80
100	जे सी 31265 एल	सूबेदार मेजर	एम मुनीस्वामी	29-02-80
101	जे सी 32058 एल	सूबेदार मेजर	मरंजन सिंह	29-02-80
102	जे सी 20071 एन	सूबेदार मेजर	पी भाधवन नायर	30-11-79
103	जे सी 31800 ए	सूबेदार मेजर	पी सी अन्नाहम	31-01-80
104	जे सी 49726 एम	सूबेदार मेजर	राम चरड	31-07-80
105	जे सी 56198 डब्ल्यू	सूबेदार	घातमा सिंह	31-08-79
106	जे सी 67991 एल	सूबेदार	घबतार सिंह	30-09-79
107	जे सी 66116 डब्ल्यू	सूबेदार	के गंगाधरन नायर	30-11-79
108	जे सी 68000 वार्ड	सूबेदार	कृष्ण सिंह	31-12-79
109	जे सी 37954 एन	सूबेदार	एम के चन्दन	30-09-79
110	जे सी 56199 ए	सूबेदार	निर्मल सिंह	30-08-79
111	जे सी 67652 एल	सूबेदार	वीटा राधा कृष्णा मुर्ली	30-09-79
112	जे सी 56200 एन	सूबेदार	यसवंत सिंह मेरी	31-10-79

## जिगेडा भाग की गांवें

113	जे सी 26094 ए	सूबेदार मेजर	जगदीश लाल	31-12-79
114	जे सी 30506 एन	सूबेदार मेजर	मंगल सिंह रावत	31-08-79
115	जे सी 14068 एम	सूबेदार मेजर	निरंकार सिंह	31-08-79
116	जे सी 44358 बाई	सूबेदार मेजर	समर्थ सिंह	31-01-80
117	जे सी 35579 के	सूबेदार	भ्रवधराज सिंह	30-09-79
118	जे सी 58612 एच	सूबेदार	हरी लाल	31-10-79

## बी पैराग्राफ रेजिमेंट

119	जे सी 25345 एम	सूबेदार मेजर	बी मायाप्यन	31-07-80
120	जे सी 36521 बाई	सूबेदार मेजर	विरेन्द्रपाल सिंह	31-12-79
121	जे सी 53281 एच	सूबेदार	पुनक सिंह गुंरंग	30-11-79
122	जे सी 54055 एक्स	सूबेदार	रिसाल सिंह	30-09-79

## बी पंजाब रेजिमेंट

123	जे सी 33176 एल	सूबेदार मेजर	मोहित्तर सिंह	30-11-79
124	जे सी 12311 ए	सूबेदार मेजर	प्रीतम सिंह	30-11-79
125	जे सी 33540 बाई	सूबेदार मेजर	सीता राम	31-07-80
126	जे सी 46878 एच	सूबेदार	बलदेव सिंह	30-11-79
127	जे सी 40419 एन	सूबेदार	बसन्त राम	31-12-79
128	जे सी 39927 एक्स	सूबेदार	हरी चन्द	30-11-79
129	जे सी 65231 के	सूबेदार	हेम सिंह आजाद	30-11-79
130	जे सी 38218 डब्ल्यू	सूबेदार	जोध सिंह	30-11-79
131	जे सी 39395 एच	सूबेदार	करम चन्द	31-10-79
132	जे सी 50505 एम	सूबेदार	किशन सिंह	31-10-79
133	जे सी 63674 एम	सूबेदार	कृष्ण चन्द	31-10-79
134	जे सी 35624 एल	सूबेदार	लेखराम	31-10-79
135	जे सी 44740 पी	सूबेदार	मूलक राज	31-10-79
136	जे सी 50326 एम	सूबेदार	प्रताप सिंह	30-09-79
137	जे सी 41063 एक्स	सूबेदार	पूरन सिंह	31-10-79
138	जे सी 38347 एल	सूबेदार	रोशन लाल	30-11-79
139	जे सी 42752 एल	सूबेदार	साधू सिंह	31-10-79
140	जे सी 44736 एम	सूबेदार	सन्तोष सिंह	31-10-79
141	जे सी 44739 ए	सूबेदार	सन्तोष सिंह	31-10-79
142	जे सी 65232 एम	सूबेदार	शिव कुमार पाठक	30-11-79

## बी मद्रास रेजिमेंट

143	जे सी 38582 पी	सूबेदार मेजर	ए मुकन्दन	30-09-79
144	जे सी 34757 पी	सूबेदार मेजर	पी के बेलायुधन	31-12-79
145	जे सी 5866 एन	सूबेदार मेजर	पेरियासामी	31-12-79

## बी ग्रेनेडियर्स

146	जे सी 27722 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर	पुनी चन्द	30-06-80
147	जे सी 24908 पी	सूबेदार मेजर	रामपत राम	31-07-80
148	जे सी 35216 ए	सूबेदार मेजर	राम सहाय	31-12-79
149	जे सी 16121 एल	सूबेदार मेजर	सोहनू राम	30-04-80

## बी मराठा लाइट इन्फेण्ट्री

150	जे सी 41748 डब्ल्यू	सूबेदार	धमाकत नारायण कुटी पोडुवाल	30-11-79
151	जे सी 35190 डब्ल्यू	सूबेदार	एकनाथ माणिकराव जाधव	31-08-79
152	जे सी 49493 डब्ल्यू	सूबेदार	महादेव शिंदे	30-06-80
153	जे सी 41635 एन	सूबेदार	बिचबास वैशम्पन्न	31-08-79

## बी राजपूताना रायफल

154	जे सी 38112 के	सूबेदार मेजर	लिभुवन सिंह	31-12-79
155	जे सी 38572 एल	सूबेदार	जबान सिंह	31-10-79
156	जे सी 53295 एच	सूबेदार	सैयद तसब्बर हुसैन रिजवी	30-11-79

## बी राजपूत रैजिमेंट

157	जे सी 22073 एम	सूबेदार मेजर	कृष्णवत्त	31-10-79
-----	----------------	--------------	-----------	----------

158	जे सी 34719 बार्ड	सूबेदार मेजर	परमारमा मन्व	31-07-80
159	जे सी 19968 पी	सूबेदार मेजर	पृथ्वी राज	29-02-80
160	जे सी 20901 एन	सूबेदार मेजर	सप चन्द	31-01-80
161	जे सी 17707 एन	सूबेदार मेजर	मुगन सिंह	31-01-80
162	जे सी 12336 एफ	सूबेदार	मनगवतीदीन सिंह	30-11-79
163	जे सी 46487 बार्ड	सूबेदार	गंगा सिंह	31-10-79
164	जे सी 46191 बार्ड	सूबेदार	हरी राम	30-06-80
165	जे सी 40675 एन	सूबेदार	जहुनाथ सिंह	31-08-79
166	जे सी 42928 एन	सूबेदार	मेही लाल सिंह	30-09-79
167	जे सी 48050 एन	सूबेदार	फूल सिंह	31-10-79
168	जे सी 44336 ए	सूबेदार	रामेश्वर	30-11-79
169	जे सी 34728 ए	सूबेदार	रामपत	31-12-79
170	जे सी 22970 एन	सूबेदार	रोहतास सिंह	30-09-79

## बी जाट रेजिमेंट

171	जे सी 34400 बार्ड	सूबेदार मेजर	बलवीर सिंह	31-12-79
172	जे सी 27491 एन	सूबेदार मेजर	छोटू राम	30-06-80
173	जे सी 22311 एन	सूबेदार मेजर	ताराचन्द	31-12-79
174	जे सी 50701 एम	सूबेदार	बनी सिंह	30-09-79
175	जे सी 44119 के	सूबेदार	बेब सिंह	30-09-79
176	जे सी 47384 एन	सूबेदार	आगे राम	31-10-79
177	जे सी 46171 एन	सूबेदार	मोगे राम	30-11-79
178	जे सी 54711 एन	सूबेदार	मोगे राम	31-05-80

## बी सिक्ख रेजिमेंट

179	जे सी 18074 एक्स	सूबेदार मेजर	प्रीतम सिंह	29-02-80
180	जे सी 66978 पी	सूबेदार	अमर सिंह	31-05-80
181	जे सी 60282 इन्फ्यू	सूबेदार	बलदेव सिंह	31-03-80
182	जे सी 52486 एन	सूबेदार	बलकार सिंह	30-11-79
183	जे सी 53986 पी	सूबेदार	दर्शन सिंह	30-11-79
184	जे सी 43509 एन	सूबेदार	गुरचन सिंह	31-10-79
185	जे सी 69038 पी	सूबेदार	हरचंस सिंह	30-06-80
186	जे सी 42508 एन	सूबेदार	हंशर सिंह	31-08-79
187	जे सी 54390 एफ	सूबेदार	खुशाल सिंह	31-08-79
188	जे सी 50510 एक्स	सूबेदार	मेजर सिंह	30-11-79
189	जे सी 51896 पी	सूबेदार	मनचन सिंह	31-08-79
190	जे सी 50762 के	सूबेदार	मलकीयत सिंह	31-08-79
191	जे सी 46647 एम	सूबेदार	सूरत सिंह	31-10-79
192	जे सी 51897 एक्स	सूबेदार	तरलोचन सिंह	30-09-79

## बी सिक्ख लार्ड्स इन्फैन्टरी

193	जे सी 27693 एम	सूबेदार मेजर	प्रीतम सिंह	31-12-79
194	जे सी 55990 इन्फ्यू	सूबेदार	गिरधारी लाल	31-10-79
195	जे सी 40970 एन	सूबेदार	गुरुदेव सिंह	30-11-79
196	जे सी 38619 एन	सूबेदार	किशन सिंह	30-11-79
197	जे सी 40968 एन	सूबेदार	प्यारा सिंह	31-10-79

## बी ब्रोगरा रेजिमेंट

198	जे सी 27434 के	सूबेदार मेजर	महन्त राम परमार	31-10-79
199	जे सी 49487 एन	सूबेदार	भान सिंह	31-12-79
200	जे सी 65221 ए	सूबेदार	प्रमोद सिंह	31-10-79
201	जे सी 52202 इन्फ्यू	सूबेदार	रघवीर सिंह	31-01-80
202	जे सी 42222 इन्फ्यू	सूबेदार	रोपाल सिंह	30-09-79
203	जे सी 60563 के	सूबेदार	शक्ति चन्द राणा	30-04-80

## बी गढ़वाल रायफल

204	जे सी 32901 ए	सूबेदार मेजर	दर्शन सिंह रौतेला	30-04-80
-----	---------------	--------------	-------------------	----------

205	जे सी 35399 एफ	सूबेदार मेजर	गंगा सिंह नेगी	31-03-80
206	जे सी 33466 एच	सूबेदार मेजर	नन्दन सिंह नेगी	31-10-79
207	जे सी 41384 एफ	सूबेदार मेजर	सन्निधानन्द जोषाल	31-07-80
208	जे सी 46292 एम	सूबेदार	भरत सिंह बिष्ट	30-09-79
209	जे सी 44564 एच	सूबेदार	रघुनाथ सिंह /ावन	31-12-79
210	जे सी 49634 ए	सूबेदार	सन्निधानन्द भट्ट	31-12-79
211	जे सी 49622 एल	सूबेदार	मने सिंग गुमाई	30-11-79
212	जे सी 49633 एच	सूबेदार	त्रि लोक सिंह धर्तवाल	31-12-79
<b>बी कुमार्थ रेजिमेंट</b>				
213	जे सी 50405 एफ	सूबेदार मेजर	श्रानन्द सिंह	31-01-80
214	जे सी 32314 पी	सूबेदार मेजर	शाबी चरद	31-03-80
215	जे सी 39829 एच	सूबेदार	शमर सिंह	31-10-79
216	जे सी 60375 एच	सूबेदार	बनवारी लाल	31-12-79
217	जे सी 61905 बाई	सूबेदार	जयराम सिंह	30-09-79
218	जे सी 59596 डब्ल्यू	सूबेदार	करम सिंह	31-08-79
219	जे सी 61923 ए	सूबेदार	माधो सिंह	30-11-79
220	जे सी 39279 ए	सूबेदार	प्रताप सिंह	31-08-79
221	जे सी 35002 के	सूबेदार	प्रभुबाल	30-09-79
222	जे सी 49430 एन	सूबेदार	शेर सिंह	31-08-79
<b>डी आसाम रेजिमेंट</b>				
223	जे सी 31067 ए	सूबेदार मेजर	लालबुमा	31-10-79
224	जे सी 24841 एफ	सूबेदार मेजर	रोबुमा लमाई	31-08-79
<b>डी बिहार रेजिमेंट</b>				
225	जे सी 31002 एम	सूबेदार मेजर	ए पाफस टुबू	31-12-79
226	जे सी 20905 के	सूबेदार मेजर	गनेश सिंह	31-10-79
227	जे सी 36525 पी	सूबेदार मेजर	लोरन्स तिरकी	31-12-79
228	जे सी 53630 एफ	सूबेदार	रग बहादुर सिंह	31-08-79
229	जे सी 22912 बाई	सूबेदार मेजर	कपूर सिंह	30-09-79
230	जे सी 22017 एन	सूबेदार मेजर	प्रफूल रतन मुखर्जी	31-03-80
231	जे सी 24825 के	सूबेदार मेजर	मिरी राम	31-03-80
<b>जम्मू एण्ड काश्मीर रायफल</b>				
232	जे सी 27553 ए	सूबेदार मेजर	ज्ञान चन्द	30-11-79
233	जे सी 27544 बाई	सूबेदार मेजर	सरदार सिंह	30-09-79
234	जे सी 37559 पी	सूबेदार	वीदार सिंह	30-04-80
235	जे सी 67900 डब्ल्यू	सूबेदार	श्रीकार सिंह	31-10-79
236	जे सी 58312 बाई	सूबेदार	रतन सिंह	31-12-79
237	जे सी 33604 बाई	सूबेदार	सरदार सिंह	30-09-79
<b>लद्दाख स्काउट्स</b>				
238	जे सी 25928 पी	सूबेदार मेजर	ज्ञान चन्द	31-08-79
<b>जम्मू एण्ड काश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री</b>				
239	जे सी 36 बाई	सूबेदार मेजर	ज्ञान चन्द	31-07-80
240	जे सी 49 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर	ईशर दास	30-04-80
241	जे सी 21 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर	सैहम्मत सुधान बाली	31-08-79
<b>1 गोरखा रायफल</b>				
242	जे सी 35331 ए	सूबेदार मेजर	तिल बहादुर गुरुग	30-11-79
243	जे सी 64279 एल	सूबेदार	धीम बहादुर सिंह छेत्री	30-11-79
244	जे सी 51093 एच	सूबेदार	लोक बहादुर थापा	31-11-79
<b>3 गोरखा रायफल</b>				
245	जे सी 58500 एच	सूबेदार	इन्द्रोज गुरुग	30-11-79
246	जे सी 52043 के	सूबेदार	मसीने मगर	30-11-79
<b>5 गोरखा रायफल</b>				
247	जे सी 44882 एम	सूबेदार मेजर	लाम बहादुर गुरुग	30-06-80
248	जे सी 52243 ए	सूबेदार	बल बहादुर गुरुग	31-00-79
249	जे सी 61028 डब्ल्यू	सूबेदार	बलान सिंह गुरुग	31-10-79



250	जे सी 57236 एन	सूबेदार	अमरबीर गुर्ग	31-10-79
251	जे सी 46339 एम	सूबेदार	गऊ प्रसाद गुर्ग	31-10-79
252	जे सी 46340 एफ	सूबेदार	लाल बहादुर थापा	31-10-79
253	जे सी 62428 पी	सूबेदार	नम्ब बहादुर थापा	31-12-79
254	जे सी 43310 बार्ड	सूबेदार	सिंह बहादुर गुर्ग	31-12-79
255	जे सी 44886 एच	सूबेदार	तीर्थ बहादुर गुर्ग, एस एम	31-10-79
8 गोरखा रायफलस				
256	जे सी 50268 एन	सूबेदार	बल बहादुर गुर्ग	30-09-79
257	जे सी 70961 बार्ड	सूबेदार	देवी सिंह छेत्री	30-11-79
258	जे सी 40691 ए	सूबेदार	देव बहादुर थापा	28-02-80
259	जे सी 51199 पी	सूबेदार	ईश्वर सिंह गुर्ग	30-11-79
260	जे सी 63780 एल	सूबेदार	कमल प्रसाद गुर्ग	31-12-79
261	जे सी 51072 एम	सूबेदार	लाल बहादुर गुर्ग	31-10-79
262	जे सी 46086 एच	सूबेदार	सिंग बहादुर मगर	31-12-79
8 गोरखा राइफलस				
263	जे सी 33244 एन	सूबेदार मेजर	अमर बहादुर खड्का	30-09-79
264	जे सी 36572 एम	सूबेदार मेजर	बुक बहादुर साही	31-03-80
265	जे सी 61900 ए	सूबेदार	जजीर बहादुर थापा	30-11-79
11 गोरखा रायफलस				
266	जे सी 33215 बार्ड	सूबेदार मेजर	अन्ना बहादुर राई	30-09-79
267	जे सी 33212 एल	सूबेदार मेजर	जीवा धोज राई	30-09-79
धार्मी सविस् कोर (सप्लार्ड)				
268	जे सी 20453 एम	सूबेदार मेजर	अमंगा मोहन धर	31-12-79
269	जे सी 44139 एक्स	सूबेदार मेजर	के त्रिवेन्द्रम पिल्लै	30-04-80
270	जे सी 20468 पी	सूबेदार मेजर	मनोहर लाल	31-03-80
271	जे सी 46743 एफ	सूबेदार मेजर	एन आर्द जोस	31-01-80
272	जे सी 57437 एम	सूबेदार	बै बलराय प्रसाद सिंह	31-08-79
273	जे सी 57446 एफ	सूबेदार	अन्धकान्त ठाकुर	31-10-79
274	जे सी 53534 एम	सूबेदार	अस्ताप्या कुम्प	30-11-79
275	जे सी 57436 के	सूबेदार	द्विजेंद्र लाल पुरकायस्थ	31-08-79
276	जे सी 60177 एक्स	सूबेदार	हंसराज	30-10-79
277	जे सी 57447 डब्ल्यू	सूबेदार	हिम्मत सिंह	31-10-79
278	जे सी 54804 एम	सूबेदार	जंग बहादुर सिंह	30-08-80
279	जे सी 57468 एम	सूबेदार	ज्वाला प्रसाद	31-12-79
280	जे सी 53524 एच	सूबेदार	के आर्द वर्गीज	30-10-79
281	जे सी 53527 डब्ल्यू	सूबेदार	के एम राघवन	31-10-79
282	जे सी 28727 एफ	सूबेदार	कमल रंजन देव	31-08-79
283	जे सी 53537 ए	सूबेदार	मफे सिंह	30-11-79
284	जे सी 57445 के	सूबेदार	पशुपति दीक्षित	30-09-79
285	जे सी 53128 एम	सूबेदार	रक्षपाल सिंह	31-08-79
286	जे सी 57451 बार्ड	सूबेदार	राधा बल्लव सरकार	30-11-79
287	जे सी 57444 एच	सूबेदार	राम किशन	30-08-79
288	जे सी 57452 एफ	सूबेदार	रोशन लाल	30-11-79
289	जे सी 53533 के	सूबेदार	एस पी आनन्द	30-11-79
290	जे सी 57455 पी	सूबेदार	शिव प्रसाद सुमन	31-12-79
291	जे सी 60173 एफ	सूबेदार	सीताराम भार्ग	30-09-79
292	जे सी 53531 डब्ल्यू	सूबेदार	सिधिवर सिंह	31-08-79
293	जे सी 57439 एक्स	सूबेदार	सुख देव	31-08-79
294	जे सी 30141 के	सूबेदार	सूर्य देव प्रसाद भार्ग	31-05-80
295	जे सी 58811 डब्ल्यू	सूबेदार	सिधिवर सिंह	31-08-79
296	जे सी 53539 एच	सूबेदार	टो जीमा राव	31-12-79
297	जे सी 53526 एन	सूबेदार	टी श्री नीनान	31-10-79
298	जे सी 43538 एच	सूबेदार	टेक अन्व	30-11-79

## ग्रामी सविस कोर (एग्रिमल ट्रांसपोर्ट)

299	जे सी 51990 बार्ड	रिसालदार	इस्तिहार सिंह	30-11-79
300	जे सी 53723 डब्ल्यू	रिसालदार	पिथी सिंह	31-12-79
ग्रामी सविस कोर (मकैनिकल ट्रांसपोर्ट)				
301	जे सी 41815 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर	जसवंत सिंह	31-07-80
302	जे सी 57091 एन	सूबेदार	बलदेव चन्द	31-10-79
303	जे सी 44065 एन	सूबेदार	जोगिन्द्र सिंह	31-10-79
304	जे सी 44050 एल	सूबेदार	काला सिंह	31-08-79
305	जे सी 57902 एन	सूबेदार	प्यार सिंह	31-12-79
306	जे सी 44052 डब्ल्यू	सूबेदार	रघुवीर सिंह	30-11-79
307	जे सी 51531 ए	सूबेदार	राजिन्द्र सिंह	31-10-79
308	जे सी 44031 ए	सूबेदार	साधू सिंह	31-10-79
309	जे सी 64543 एन	सूबेदार	बेबीर मुखर्जी विनायक	30-09-79

## ग्रामी मैथिलिक कोर

310	जे सी 32444 एक्स	सूबेदार मेजर	धरम सिंह	31-08-79
311	जे सी 35115 एम	सूबेदार मेजर	बी एस एम प्रसाद	29-02-80
312	जे सी 33765 एफ	सूबेदार मेजर	बन्सरी लाल छिब्यार	31-12-79
313	जे सी 33740 पी	सूबेदार मेजर	गोविन्द सिंह नेगी	31-12-79
314	जे सी 35118 ए	सूबेदार मेजर	गोरी शंकर सिंह	31-03-80
315	जे सी 47524 एम	सूबेदार मेजर	जसवंत सिंह	31-08-79
316	जे सी 53781 ए	सूबेदार मेजर	के सी कुण्डन	30-11-79
317	जे सी 45782 पी	सूबेदार मेजर	के के फिलिप	31-12-79
318	जे सी 52396 के	सूबेदार मेजर	एम के सिंह	30-09-79
319	जे सी 35133 पी	सूबेदार मेजर	राम असीस मणि	30-04-80
320	जे सी 22720 एफ	सूबेदार मेजर	राम लाल	31-10-79
321	जे सी 35114 के	सूबेदार मेजर	रोचन सिंह	31-01-80
322	जे सी 35102 पी	सूबेदार मेजर	श्याम सिंह	31-12-79
323	जे सी 41549 एच	सूबेदार मेजर	तेज नाथ मिश्रा	31-01-80

## ग्रामी ग्राइन्स कोर

324	जे सी 35803 एच	सूबेदार मेजर	ए रामन मैनन	31-08-79
325	जे सी 17447 एन	सूबेदार मेजर	हृदय नाथ	31-01-80
326	जे सी 38013 एफ	सूबेदार मेजर	होशूराम मनोबा	30-09-79
327	जे सी 52534 ए	सूबेदार मेजर	करम सिंह	29-03-80
328	जे सी 52185 एफ	सूबेदार मेजर	कुन्हुन नायर ई पी	31-03-80
329	जे सी 17725 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर	एम अरोकिया सामी	29-02-80
330	जे सी 57138 एन	सूबेदार	बबन सिंह सारस्वत	31-10-79
331	जे सी 56861 एच	सूबेदार	बलराम सिंह पट्ट	30-09-79
332	जे सी 66870 एक्स	सूबेदार	गुरुचन सिंह	30-11-79
333	जे सी 6438 एम	सूबेदार	जोगिन्द्र सिंह	31-10-79
334	जे सी 6318 बार्ड	सूबेदार	मेहर चन्द यादव	30-11-79
335	जे सी 68391 पी	सूबेदार	मोहन लाल मल्ला	31-10-79
336	जे सी 63190 एम	सूबेदार	नसीब सिंह गोगर	31-12-79
337	जे सी 61437 के	सूबेदार	प्रभु दयाल कटारिया	31-10-79
338	जे सी 62628 एल	सूबेदार	भार चन्द्रा पातोकर	30-11-79
339	जे सी 57132 एम	सूबेदार	शैलेन्द्र चन्द्र दत्ता	31-08-79
340	जे सी 61431 एच	सूबेदार	सीता नाथ सिन्हा	30-09-79
341	जे सी 61645 बार्ड	सूबेदार	साजबर सिंह	31-08-79
342	जे सी 60836 एफ	सूबेदार	तारा चन्द	31-10-79
343	जे सी 61642 एल	सूबेदार	नरलोक चन्द	31-08-79

## कोर ग्राफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मकैनिकल इंजीनियरस

344	जे सी 19383 एम	सूबेदार मेजर	जसवंत सिंह	31-08-79
345	जे सी 35458 एच	सूबेदार मेजर	किशोरी लाल	31-03-80
346	जे सी 38865 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर	कुन्जु मोदीहीन	31-03-80

347	जे सी 24508 एच	सूबेदार मेजर	लाल जगद	29-02-80
348	जे सी 27085 एक्स	सूबेदार मेजर	एम माधवन नम्बियार	30-11-79
349	जे सी 18661 एच	सूबेदार मेजर	मन्या सिंह	30-09-79
350	जे सी 37172 एम	सूबेदार मेजर	नरेन्द्र सिंह	29-02-80
351	जे सी 21376 पी	सूबेदार मेजर	पथोरा सिंह	30-11-79
352	जे सी 22825 एल	सूबेदार मेजर	प्रीतम सिंह	29-02-80
353	जे सी 24463 एन	सूबेदार मेजर	शिव शंकर सिंह	31-01-80
354	जे सी 26456 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर	शिवपाल सिंह पाल	31-01-80
355	जे सी 31134 ए	सूबेदार मेजर	गिरी कृष्ण	31-07-80
356	जे सी 61206 एन	सूबेदार	बहा देव	30-11-79
357	जे सी 47727 एक्स	सूबेदार	हुस नाथ यादव	31-10-79
358	जे सी 47264 एम	सूबेदार	जगत नाथ	30-09-79
359	जे सी 47757 एन	सूबेदार	के एम रंगाराजू	31-12-79
360	जे सी 43217 एक्स	सूबेदार	नरिन्जन सिंह	30-09-79
361	जे सी 52748 डब्ल्यू	सूबेदार	परगत सिंह	30-09-79
ग्रामी एंजुकेशन कोर				
362	जे सी 18271 ए	सूबेदार मेजर	इन्दरजीत सिंह	31-08-79
363	जे सी 18283 पी	सूबेदार मेजर	के लाल सिंह	30-11-79
364	जे सी 18275 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर	के दासदेव सिंह	31-12-79
365	जे सी 18278 के	सूबेदार मेजर	मेजा सिंह मधु	31-12-79
366	जे सी 21334 एच	सूबेदार मेजर	नियका राम शर्मा	31-08-79
367	जे सी 18280 एफ	सूबेदार मेजर	निरजन सिंह	31-10-80
368	जे सी 18254 ए	सूबेदार मेजर	रखी राम	31-10-80
369	जे सी 18279 एल	सूबेदार मेजर	राम चन्दर	30-11-79
370	जे सी 61778 पी	सूबेदार	बहादुर सिंह बगोरा	30-09-79
371	जे सी 53904 एफ	सूबेदार	बिमली भूषण होरे	30-11-79
372	जे सी 61782 एक्स	सूबेदार	बन्धिका सिंह	30-11-79
373	जे सी 54021 के	सूबेदार	गिर राज सिंह	31-12-79
374	जे सी 58543 एक्स	सूबेदार	हरभजन सिंह	31-10-79
375	जे सी 53912 ए	सूबेदार	ईशर दास	31-08-79
376	जे सी 61781 पी	सूबेदार	मदन लाल	30-11-79
377	जे सी 53903 डब्ल्यू	सूबेदार	नथनी राम	31-08-79
378	जे सी 32593 एल	सूबेदार	राम लाल	31-12-79
379	जे सी 42279 एल	सूबेदार	धन्वा नन्द केरनी	30-09-79
380	जे सी 53911 एक्स	सूबेदार	सूबेदार सिंह	31-08-79
381	जे सी 54586 पी	सूबेदार	वसन पयारे	31-10-79
रिमाउट वेटरीनरी कोर				
382	ग्रामी 7171 पी	रिसालदार मेजर	मता दीन	31-10-79
बी इटैसिजेग कोर				
383	जे सी 39151 पी	सूबेदार	बहु सु राम	30-04-80
384	जे सी 34553 एच	सूबेदार	गुरुदीप सिंह	31-12-79
कोर आफ मिनिस्ट्री पुलिस				
385	जे सी 48838 ए	सूबेदार	राजजीत सिंह सिद्धू	31-10-79
386	जे सी 65165 एम	सूबेदार	उत्तम सिंह	31-10-79
ग्रामी फिजिकल ट्रेनिंग कोर				
387	जे सी 43954 बार्ड	सूबेदार मेजर	अनन्त राम	31-05-80
388	जे सी 53092 बार्ड	सूबेदार	शुभ राम	31-12-79
क्रिकेट सिक्वैड्री कोर				
389	जे सी 4089 एक्स	सूबेदार मेजर	मनोहर सिंह	31-12-79
390	जे सी 11711 एक्स	सूबेदार मेजर	मृकन्द सिंह	30-06-80
391	जे सी 9407 एक्स	सूबेदार मेजर	शिमभू दयाल	31-10-79

New Delhi, the 15th August, 1979

No. 8-E dated 13th August, 1979. The President is pleased to grant honorary commissions to the under mentioned JCOs on active list under para 178 of Regulations for the Army, 1962, with effect from 15 Aug. 1979:—

## TO BE HONORARY CAPTAINS

## 16 CAVALARY

1	JC 34407H	Ris Maj & Hony Lt.	M. Balakrishna Rai	31-12-79
---	-----------	--------------------	--------------------	----------

## 2 LANCERS

2	JC 33712H	Ris Maj & Hony Lt.	Randhir Singh	30-11-79
3	JC 51881M	Ris & Hony Lt.	Rattan Singh	31-08-79

## REGIMENT OF ARTILLERY

4	JC 34320F	Sub Maj & Hony Lt.	Bachan Singh	31-10-79
5	JC 14359M	Sub Maj & Hony Lt.	Joginder Singh	31-08-79
6	JC 25752P	Sub Maj & Hony Lt.	M. Chinnappan	31-10-79
7	JC 25891Y	Sub Maj & Hony Lt.	Nain Sukh	30-11-79
8	JC 56444W	Sub & Hony Lt.	Charnjit Singh	30-11-79
9	JC 47185X	Sub & Hony Lt.	Hardip Singh	31-10-79
10	JC 47224L	Sub & Hony Lt.	Jagmal Singh	31-08-79
11	JC 45444W	Sub & Hony Lt.	Nirmal Singh	30-09-79

## MADRAS ENGINEER GROUP

12	JC 25176W	Sub Maj & Hony Lt.	Chokkalingam	31-12-79
13	JC 25173H	Sub Maj & Hony Lt.	D Munusamy	31-12-79
14	JC 18606M	Sub Maj & Hony Lt.	K. Dhanapal	31-12-79
15	JC 21758Y	Sub Maj & Hony Lt.	Venkata Rao	31-10-79

## BENGAL ENGINEER GROUP

16	JC 25241L	Sub Maj & Hony Lt.	Amar Singh	31-10-79
17	JC 14406Y	Sub Maj & Hony Lt.	Bajrang Prashad	30-09-79
18	JC 33354H	Sub Maj & Hony Lt.	Girdhar Singh	31-10-79
19	JC 25248P	Sub Maj & Hony Lt.	Nirmal Singh	31-10-79
20	JC 24658Y	Sub Maj & Hony Lt.	Tula Ram	31-10-79
21	JC 39097A	Sub Maj & Hony Lt.	Rup Singh	30-11-79

## BOMBAY ENGINEER GROUP

22	JC 27772F	Sub Maj & Hony Lt.	Gurmukh Singh	31-10-79
----	-----------	--------------------	---------------	----------

## CORPS OF SIGNALS

23	JC 31813A	Sub Maj & Hony Lt.	Brij Lal	30-09-79
24	JC 18157H	Sub Maj & Hony Lt.	Gurbachan Singh	30-09-79
25	JC 27338P	Sub Maj & Hony Lt.	Kartar Singh	30-11-79
26	JC 22382P	Sub Maj & Hony Lt.	Mulak Raj	31-08-79
27	JC 44433X	Sub & Hony Lt.	George Benjamin	30-11-79

## BRIGADE OF THE GUARDS

28	JC 29018Y	Sub Maj & Hony Lt.	Arjan Singh Bisht	31-10-79
29	JC 30426W	Sub Maj & Hony Lt.	Gorakh Singh	31-10-79

## THE PUNJAB REGIMENT

30	JC 17051K	Sub Maj & Hony Lt.	Dina Nath	31-08-79
31	JC 39393X	Sub Maj & Hony Lt.	Jhabhu Ram	30-11-79
32	JC 25296P	Sub Maj & Hony Lt.	Parbhu Ram	31-08-79
33	JC 41226A	Sub & Hony Lt.	Balwant Singh	30-11-79

## THE MADRAS REGIMENT

34	JC 30569W	Sub Maj & Hony Lt.	K. Raghavan Nair	31-08-79
----	-----------	--------------------	------------------	----------

**THE GRENADIERS**

35 JC 42543N	Sub Maj & Hony Lt.	Bale Ram	31-12-79
36 JC 16787K	Sub Maj & Hony Lt.	Om Parkash	30-11-79

**THE RAJPUTANA RIFLES**

37 JC 33817M	Sub Maj & Hony Lt.	Sohan Lal	31-10-79
--------------	--------------------	-----------	----------

**THE RAJPUT REGIMENT**

38 JC 40606M	Sub & Hony Lt.	Kiran Singh	31-08-79
--------------	----------------	-------------	----------

**THE SIKH REGIMENT**

39 JC 59096L	Sub & Hony Lt.	Gurbaksh Singh	31-12-79
--------------	----------------	----------------	----------

**THE DOGRA REGIMENT**

40 JC 32722A	Sub Maj & Hony Lt.	Shri Ram	31-02-79
41 JC 62989K	Sub & Hony Lt.	Mehtab Singh	31-10-79

**THE KUMAON REGIMENT**

42 JC 35619A	Sub Maj & Hony Lt.	Nathu Singh	31-08-79
43 JC 39315A	Sub & Hony Lt.	Chhotey Lal Singh	31-12-79
44 JC 36883A	Sub & Hony Lt.	Phul Singh, SM	30-09-79

**THE MAHAR REGIMENT**

45 JC 27838M	Sub Maj & Hony Lt.	Dalip.	30-09-79
46 JC 23272M	Sub Maj & Hony Lt.	Darshan Singh	30-09-79
47 JC 24957P	Sub Maj & Hony Lt.	Ganpati Kamble	31-08-79
48 JC 12303F	Sub Maj & Hony Lt.	Jaswant Singh	30-11-79
49 JC 30411N	Sub Maj & Hony Lt.	Laxman Karpe	31-12-79
50 JC 24865L	Sub Maj & Hony Lt.	Piara Singh	31-08-79

**THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES**

51 JC 25161N	Sub Maj & Hony Lt.	Ishar Dass	31-08-79
--------------	--------------------	------------	----------

**THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY**

52 JC 19Y	Sub Maj & Hony Lt.	Ghulam Nabi Malik	30-11-79
-----------	--------------------	-------------------	----------

**1 GORKHA RIFLES**

53, JC 36770X	Sub Maj & Hony Lt.	Janar Singh Thapa	30-09-79
---------------	--------------------	-------------------	----------

**5 GORKHA RIFLES**

54 JC 37612P	Sub Maj & Hony Lt.	Bal Bahadur Ale	31-12-79
55 JC 33979X	Sub Maj & Hony Lt.	Sher Sing Thapa	31-08-79

**8 GORKHA RIFLES**

56 JC 36578N	Sub Maj & Hony Lt.	Surat Singh Bohra	31-10-79
--------------	--------------------	-------------------	----------

**ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)**

57 JC 36136P	Sub Maj & Hony Lt.	Sohan Singh	31-12-79
58 JC 57467K	Sub & Hony Lt.	Arabinda Barua	30-11-79

**ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)**

59 JC 44049W	Sub & Hony Lt.	Babu Ram	31-08-79
60 JC 57070X	Sub & Hony Lt.	Bhola Nath Dhar Gupta	30-09-79
61 JC 52673K	Sub & Hony Lt.	Jagat Ram Saklani	31-12-79

**ARMY MEDICAL CORPS**

62	JC 35100K	Sub Maj & Hony Lt.	Basant Kumar Das	31-12-79
63	JC 44253P	Sub Maj & Hony Lt.	Pindi Dass Gujral	31-12-79
64	JC 33745N	Sub Maj & Hony Lt.	Sawarn Singh	30-11-79
65	JC 35099A	Sub Maj & Hony Lt.	Tulsi Dass	31-08-79

**ARMY ORDNANCE CORPS**

66	JC 49322K	Sub Maj & Hony Lt.	Hira Singh Yadava	31-08-79
67	JC 57137L	Sub & Hony Lt.	Nirmal Singh	31-10-79
68	JC 62643A	Sub & Hony Lt.	Ratan Chand	30-09-79

**CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS**

69	JC 35429N	Sub Maj & Hony Lt.	Chandra Dip Gir	31-10-79
70	JC 35457A	Sub Maj & Hony Lt.	Chappanda Kanniah	31-12-79
71	JC 37181N	Sub Maj & Hony Lt.	Ganpat Singh Rawat	30-09-79
72	JC 18857W	Sub Maj & Hony Lt.	Kishori Lal	31-12-79
73	JC 13378L	Sub Maj & Hony Lt.	Peare Lal	31-10-79
74	JC 37170F	Sub Maj & Hony Lt.	Raj Singh	31-12-79
75	JC 37174X	Sub Maj & Hony Lt.	Rajinder Parsad Goswami	31-12-79
76	JC 55659H	Sub & Hony Lt.	Balwant Rai	31-08-79

**ARMY EDUCATION CORPS**

77	JC 19430Y	Sub Maj & Hony Lt.	Mahabir Singh	31-12-79
78	JC 18302P	Sub Maj & Hony Lt.	Rajinder Singh Jamwal	30-09-79

**THE INTELLIGENCE CORPS**

79	JC 33550H	Sub & Hony Lt.	Mahendra Bhagat	31-10-79
----	-----------	----------------	-----------------	----------

**CORPS OF MILITARY POLICE**

80	JC 65164K	Sub & Hony Lt.	Ved Parkash	31-10-79
----	-----------	----------------	-------------	----------

**TO BE HONORARY LIEUTENANTS****9 HORSE**

1	JC 50144Y	Ris.	Hoshiar Singh	31-08-79
---	-----------	------	---------------	----------

**14 HORSE**

2	JC 16992L	Ris Maj.	Tehal Singh	31-01-80
3	JC 67923X	Ris.	Ajit Singh	30-09-79

**63 CAVALRY**

4	JC 30756P	Ris.	Risal Singh	30-11-79
---	-----------	------	-------------	----------

**72 ARMOURED REGIMENT**

5	JC 41486L	Ris Maj.	Mohan Lal	30-06-80
---	-----------	----------	-----------	----------

**73 ARMOURED REGIMENT**

6	JC 23028M	Ris Maj.	Ghulam Mohi-Ud-Din Khan	31-08-79
---	-----------	----------	-------------------------	----------

**81 ARMOURED REGIMENT**

7	JC 54634K	Ris.	Satyapal Singh Rana	31-08-79
---	-----------	------	---------------------	----------

## 82 ARMoured REGIMENT

8	JC 31115M	Ris Maj.	Amar Singh	29-02-80
9	JC 51842N	Ris.	Suba Singh	30-09-79

## 85 ARMoured REGIMENT

10	JC 52012K	Ris.	UD Bopayya	31-08-79
----	-----------	------	------------	----------

## REGIMENT OF ARTILLERY

11	JC 24289M	Sub Maj.	A Sethu Madhavan Nair	30-11-79
12	JC 25840L	Sub Maj.	Arjan Dev	31-10-79
13	JC 12972A	Sub Maj.	Balakrishnan Nair	30-09-79
14	JC 16858A	Sub Maj.	Balraj Singh	30-04-80
15	JC 77920X	Sub Maj.	Cj Joseph Vam	30-09-79
16	JC 14754A	Sub Maj.	Harchand Singh	30-06-80
17	JC 24219N	Sub Maj.	Hayat Singh Koranga	31-08-79
18	JC 45518A	Sub Maj.	Het Ram Nehra	31-10-79
19	JC 25779M	Sub Maj.	K.C. Kumarar	31-07-80
20	JC 24238Y	Sub Maj.	K.P. Velukuttan Pillai	31-01-80
21	JC 31006H	Sub Maj.	Kishan Lal	30-04-80
22	JC 10965L	Sub Maj.	Netar Parkash	31-05-80
23	JC 11219P	Sub Maj.	Panchanan Ghosh	31-08-79
24	JC 33272A	Sub Maj.	Prabh Singh	30-04-80
25	JC 17388M	Sub Maj.	Prithvi Raj	31-10-79
26	JC 24190W	Sub Maj.	Raghunath Dalvi	30-09-79
27	JC 17367W	Sub Maj.	S Achuthan Nair	31-08-79
28	JC 30337X	Sub Maj.	Satnam Singh Anand	31-03-80
29	JC 53340K	Sub.	Amar Singh.	31-08-79
30	JC 45412N	Sub.	B Appala Naidu	31-08-79
31	JC 56451M	Sub.	Bahal Singh	31-10-79
32	JC 47917H	Sub.	Bhagwan Palav	30-11-79
33	JC 55844W	Sub.	Charan Singh	31-08-79
34	JC 53373P	Sub.	Dinkar Power	30-11-80
35	JC 45544F	Sub.	Fakir Ahmed	31-12-79
36	JC 56714A	Sub.	Girdhari Lal Sharma	30-09-79
37	JC 50920N	Sub.	Hakam Singh	31-10-79
38	JC 56691K	Sub.	Joginder Singh	30-09-79
39	JC 56934K	Sub.	K Krishnan	31-12-79
40	JC 48530M	Sub.	K C Thammiah	30-11-79
41	JC 55845Y	Sub.	Kanshi Ram	31-10-79
42	JC 45604L	Sub.	Madan Singh	31-10-79
43	JC 56468A	Sub.	Mangal Singh	30-09-79
44	JC 40976M	Sub.	Mohinder Singh Sohal	31-08-79
45	JC 58411k	Sub.	Nasib Singh	30-11-79
46	JC 48379M	Sub.	Om Parkash	30-09-79
47	JC 49914N	Sub.	P Krishnan Nair	30-11-79
48	JC 45274X	Sub.	P M Abraham	31-12-79
49	JC 66784M	Sub.	Pritam Singh	31-01-80
50	JC 45388H	Sub.	Ram Lakhnan Singh	31-08-79
51	JC 45569N	Sub.	Shaitan Singh	31-10-79
53	JC 49945N	Sub.	Sita Ram	30-11-79
53	JC 50917N	Sub.	Sital Singh	31-08-79
54	JC 47170P	Sub.	T. Chittilingam	30-09-79

## MADRAS ENGINEER GROUP

55	JC 25178F	Sub Maj.	A. Isaac	31-05-80
56	JC 19647H	Sub Maj.	A. Loganathan	31-08-79
57	JC 25206	Sub Maj.	Umapathi	29-02-80
58	JC 44614H	Sub.	Appachi Rao	31-12-79
59	JC 41256X	Sub.	Gopal	30-09-79
60	JC 41306X	Sub.	Hanumanthan	31-12-79

## BENGAL ENGINEER GROUP

61	JC 32684P	Sub Maj.	Baldev Singh	31-12-79
62	JC 43577N	Sub Maj.	Bhagwan Dass	31-12-79
63	JC 41749Y	Sub Maj.	Bhagwati Parshad	31-10-79
64	JC 34208P	Sub Maj.	Bishan Singh, SM	31-03-80
65	JC 26797F	Sub Maj.	C.I. Mathew	30-11-79
66	JC 28274F	Sub Maj.	C.J. Cyriac	31-12-79
67	JC 49012Y	Sub Maj.	Devi Prasad Dubey	30-11-79
68	JC 34185Y	Sub Maj.	Harcharan Singh	30-11-79
69	JC 23352K	Sub Maj.	Indar Sain	30-11-79
70	JC 24370Y	Sub Maj.	Jagdish Singh	29-02-80
71	JC 34178H	Sub Maj.	Jai Krishana	31-07-80
72	JC 34198W	Sub Maj.	Kirpal Singh	30-06-80
73	JC 34386X	Sub Maj.	Mehar Chand	31-12-79
74	JC 28267L	Sub Maj.	N A Balagopalan	31-12-79
75	JC 33976K	Sub Maj.	Nitya Nand Pandey	31-10-79
76	JC 39944X	Sub Maj.	P. Kumaran Nair	31-12-79
77	JC 28271N	Sub Maj.	P.K. Bhaskaran Nair	31-10-79
78	JC 42391X	Sub Maj.	P.K. Pushpangadan	31-12-79
79	JC 34191M	Sub Maj.	Piara Singh	30-06-80
80	JC 29478A	Sub Maj.	Ram Dhan	31-10-79
81	JC 34168Y	Sub Maj.	Ram Sidh Singh	31-12-79
82	JC 20222W	Sub Maj.	Sudarshan Singh	29-02-80
83	JC 36125H	Sub Maj.	Surlinder Kumar	31-01-80
84	JC 50460X	Sub Maj.	V. Munikrishna Reddy	31-10-79
85	JC 11872H	Sub Maj.	V.S. Naidu	30-09-79
86	JC 42136L	Sub.	Amar Singh	30-11-79
87	JC 44529A	Sub.	Basant Singh	31-12-79
88	JC 43760W	Sub.	Bhola Nath Banerjee	31-08-79
89	JC 35953F	Sub.	Kamishna Tiwari	31-10-79
90	JC 45069W	Sub.	Nand Singh	31-10-79
91	JC 46228P	Sub.	Ranjit Singh	31-12-79
92	JC 45059M	Sub.	Sardara Singh	31-12-79

## BOMBAY ENGINEER GROUP

93	JC 17505M	Sub Maj.	Charan Singh Nigah	31-03-80
94	JC 24596K	Sub Maj.	Dattaram Sawant	31-10-79
95	JC 27744P	Sub Maj.	Harnek Singh	31-07-80
96	JC 16471X	Sub Maj.	Madhusudan Karanjkar	30-04-80
97	JC 43800M	Sub.	Pritam Singh	31-08-89

## CORPS OF SIGNALS

98	JC 31261P	Sub Maj.	C. Ponnusamy	29-02-80
99	JC 31042N	Sub Maj.	Darshan Singh	31-01-80
100	JC 31265L	Sub Maj.	M. Muniswami	29-02-80
101	JC 32053L	Sub Maj.	Narajan Singh	29-02-80
102	JC 20071H	Sub Maj.	P. Madhavan Nair	30-11-79
103	JC 31800A	Sub Maj.	P.C. Abraham	31-01-80
104	JC 49726M	Sub Maj.	Ram Chand	31-07-80
105	JC 56198W	Sub.	Atama Singh	31-08-79
106	JC 67991L	Sub.	Avtar Singh	30-09-79
107	JC 66116W	Sub.	K. Gangadharan Nair	30-11-79
108	JC 68000Y	Sub.	Krishan Singh	31-12-79
109	JC 37954H	Sub.	M.K. Chandran	30-09-79
110	JC 56199A	Sub.	Nirmal Singh	30-09-79
111	JC 67652L	Sub.	Thota Radha Krishna Murthy	30-09-79
112	JC 56200H	Sub.	Yashwant Singh Negi	31-10-79

## BRIGADE OF THE GUARDS

113	JC 26094A	Sub Maj.	Jagdish Lal	31-12-79
114	JC 30506N	Sub Maj.	Mangal Singh Rawat	31-08-79
115	JC 14068M	Sub Maj.	Nirankar Singh	31-08-79



116	JC 44358Y	Sub Maj	Samund Singh	31-01-80
117	JC 35579K	Sub	Abadhraj Singh	30-09-79
118	JC 58612H	Sub.	Hari Lal	31-10-79

## THE PARACHUTE REGIMENT

119	JC 25345M	Sub Maj	V Mayappan	31-07-80
120	JC 36521Y	Sub Maj	Virendaropal Singh	31-12-79
121	JC 53281H	Sub	Punak Singh Gurung	30-11-79
122	JC 54055X	Sub	Risal Singh	30-09-79

## THE PUNJAB REGIMENT

123	JC 33176L	Sub Maj	Mohinder Singh	30-11-79
124	JC 12311A	Sub Maj	Pritam Singh	30-11-79
125	JC 33540Y	Sub Maj	Sita Ram	31-07-80
126	JC 46878H	Sub	Baldev Singh	30-11-79
127	JC 40419N	Sub	Basant Ram	31-12-79
128	JC 39927X	Sub	Hari Chand	30-11-79
129	JC 65231K	Sub	Hem Singh Azad	30-11-79
130	JC 38218W	Sub	Jodh Singh	30-11-79
131	JC 39395H	Sub	Karam Chand	31-10-79
132	JC 50505M	Sub	Kishan Singh	31-10-79
133	JC 63674M	Sub	Krishan Chand	31-10-79
134	JC 35624L	Sub	Lekh Ram	31-10-79
135	JC 44740P	Sub	Mulk Raj	31-10-79
136	JC 50326M	Sub	Partap Singh	30-09-79
137	JC 41063X	Sub	Puran Singh	31-10-79
138	JC 38347L	Sub	Roshan Lal	30-11-79
139	JC 42752L	Sub	Sadhu Singh	31-10-79
140	JC 44736M	Sub	Santokh Singh	31-10-79
141	JC 44739A	Sub	Santokh Singh	31-10-79
142	JC 65232M	Sub	Shiv Kumar Pathak	30-11-79

## THE MADRAS REGIMENT

143	JC 38582P	Sub Maj	A Mukundan	30-09-79
144	JC 34757P	Sub Maj	PK Velayudhan	31-12-79
145	JC 35866N	Sub Maj	Periasamy	31-12-79

## THE GRENADIERS

146	JC 27722W	Sub Maj	Duni Chand	30-06-80
147	JC 24908P	Sub Maj	Ganpat Ram	31-07-80
148	JC 35216A	Sub Maj	Ram Sahai	31-12-80
149	JC 16121L	Sub Maj	Sohnu Ram	30-04-80

## THE MARATHA LIGHT INFANTRY

150	JC 41748W	Sub	Azhakath Nara Anan Kutty	30-11-79
151	JC 35190W	Sub	Poduval	
152	JC 49493W	Sub	Eknath Manikrao Jadhao	31-08-79
153	JC 41635N	Sub	Mahadeo Shinde	30-06-80
			Vishwas Deshmukh	31-08-79

## THE RAJPUTANA RIFLES

154	JC 38112K	Sub Maj	Tribhuvan Singh	31-12-79
155	JC 38572L	Sub	Jawan Singh	31-10-79
156	JC 53295H	Sub	Sayid Tassarwar Hussain Rizvi	30-11-79

## THE RAJPUT REGIMENT

157	JC 22073M	Sub Maj	Krishna Dutt	31-10-79
158	JC 34719Y	Sub Maj	Parmatama Nand	31-07-80
159	JC 19966P	Sub Maj	Prithvi Raj	29-02-80
160	JC 20901N	Sub Maj	Rup Chand	31-10-80
161	JC 17707N	Sub Maj	Sugan Singh	31-10-80
162	JC 42336F	Sub	Bhagaotidin Singh	30-11-79
163	JC 46487Y	Sub	Ganga Singh	31-10-79
164	JC 46191Y	Sub	Hari Ram	30-06-80

165	JC 40675H	Sub	Jadunath Singh	31-08-79
166	JC 42928L	Sub	Mehi Lal Singh	30-09-79
167	JC 48050H	Sub	Phool Singh	31-10-79
168	JC 44336A	Sub	Rameshar	30-11-79
169	JC 34728A	Sub	Ram Pat	31-12-79
170	JC 22970H	Sub	Rohtas Singh	30-09-79

## THE JAT REGIMENT

171	JC 34400Y	Sub Maj	Balbair Singh	31-12-79
172	JC 27491L	Sub Maj	Chhotu Ram	30-06-80
173	JC 22311N	Sub Maj	Tara Chand	31-12-79
174	JC 50701M	Sub	Bani Singh	30-09-79
175	JC 44119K	Sub	Bed Singh	30-09-79
176	JC 47384L	Sub	Jage Ram	31-10-79
177	JC 46171L	Sub	Mange Ram	30-11-79
178	JC 54711N	Sub	Mange Ram	31-05-80

## THE SIKH REGIMENT

179	JC 18074X	Sub Maj	Pritam Singh	29-02-80
180	JC 66978P	Sub	Amar Singh	31-05-80
181	JC 60282W	Sub	Baldev Singh	31-03-80
182	JC 52486L	Sub	Balkar Singh	30-11-79
183	JC 53986P	Sub	Darshan Singh	30-11-79
184	JC 42509N	Sub	Gurbachan Singh	31-10-79
185	JC 69038P	Sub	Harbans Singh	30-06-80
186	JC 42508L	Sub	Ishar Singh	31-08-79
187	JC 54390F	Sub	Khushal Singh	31-08-79
188	JC 50510X	Sub	Major Singh	30-11-79
189	JC 51896P	Sub	Makhan Singh	31-08-79
190	JC 50762K	Sub	Malkiat Singh	31-08-79
191	JC 46647M	Sub	Surat Singh	31-10-79
192	JC 51897X	Sub	Tarlochan Singh	30-09-79

## THE SIKH LIGHT INFANTRY

193	JC 27693M	Sub Maj	Pritam Singh	31-12-79
194	JC 55990W	Sub	Girdhari Lal	31-10-79
195	JC 40970L	Sub	Gurdev Singh	30-11-79
196	JC 38619L	Sub	Kishan Singh	30-11-79
197	JC 40968N	Sub	Piara Singh	31-10-79

## THE DOGRA REGIMENT

198	JC 27434K	Sub Maj	Mahant Ram Parmar	31-10-79
199	JC 49487H	Sub	Gian Singh	31-12-79
200	JC 65221A	Sub	Parmodh Singh	31-10-79
201	JC 52202W	Sub	Raghubir Singh	31-01-80
202	JC 42222W	Sub	Ropal Singh	30-09-79
203	JC 60563K	Sub	Shakti Chand Rana	30-04-80

## THE GARHWAL RIFLES

204	JC 32901A	Sub Maj	Darshan Singh Raut	30-04-80
205	JC 35399F	Sub Maj	Ganga Singh Negi	31-03-80
206	JC 33466H	Sub Maj	Nandan Singh Negi	31-10-79
207	JC 41384P	Sub Maj	Sachida Nand Doval	31-07-80
208	JC 46292M	Sub	Bharat Singh Bisht	30-09-79
209	JC 44564H	Sub	Raghunath Singh Rawat	31-12-79
210	JC 49634A	Sub	Sachida Nand Bhat	31-12-79
211	JC 49622L	Sub	Sateh Singh Gusain	30-11-79
212	JC 49633X	Sub	Trilok Singh Bartwal	31-12-79

## THE KUMAON REGIMENT

213	JC 50405F	Sub Maj	Anand Singh	31-01-80
214	JC 32314P	Sub Maj	Shobi Chand	31-03-80
215	JC 39829X	Sub	Amar Singh	31-10-79
216	JC 60375H	Sub	Banwari Lal	31-12-79
217	JC 61905Y	Sub	Jai Ram Singh	30-09-79
218	JC 58596W	Sub	Karam Singh	31-08-79

219	JC 63923A	Sub	Madho Singh	30-11-79
220	JC 39279A	Sub	Partap Singh	31-08-79
221	JC 35002K	Sub	Prabhu Dayal	30-09-79
222	JC 49430N	Sub	Sher Singh	31-08-79
<b>THE ASSAM REGIMENT</b>				
223	JC 31067A	Sub Maj	Lal Khuma	31-10-79
224	JC 24841F	Sub Maj	Rokhuma Lushai	31-08-79
<b>THE BIHAR REGIMENT</b>				
225	JC 31002M	Sub Maj	Epaphras Tudu	31-12-79
226	JC 20905K	Sub Maj	Ganesh Singh	31-10-79
227	JC 36525P	Sub Maj	Laurence Tirkey	31-12-79
228	JC 53630F	Sub	Rang Bahadur Singh	31-08-79
<b>THE MAHAR REGIMENT</b>				
229	JC 22912Y	Sub Maj	Kapur Singh	30-09-79
230	JC 22017N	Sub Maj	Prafulla Ratan Mukherjee	31-03-80
231	JC 24825K	Sub Maj	Siri Ram	31-03-80
<b>THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES</b>				
232	JC 27553A	Sub Maj	Gian Chand	30-11-79
233	JC 27544Y	Sub Maj	Sardar Singh	30-09-79
234	JC 37559P	Sub	Didar Singh	30-04-80
235	JC 67900W	Sub	Onkar Singh	31-10-79
236	JC 58342Y	Sub	Rattan Singh	31-12-79
237	JC 33604Y	Sub	Sardar Singh	30-09-79
<b>THE LADAKH SCOUTS</b>				
238	JC 25928P	Sub Maj	Gian Chand	31-08-79
<b>THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY</b>				
239	JC 36Y	Sub Maj	Gian Chand	31-07-80
240	JC 49W	Sub Maj	Ishar Dass	30-04-80
241	JC 21W	Sub Maj	Mohd Subhan Wani	31-08-79
<b>1 GORKHA RIFLES</b>				
242	JC 35331A	Sub Maj	Til Bahadur Gurung	30-11-79
243	JC 64279L	Sub	Bhim Bahadur Singh Chhetri	30-11-79
244	JC 51093H	Sub	Lok Bahadur Thapa	30-11-79
<b>3 GORKHA RIFLES</b>				
245	JC 58500H	Sub	Indra Dhoj Gurung	30-11-79
246	JC 52043K	Sub	Masine Magar	30-11-79
<b>5 GORKHA RIFLES</b>				
247	JC 44882M	Sub Maj	Lal Bahadur Gurung	30-06-80
248	JC 52243A	Sub	Bal Bahadur Gurung	31-10-79
249	JC 61028W	Sub	Bhawan Sing Gurung	31-10-79
250	JC 57236N	Sub	Chandrabir Gurung	31-10-79
251	JC 46339M	Sub	Gau Parsad Gurung	31-10-79
252	JC 46340F	Sub	Lal Bahadur Thapa	31-10-79
253	JC 62428P	Sub	Nand Bahadur Thapa	31-12-79
254	JC 43310Y	Sub	Sing Bahadur Gurung	31-12-79
255	JC 44886H	Sub	Tirtha Bahadur Gurung, SM	31-10-79
<b>8 GORKHA RIFLES</b>				
256	JC 40691A	Sub Maj	Deo Bahadur Thapa	28-02-80
257	JC 50268N	Sub	Dal Bahadur Gurung	30-09-79
258	JC 70961Y	Sub	Debi Singh Chhetri	30-11-79
259	JC 51199P	Sub	Ishwar Sing Gurung	30-11-79
260	JC 63780L	Sub	Kamal Prasad Gurung	31-12-79
261	JC 51072M	Sub	Lal Bahadur Gurung	31-10-79
262	JC 46086H	Sub	Sing Bahadur Magar	31-12-79
<b>9 GORKHA RIFLES</b>				
263	JC 33244N	Sub Maj	Amar Bahadur Khadka	30-09-79
264	JC 36572M	Sub Maj	Duk Bahadur Sahi	31-03-80
265	JC 61900A	Sub	Ujir Bahadur Thapa	30-11-79

**11 GORKHA RIFLES**

266 JC 33215Y	Sub Maj	Chandra Bahadur Rai	30-09-79
267 JC 33212L	Sub Maj	Jiwa Dhoj Rai	30-09-79

**ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)**

268 JC 20453M	Sub Maj	Ananga Mohan Dhar	31-12-79
269 JC 44139X	Sub Maj	K Chidambaram Pillai	30-04-80
270 JC 20468P	Sub Maj	Manohar Lal	31-03-80
271 JC 46743F	Sub Maj	NI JOS	31-01-80
272 JC 57437M	Sub	Baidya Nath Prasad Singh	31-08-79
273 JC 57446F	Sub	Chandra Kant Thakur	31-10-79
274 JC 53534M	Sub	Chellappa Kurup	30-11-79
275 JC 57436K	Sub	Dwijendra Lal Pukayastha	31-08-79
276 JC 60177X	Sub	Hans Raj	31-10-79
277 JC 57447W	Sub	Himmat Singh	31-10-79
278 JC 54604M	Sub	Jang Bahadur Singh	30-06-80
279 JC 57468M	Sub	Jawala Prasad	31-12-79
280 JC 53524H	Sub	Ki Verughese	31-10-79
281 JC 53527W	Sub	KN Raghavan	31-10-79
282 JC 28727F	Sub	Kanak Aanjan Deb	31-08-79
283 JC 53537A	Sub	Nafe Singh	30-11-79
284 JC 57445K	Sub	Pashupati Dikshit	30-09-79
285 JC 53128M	Sub	Racchpal Singh	31-08-79
286 JC 57451Y	Sub	Radha Ballav Sarkar	30-11-79
287 JC 57444H	Sub	Ram Kishan	30-09-79
288 JC 57452F	Sub	Roshan Lal	30-11-79
289 JC 53533K	Sub	SP Anand	30-11-79
290 JC 57455P	Sub	Shiv Prasad Suman	31-12-79
291 JC 60173F	Sub	Sita Ram Sharma	30-09-79
292 JC 53521W	Sub	Sivindar Singh	31-08-79
293 JC 57439X	Sub	Sukh Dev	31-08-79
294 JC 30141K	Sub	Surya Deo Prasad Verma	31-05-80
295 JC 58811W	Sub	Swindar Singh	31-08-79
296 JC 53539H	Sub	T Joga Rao	31-12-79
297 JC 53526N	Sub	To Ninan	31-10-79
298 JC 53538H	Sub	Tek Chand	30-11-79

**ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)**

299 JC 51990Y	Ris	Istihar Singh	30-11-79
300 JC 53723W	Ris	Prithi Singh	31-12-79

**ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)**

301 JC 41815W	Sub Maj	Jaswant Singh	31-07-80
302 JC 57091N	Sub	Baldev Chand	31-10-79
303 JC 44065N	Sub	Jogindar Singh	31-10-79
304 JC 44050L	Sub	Kala Singh	31-08-79
305 JC 57902N	Sub	Piar Singh	31-12-79
306 JC 44052W	Sub	Raghubir Singh	30-11-79
307 JC 51531A	Sub	Rajinder Singh	31-10-79
308 JC 44031A	Sub	Sadhu Singh	31-10-79
309 JC 64543N	Sub	Vellore Murugesan Vinayagam	30-09-79

**ARMY MEDICAL CORPS**

310 JC 32444X	Sub Maj	Amar Singh	31-08-79
311 JC 35115M	Sub Maj	BSM Prasad	29-02-80
312 JC 33765F	Sub Maj	Bansri Lal Chhibber	31-12-79
313 JC 33740P	Sub Maj	Gobind Singh Negi	31-12-79
314 JC 35118A	Sub Maj	Gouri Sankar Singh	31-03-80
315 JC 47524M	Sub Maj	Jaswant Singh	31-08-79
316 JC 53781A	Sub Maj	KC Krishnan	30-11-79
317 JC 45782P	Sub Maj	KK Philip	31-12-79
318 JC 52396K	Sub Maj	MK Singh	30-09-79
319 JC 35133P	Sub Maj	Ram Asis Pati	30-04-80
320 JC 22750F	Sub Maj	Ram Lal	31-10-79
321 JC 35114K	Sub Maj	Ruchan Singh	31-01-80
322 JC 35102P	Sub Maj	Shiam Singh	31-12-79
323 JC 41549H	Sub Maj	Tej Nath Mishra	31-01-80

## ARMY ORDNANCE CORPS

324	JC 35802H	Sub Maj	A Raman Menon	31-08-79
325	JC 17447N	Sub Maj	Hirdya Nath	31-01-80
326	JC 38013F	Sub Maj	Hotu Ram Manocha	30-09-79
327	JC 52534A	Sub Maj	Karam Singh	29-02-80
328	JC 52185F	Sub Maj	Kunhan Nair EP	31-03-80
329	JC 17725W	Sub Maj	M Arokiasamy	29-02-80
330	JC 57138N	Sub	Badan Singh Saraswat	31-10-79
331	JC 56861H	Sub	Baham Singh Pannu	30-09-79
332	JC 66870X	Sub	Gurbachan Singh	30-11-79
333	JC 61438M	Sub	Joginder Singh	31-10-79
334	JC 63184Y	Sub	Mohar Chand Yadav	30-11-79
335	JC 68391P	Sub	Mohan Lal Malla	31-10-79
336	JC 63190M	Sub	Nasib Singh Gogger	31-12-79
337	JC 61437K	Sub	Prabhudayal Kataria	31-10-79
338	JC 62628L	Sub	R Chandra Panicker	30-11-79
339	JC 57132M	Sub	Sailendra Chandra Dutta	31-08-79
340	JC 61431H	Sub	Sitanath Singh	30-09-79
341	JC 61645Y	Sub	Tajbhai Singh	31-08-79
342	JC 60836F	Sub	Tara Chand	31-10-79
343	JC 61642L	Sub	Tarlok Chand	31-08-79

## CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

344	JC 19383M	Sub Maj	Jaswant Singh	31-08-80
345	JC 35458H	Sub Maj	Kishori Lal	31-03-80
346	JC 38865W	Sub Maj	Kunju Moiden	31-03-80
347	JC 24508H	Sub Maj	Lal Chand	29-02-80
348	JC 27085X	Sub Maj	M Madhavan Nambiar	30-11-79
349	JC 18661H	Sub Maj	Mansha Singh	30-09-79
350	JC 37172M	Sub Maj	Narander Singh	29-02-80
351	JC 21376P	Sub Maj	Pashaura Singh	30-11-79
352	JC 22825L	Sub Maj	Pritam Singh	29-02-80
353	JC 24463N	Sub Maj	Sheo Shanker Rai	31-01-80
354	JC 26456W	Sub Maj	Shivpal Singh Pal	31-01-80
355	JC 31134A	Sub Maj	Siri Krishen	31-07-80
356	JC 61206N	Sub	Brahm Dev	30-11-79
357	JC 47727W	Sub	Hans Nath Yadawa	31-10-79
358	JC 47264M	Sub	Jagan Nath	30-09-79
359	JC 47757N	Sub	KM Rangaraju	31-12-79
360	JC 43217X	Sub	Narinnan Singh	30-09-79
361	JC 52748W	Sub	Pargat Singh	30-09-79

## ARMY EDUCATION CORPS

362	JC 18271A	Sub Maj	Indarjit Singh	31-08-79
363	JC 18283P	Sub Maj	K Lal Singh	30-11-79
364	JC 18275W	Sub Maj	K Vasdev Singh	31-12-79
365	JC 18278K	Sub Maj	Meja Singh Sandhu	31-12-79
366	JC 21334H	Sub Maj	Nikka Ram Sharma	31-08-79
367	JC 18280F	Sub Maj	Niranjan Singh	31-01-80
368	JC 18254A	Sub Maj	Rakhi Ram	31-01-80
369	JC 18273L	Sub Maj	Ram Chander	30-11-79
370	JC 61778P	Sub	Bahadur Singh Bashera	30-09-79
371	JC 53904F	Sub	Bibhuti Bhusan Hore	30-11-79
372	JC 61782X	Sub	Chandrika Singh	30-11-79
373	JC 54021K	Sub	Gir Raj Singh	31-12-79
374	JC 58543X	Sub	Harbhajan Singh	31-10-79
375	JC 53912A	Sub	Ishar Dass	31-08-79
376	JC 61781P	Sub	Madan Lal	30-11-79
377	JC 53902W	Sub	Nathni Ram	31-08-79
378	JC 32593L	Sub	Ram Lal	31-12-79
379	JC 42279L	Sub	Sharaddha Nand Korni	30-09-79
380	JC 53911X	Sub	Subedar Singh	31-08-79
381	JC 54586P	Sub	Vasant Pansare	31-10-79

## REMOUNT VETERINARY CORPS

382	RV 7171P	Ris Maj	Mata Din	31-10-79
-----	----------	---------	----------	----------

## THE INTELLIGENCE CORPS

383	JC 39151P	Sub	Brahmu Ram	30-04-80
384	JC 34553H	Sub	Gurdip Singh	31-12-79

## CORPS OF MILITARY POLICE

385	JC 48838A	Sub	Sarjit Singh Sidhu	31-10-79
386	JC 65165M	Sub	Uttam Singh	31-10-79

## ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

387	JC 43954Y	Sub Maj	Anant Ram	31-12-79
388	JC 53092Y	Sub	Shubh Ram	31-12-79

## DEFENCE SECURITY CORPS

389	JC 4089	Sub Maj	Manohar Singh	31-12-79
390	JC 11711	Sub Maj	Mukand Singh	30-06-80
391	JC 9407	Sub Maj	Shimbhu Dayal	31-10-79

(यल सेना विभाग)

सं० ९-ई बिनांक 13 अगस्त, 1979—राष्ट्रपति महर्षे स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त 1979) के अवसर पर निम्नलिखित जे सी घोष को उनके अवकाश ग्रहण करने पर सेना विनियमावली 1962 के पैरा 180 के आधीन उनके नाम के सामने दी गई तारीख से, अवैतनिक पद प्रदान करते हैं:—

(यल सेना विभाग)

## 8 केवलरी

1	जे सी 12043एफ	रिसालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सूरज मल	31-05-79
---	---------------	------------------------------------	---------	----------

## 17 हास

2	जे सी 50481ए	रिसालदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रम सिंह	31-05-79
---	--------------	-------------------------------	---------	----------

## 9 हास

3	जे सी 69894एम	रिसालदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मेहर सिंह	28-02-79
---	---------------	-------------------------------	-----------	----------

## 3 केवलरी

4	जे सी 43077 डब्ल्यू	रिसालदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अमर सिंह	31-05-79
---	---------------------	-------------------------------	----------	----------

## 63 केवलरी

5	जे सी 15801 बाई	रिसालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मुब्बल्लाह सिंह	31-01-79
---	-----------------	------------------------------------	-----------------	----------

## 67 ग्रामंड रेजिमेंट

6	जे सी 52300 डब्ल्यू	रिसालदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जिने सिंह	31-07-79
---	---------------------	-------------------------------	-----------	----------

## 70 ग्रामंड रेजिमेंट

7	जे सी 52334 के	रिसालदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बया मन्व	30-06-79
---	----------------	-------------------------------	----------	----------

## 72 ग्रामंड रेजिमेंट

8	जे सी 36936 एन	रिसालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्रताप सिंह	31-05-79
---	----------------	------------------------------------	-------------	----------

## 83 ग्रामंड रेजिमेंट

9	जे सी 49852 बाई	रिसालदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मेहू सिंह	30-06-79
---	-----------------	-------------------------------	-----------	----------

## ग्रामंड कोर

10	जे सी 43707एम	रिसालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हरभजन सिंह	31-05-79
----	---------------	------------------------------------	------------	----------

11	जे सी 41768 के	रिसालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सम्पूर्ण सिंह	30-06-79
----	----------------	------------------------------------	---------------	----------

12	जे सी 67949एम	रिसालदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गुरदेव सिंह	30-04-79
----	---------------	-------------------------------	-------------	----------

## रेजिमेंट आफ आर्टिलरी

13	जे सी 14344 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अनूप सिंह	31-03-79
----	----------------	-----------------------------------	-----------	----------

14	जे सी 24242एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सी अम्बानी	31-07-79
----	---------------	-----------------------------------	------------	----------

15	जे सी 28920पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अरण दास	31-03-79
----	---------------	-----------------------------------	---------	----------

16	जे सी 15979पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दीना माथ	28-02-79
----	---------------	-----------------------------------	----------	----------

17	जे सी 13905एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गुरबजन सिंह	31-07-79
----	---------------	-----------------------------------	-------------	----------

18	जे सी 3988एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गुरचैन सिंह	31-07-79
----	--------------	-----------------------------------	-------------	----------

19	जे सी 12082 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	हरि गिह	30-06-79
20	जे सी 17352 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	के एम देवाजी राज	28-02-79
21	जे सी 14373 आई	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	कृपाल गिह	30-06-79
22	जे सी 45514 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	मूनन तिवारी	31-07-79
23	जे सी 25787 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	नन्व राम	30-06-79
24	जे सी 31018 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	राम चन्बर सिंह	30-06-79
25	जे सी 26896 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	राम बघाल	31-07-79
26	जे सी 26895 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	रामपत सिंह	28-02-79
27	जे सी 25736 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	एम ए एफ जैम्स	30-04-79
28	जे सी 17369 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	मगत सिंह	30-04-79
29	जे सी 24252 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	सेबा सिंह	31-03-79
30	जे सी 17422 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	सूरत सिंह	31-03-79
31	जे सी 17384 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	टी एम मैथ्यू	30-06-79
32	जे सी 24236 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बलूसायी पाण्डित्यन	30-06-79
33	जे सी 47982 एच	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बशम्बर दास	31-01-79
34	जे सी 45558 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	चन्द्रमा	31-01-79
35	जे सी 45553 एच	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	फकीर सिंह	31-03-79
36	जे सी 45505 एच	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	धूगर सिंह	28-02-79
37	जे सी 34663 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	शान सिंह	30-06-79
38	जे सी 45595 पी	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	गुरमोज सिंह	31-01-79
39	जे सी 50075 एन	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	हकीकत राय	31-03-79
40	जे सी 45276 एच	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	लेख राम शर्मा	31-03-79
41	जे सी 45438 एच	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	मालक सिंह	30-06-79
42	जे सी 45507 एन	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	राय सिंह	30-04-79
43	जे सी 45523 एन	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	रणजीत सिंह	30-04-79
44	जे सी 45345 एन	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	संतोष सिंह	31-05-79
45	जे सी 40242 एन	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	तार सिंह	28-02-79
46	जे सी 45578 पी	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	तेज राम	31-01-79
47	जे सी 47925 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	वी कुमारन	28-02-79

## मद्रास इंजीनियर ग्रुप

48	जे सी 19659 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	ए० नरायणन	28-02-79
49	जे सी 18589 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	अम्बोनी	31-03-79
50	जे सी 38120 एच	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	के सिबागनाना पाण्डित्यन	28-02-79
51	जे सी 38275 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	के एम कुबिल्ला	31-03-79
52	जे सी 38274 पी	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	एस धनपालन	31-03-79

## बंगाल इंजीनियर ग्रुप

53	जे सी 25247 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	अष्टुता नन्व मिश्रा	31-03-79
54	जे सी 31851 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	भगत सिंह	31-03-79
55	जे सी 33187 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बिलबाष सिंह	31-01-79
56	जे सी 24669 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बुर्लब सिंह	30-04-79
57	जे सी 30717 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	गुरनाम सिंह	28-02-89
58	जे सी 26801 आई	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	हरबन्स सिंह	31-01-79
59	जे सी 31491 एच	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	जरतैल सिंह	30-06-79
60	जे सी 25299 एच	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	जसवन्त सिंह सहोता	31-01-79
61	जे सी 28275 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	के एम श्रीधरन	31-01-79
62	जे सी 26504 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	एम जे जोन	31-01-79
63	जे सी 26814 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	पी टी थोमस	31-01-79
64	जे सी 20561 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	रनधीर सिंह	30-04-79
65	जे सी 26535 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	मगली राम	31-03-79
66	जे सी 31489 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	शाम सिंह	31-03-79
67	जे सी 43617 के	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बाली चन्द्र	31-05-79
68	जे सी 46295 ए	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बिजुमाजीत सिंह	31-05-79
69	जे सी 51207 एच	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	दली चन्द्र	31-05-79
70	जे सी 44526 एम	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	गोवर्धन प्रसाद	31-05-79

71	जे सी 55466 ए	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	जगदीश प्रसाद सिंह	30-06-79
72	जे सी 52304 एम	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	नैन सिंह	31-01-79
73	जे सी 44545 एक्स	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	रामेश्वर प्रसाद	31-07-79
74	जे सी 39099 बी	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	रवी मिह	31-01-79
75	जे सी 46235 एल	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	सरवन मिह	31-07-79
76	जे सी 51208 एल	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	शिव दत्त मिह	28-02-79
77	जे सी 46241 वाई	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	सृष्णा सिंह	31-07-79
<b>भोम्बे इजिनियर ग्रुप</b>				
78	जे सी 18383 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	मान सिंह	31-03-79
79	जे सी 17504 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	श्रीपत चौवन	30-06-79
80	जे सी 41491 डब्ल्यू	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	भानदा यादव	28-02-79
81	जे सी 43841 डब्ल्यू	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	आत्मा मिह	31-07-79
82	जे सी 43799 एच	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	चत्तर मिह	30-06-79
83	जे सी 41678 एच	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	कलिंदर मिह	28-02-79
84	जे सी 36241 एल	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	महेश्वर जाधव	31-07-79
<b>कोर ग्राफ गिमनरुस</b>				
85	जे सी 23235 वाई	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	अमर मिह	31-01-79
86	जे सी 23239 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	भागमल	31-05-79
87	जे सी 30223 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	वीर मिह	31-07-79
88	जे सी 20070 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	हिप्पी माल मेहता	31-03-79
89	जे सी 32525 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	जान मिह, एम एम	30-04-79
90	जे सी 48199 क	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	कृष्ण चन्द्र महाराणा	31-07-79
91	जे सी 30226 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	कृष्ण लाल	30-06-79
92	जे सी 29399 एल	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	एम एम बेबी	30-06-79
93	जे सी 31056 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	भूल चन्द	28-02-79
94	जे सी 48200 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	प्रमन्ना कुमार पटनायक	30-06-79
95	जे सी 30280 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	भार बाणाकृष्ण	30-04-79
96	जे सी 27352 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	राम रथ	31-03-79
97	जे सी 30225 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	राज्या मिह	31-05-79
98	जे सी 44761 एल	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	समुन्द सिंह	30-06-79
99	जे सी 56228 एच	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	एम श्रीधरन	31-07-79
<b>क्रिगेड ग्राफ दी गार्डस</b>				
100	जे सी 27075 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बीरेन्दर सिंह	28-02-79
101	जे सी 35572 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	वसीप सिंह	30-06-79
102	जे सी 55923 एच	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	आत्मा राम	30-06-79
103	जे सी 41666 एन	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	प्यारा मिह	30-06-79
<b>डी पैराग्राफ रेजिमेंट</b>				
104	जे सी 34378 वाई	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	वीक्टर स्कोरा, एम एम	28-02-79
<b>डी पञ्जाब रेजिमेंट</b>				
105	जे सी 24421 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	भीम सेन	31-03-79
106	जे सी 13526 एल	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	नसीब सिंह	31-05-79
107	जे सी 59224 एक्स	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	अमर सिंह	31-01-79
108	जे सी 38211 एम	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	अमर सिंह	31-03-79
109	जे सी 59479 एक्स	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	जान चंद	30-04-79
110	जे सी 41374 एल	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	गुरदर मिह	28-02-79
<b>डी मद्रास रेजिमेंट</b>				
111	जे सी 27307 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बी कृष्णा पिन्नी	30-04-79
112	जे सी 17164 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	के बी धामस	31-01-79
113	जे सी 38658 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	एम राजन	30-06-79
114	जे सी 21838 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बी योगरामि	30-04-79
115	जे सी 54257 वाई	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	पी रामन	31-05-79
116	जे सी 35550 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	स्वामिनाथन, एम एम	31-07-79
<b>डी प्रोविन्सियल</b>				
117	जे सी 39332 ए	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बसन्त मिह	31-01-79
118	जे पी 56126 एम	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	मिलक राम	31-07-79



## दी सराठा लाइट इन्फेक्टरी

119	जे सी 22115 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	गणेश बर्मा	31-07-79
120	जे सी 1276 एच	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	परमेश्वर	31-03-79
121	जे सी 31872 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	राजाराम शिंदे	30-4-79
122	जे सी 34612 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	सबागराम पवार	30-06-79
123	जे सी 16808 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	सोपान माने	30-04-79
124	जे सी 61592 एक्स	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	अश्वर मिह	31-07-79
125	जे सी 52214 एल	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	दत्ताज राव	31-07-79

## दी राजपूताना राईफल

126	जे सी 17160 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	भंवर सिंह	28-02-79
127	जे सी 33236 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	मीर सिंह	31-07-79
128	जे सी 50575 एल	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	बेद राम	31-05-79
129	जे सी 40945 एम	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	भगवान सिंह	31-03-79
130	जे सी 50172 एच	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	जय चन्द	30-06-79
131	जे सी 41367 पी	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	जवान सिंह	28-02-79
132	जे सी 20051 पी	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	सज्जन सिंह	31-07-79

## दी राजपूत रेजिमेंट

133	जे सी 24936 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	दाउ दयाल मिश्रा	30-06-79
134	जे सी 31218 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	हरी राम	30-06-79
135	जे सी 34732 एच	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	लज्जा राम	31-03-79
136	जे सी 22971 एल	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	रतन लाल	31-07-79

## दी जाट रेजिमेंट

137	जे सी 33166 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	रूप राय	31-03-79
138	जे सी 53273 के	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	राज बहादुर सिंह	28-02-79
139	जे सी 37780 एन	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	रिसाल सिंह	31-07-79
140	जे सी 39391 एम	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	सुमेर सिंह	31-01-79

## दी सिक्ख रेजिमेंट

141	जे सी 53020 पी	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	रघवीर सिंह	30-04-79
142	जे सी 50260 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	सन्तोख सिंह	31-07-79

## दी सिक्ख लाइट इन्फेक्टरी

143	जे सी 11575 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	बन्त सिंह	30-04-79
144	जे सी 12145 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	सरदारा सिंह	31-05-79
145	जे सी 48068 वाई	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	बन्त सिंह	31-05-79

## दी डोगरा रेजिमेंट

146	जे सी 33442 वाई	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	बलदेव सिंह	30-06-79
147	जे सी 49076 के	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	दया राम	28-02-79
148	जे सी 34619 एन	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	गन्धर्व सिंह	28-02-79
149	जे सी 54718 एक्स	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	सुरिन्दर नाथ	31-01-79

## दी गढ़वाल राफल्स

150	जे सी 26619 वाई	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	बचन सिंह चौहान	31-03-79
-----	-----------------	----------------------------------	----------------	----------

## दी कुमायू रेजिमेंट

151	जे सी 32962 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	बलवीर सिंह	31-07-79
152	जे सी 35617 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	भूपाल सिंह	30-06-79
153	जे सी 32889 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	चन्द्र सिंह	31-03-79
154	जे सी 30446 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	जगनाथ सिंह	30-06-79
155	जे सी 58145 डब्ल्यू	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	अयोध्या प्रमाद सिंह	30-06-79
156	जे सी 37825 एच	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	प्रताप सिंह	31-05-79

## दी आसाम रेजिमेंट

157	जे सी 51172 वाई	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	रोखुमा लुसाई	28-02-79
-----	-----------------	-----------------------------	--------------	----------

## दी बिहार रेजिमेंट

158	जे सी 34898 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	जोगफ लकड़ा	30-06-79
159	जे सी 31629 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	राम दास सिंह यादव	31-01-79

## बी महार रेजिमेंट

160	जे सी 33947 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भै मराव सिंह	31-07-79
161	जे सी 24827 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	चन्द सिंह	31-07-79
162	जे सी 23628 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्रीतम सिंह	31-01-79
163	जे सी 58984 एन	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मुन्शी राम	30-06-79

## दी जम्मू एण्ड कश्मीर रायफल

164	जे सी 15759 एल	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हरबंस लाल	30-04-79
-----	----------------	-----------------------------------	-----------	----------

## दी जम्मू एण्ड कश्मीर लाईट इन्फैंट्री

165	जे सी 31ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	शिव राम	31-07-79
-----	-----------	-----------------------------------	---------	----------

## 1 गोरखा रायफल

166	जे सी 36892 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दिल बहादुर गुरूंग	31-01-79
-----	----------------	-----------------------------------	-------------------	----------

## 3 गोरखा रायफल

167	जे सी 36532 एल	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	तेज बहादुर गुरूंग	31-05-79
-----	----------------	-----------------------------------	-------------------	----------

## 4 गोरखा रायफल

168	जे सी 53468 पी	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कृष्णा नन्द कनड	30-06-79
-----	----------------	------------------------------	-----------------	----------

## 8 गोरखा रायफल

169	जे सी 42294 ए	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सेवा सिंह थापा	31-01-79
-----	---------------	------------------------------	----------------	----------

170	जे सी 44081 एल	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	उज्जर सिंह थापा	31-01-79
-----	----------------	------------------------------	-----------------	----------

## गोरखा रायफल

171	जे सी 34534 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	तिलमान तमांग	31-07-79
-----	------------------	-----------------------------------	--------------	----------

## धार्मी सविस कोर (सप्लाई)

172	जे सी 21938 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	ए एम थामस	28-02-79
173	जे सी 40525 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बलवन्त सिंह	30-06-79
174	जे सी 21942 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	श्रीम प्रकाश	30-04-79
175	जे सी 21950 एच	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्यारा सिंह	31-07-79
176	जे सी 21949 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रामजी दास	30-06-79
177	जे सी 17905 वाई	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सूरज प्रकाश	28-02-79
178	जे सी 17900 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	टेक चन्द	28-02-79
179	जे सी 53512 एन	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अश्वनी कुमार दास	28-02-79
180	जे सी 56662 पी	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बी अप्पाला राव	31-03-79
181	जे सी 57410 पी	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बलदेव सिंह परमार	31-03-79
182	जे सी 57418 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बालकृष्ण प्रभाकर	30-04-79
183	जे सी 53515 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बिक्रमादित्य तिवारी	28-02-79
184	जे सी 53531 वाई	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सी नारायणा गुप्तन	30-06-79
185	जे सी 56667 एन	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	चामु सिंह कपालिया	31-03-79
186	जे सी 54610 ए	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दितिन्द्र नारायण मजुमदार	30-06-79
187	जे सी 52574 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दामोदर चौपड़े	28-02-79
188	जे सी 57415 एन	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	धनुष धारी पान्डे	30-04-79
189	जे सी 57419 के	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जी एस राव	31-05-79
190	जे सी 56660 के	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जगत राम	28-02-79
191	जे सी 53514 वाई	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जोगिन्दर सिंह	28-02-79
192	जे सी 53118 एच	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कपिल देव सिंह	31-05-79
193	जे सी 53123 एन	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	करा गोपाल	31-05-79
194	जे सी 56659 पी	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	केशव दत्त जोशी	28-02-79
195	जे सी 53106 एन	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	खगेन्द्र नाथ घोष	30-04-79
196	जे सी 56665 एच	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	किशन चन्द	31-03-79
197	जे सी 56668 डब्ल्यू	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कृशन लाल शर्मा	31-03-79
198	जे सी 56661 एम	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मल्लिकार्थ सिंह	31-03-79
199	जे सी 59559 पी	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	पी वी चन्द कुट्टी	31-05-79
200	जे सी 52583 एच	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्यारा सिंह	31-03-79
201	जे सी 56664 ए	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	आर सुब्बइयन	31-03-79

202	जे सी 53111 बार्ड	सूबेदार व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	राम नरेश मिह	30-04-79
203	जे सी 56678 ए	सूबेदार व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	रत्न चन्द शर्मा	31-03-79
204	जे सी 57426 ए	सूबेदार व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	राशन लाल	30-06-79
205	जे सी 53513 डब्ल्यू	सूबेदार व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	रत पाल शर्मा	28-02-79
206	जे सी 53109 एफ	सूबेदार व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	सोमिरत कुमार दास	30-04-79
207	जे सी 52582 ए	सूबेदार व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	नारा मिह पानेसर	31-03-79
208	जे सी 52576 एम	सूबेदार अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	मरसेम सिंह	28-02-79
209	जे सी 53122 एन	सूबेदार व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	बी बरके	28-02-79
आर्मी भवनिक कार (मेकेनिकल ड्राफ्ट)				
210	जे सी 51523 एफ	सूबेदार व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	नलद्री मिह	31-03-79
211	जे सी 19227 एक्स	सूबेदार व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	भाग मल	31-05-79
212	जे सी 57080	सूबेदार व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	भजन राम	31-05-79
213	जे सी 51740 एक्स	सूबेदार व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	विश्व नाथ तिवारी	30-04-79
214	जे सी 49226 एफ	सूबेदार व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	धुन्ता राम	31-01-79
215	जे सी 43520 बार्ड	सूबेदार व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	हरकेश लाल	31-05-79
216	जे सी 44062 ए	सूबेदार व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	जगदीश राम	31-03-79
217	जे सी 51738 ए	सूबेदार व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	गणेश चन्द	30-04-79
218	जे सी 57116 पी	सूबेदार व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	मनकेश मिह	31-05-79
219	जे सी 57062 बार्ड	सूबेदार व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	नद किशोर पान्हे	31-05-79
220	जे सी 44044 एक्स	सूबेदार व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	परम राम	30-06-79
221	जे सी 57067 एक्स	सूबेदार व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	पूरन मिह	30-06-79
आर्मी मेडिकल कोर				
222	जे सी 26567 एन	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	बी डी जोगी	31-03-79
223	जे सी 33749 ए	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	बलवन्त सिंह	30-04-79
224	जे सी 33751 एफ	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	हरी बिलाम	30-04-79
225	जे सी 41583 एफ	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	कृष्णाकरन नाम्बियार	30-06-79
226	जे सी 48456 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	पी डी कानन	31-05-79
227	जे सी 33752 के	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	धौमस मेथ्यू	31-05-79
228	जे सी 52953 एक्स	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	वी एन शिवदाम	30-04-79
229	जे सी 33753 एम	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	जुल्की राम	28-02-79
230	जे सी 47519 एफ	सूबेदार व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	सोहन मिह	31-01-79
आर्मी आर्सेनल कोर				
231	जे सी 14301 पी	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	अप्पा राय चेटीरेड्डी	31-07-79
232	जे सी 38060 बार्ड	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	भरत सिंह	30-06-79
233	जे सी 35241 बार्ड	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	धरम सिंह	31-03-79
234	जे सी 38004 ए	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	हरपाल सिंह	28-02-79
235	जे सी 38031 के	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	के केणवन तम्बोशन	30-06-79
236	जे सी 36481 एच	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	केहर सिंह	31-05-79
237	जे सी 22796 एफ	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	कृष्ण लाल	28-02-79
238	जे सी 35243 के	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	लाजपत राय	31-05-79
239	जे सी 38023 एन	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	एम जी बग्रिम	31-05-79
240	जे सी 32730 बार्ड	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	एम एम बयंकटेश्वरन	31-07-79
241	जे सी 22821 पी	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	मनजीन खान ककरिया	31-05-79
242	जे सी 48873 एच	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	पी थंकणन नायर	31-07-79
243	जे सी 37043 एम	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	पी सी थामस	31-05-79
244	जे सी 22811 एल	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	भार बालासुब्रमनियम	31-05-79
245	जे सी 11108 एक्स	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	राम मूर्ती रतन	31-05-79
246	जे सी 34775 एक्स	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	राम सिंह	31-01-79
247	जे सी 35417 बार्ड	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	राम तीर्थ शर्मा	31-03-79
248	जे सी 38294 एच	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	शम्भू प्रसाद	30-06-79
249	जे सी 22802 के	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	शम लाल गुप्ता	31-05-79
250	जे सी 10999 बार्ड	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	शिव चन्द्र पान्हे	31-07-79
251	जे सी 48101 एल	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	सूरज चन्द्र शर्मा	30-04-79
252	जे सी 30862 एन	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	टी सी रामन	30-06-79
253	जे सी 35242 एफ	सूबेदार मेजर व अश्वेनिक लेफ्टिनेंट	टी के फिलीपोस	31-05-79

254	जे सी 22812 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	निलक राज साहनी	31-05-79
255	जे सी 61627 डब्ल्यू	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कृष्ण कुमार सिंह	28-02-79
256	जे सी 54341 बार्ड	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राजेन्द्र सिंह	31-03-79

**कोर ब्राफ इलेक्ट्रीकल एण्ड मकेनिकल इंजीनियरस**

257	जे सी 14774 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अजीत सिंह	31-01-79
258	जे सी 17748 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	डि ए चित्तले	28-02-79
259	जे सी 19246 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दीप चन्द	30-06-79
260	जे सी 27024 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हुकम सिंह	31-03-79
261	जे सी 19058 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जय चन्द	31-07-79
262	जे सी 18692 एच	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	के लक्ष्मणन	31-03-79
263	जे सी 18677 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	करम सिंह	31-07-79
264	जे सी 35449 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मुरियप्पा काराबासप्पा डा डा मनी	31-07-79
265	जे सी 26457 बार्ड	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भोम दत्त	31-01-79
266	जे सी 14778 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम प्रकाश	31-03-79
267	जे सी 18660 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	तरसोम दास	31-03-79
268	जे सी 54569 पी	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	वयानन्त चौधे	31-05-79
269	जे सी 46392 एक्स	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	पी बालाकृष्णन	31-01-79
270	जे सी 58725 एल	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सत्या पाल	31-05-79
271	जे सी 56752 डब्ल्यू	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	टी पी शिवशंकरन	28-02-79

**ग्रामी एंजुकेशन कोर**

272	जे सी 18267 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अजमेर सिंह	30-04-79
273	जे सी 18270 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भूपिन्दर सिंह	31-05-79
274	जे सी 18268 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	चन्द्र प्रकाश	30-04-79
275	जे सी 21311 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राधा किशन कचरू	31-03-79
276	जे सी 17105 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम नारायण	30-04-79
277	जे सी 21304 एल	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	उत्तम चन्द	31-01-79
278	जे सी 52356 एच	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अजमेर सिंह	28-02-79
279	जे सी 53901 एन	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	वेध राज सिंह	31-07-79
280	जे सी 52600 एक्स	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गोकुल नन्द उपाध्याय	31-03-79
281	जे सी 52359 डब्ल्यू	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हृदय नन्द तिवारी	31-03-79
282	जे सी 30637 बार्ड	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	होशियार सिंह	31-01-79
283	जे सी 52358 एन	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जगोबन्धु चौधरी	31-03-79
284	जे सी 52347 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कपिल देव शर्मा	31-03-79
285	जे सी 52602 एच	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सरबजीत सिंह	31-05-79

**बी इटेलीजेंस कोर**

286	जे सी 23904 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	एन एम गंगाधरण नायर	30-06-79
287	जे सी 34555 एन	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सरभोज सिंह	31-05-79

**कोर ब्राफ मिसाइलरी पर्सन**

288	जे सी 21834 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	उदे सिंह रावत	31-03-79
289	जे सी 49811 पी	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मान सिंह	31-03-79

**बी पायनियर कोर**

290	जे सी 16075 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अमी लाल सिंह	31-05-79
-----	----------------	-----------------------------------	--------------	----------

**डिफेंस सिग्नलिंग कोर**

291	जे सी 4176 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हरबनम सिंह	31-05-79
292	46340 एक्स जे सी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	एस के गोविन्द नायर	30-04-79

**अवैतनिक लैफ्टिनेंट के रैंक में****75 आर्मेड रेजिमेंट**

1	जे सी 24671 एच	रिसालदार मेजर	जदेवीर सिंह	31-07-79
---	----------------	---------------	-------------	----------

## रेजिमेंट ब्राफ आर्टिलरी

2	जे सी 29045 एच	सूबेदार मंजर	रमी राम	31-07-79
---	----------------	--------------	---------	----------

## मद्रास इंजीनियर ग्रुप

3	जे सी 15841 ए	सूबेदार मेजर	डेनियल पीटर	31-03-79
---	---------------	--------------	-------------	----------

## बंगाल इंजीनियर ग्रुप

4	जे सी 33974 एक्स	सूबेदार मेजर	प्रान्त सिंह	30-06-79
5	जे सी 30267 के	सूबेदार मेजर	बलवन्त सिंह	31-01-79
6	जे सी 28251 ए	सूबेदार मेजर	गुरदयाल सिंह हुन्डल	28-02-79
7	जे सी 27518 एक्स	सूबेदार मेजर	ईकबाल सिंह	28-02-79
8	जे सी 28268 एन	सूबेदार मेजर	के प्रहलामासी	31-01-79
9	जे सी 30970 एक्स	सूबेदार मेजर	माल सिंह नयाल	28-02-79
10	जे सी 27507 एल	सूबेदार मेजर	एन महेश्वरा भट्टाथीरी	30-04-79
11	जे सी 34110 एफ	सूबेदार मेजर	पी लक्ष्मनन	31-01-79
12	जे सी 34755 के	सूबेदार मेजर	पी सैम्युल मैथ्यू	31-01-79
13	जे सी 33361 एक्स	सूबेदार मेजर	पी संकरानारायनन	31-07-79
14	जे सी 28739 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर	पी के गोपीनाथन नायर	30-06-79
15	जे सी 27520 पी	सूबेदार मेजर	राम प्रताप	31-03-79
16	जे सी 27519 ए	सूबेदार मेजर	श्याम सिंह	30-06-79
17	जे सी 33001 एन	सूबेदार मेजर	मुदर्शन सिंह	31-01-79
18	जे सी 28741 एन	सूबेदार मेजर	बी एस सुकुमारन	30-06-79

## बोम्बे इंजीनियर ग्रुप

19	जे सी 23140 वाई	सूबेदार मेजर	नामदेव धामनकर	31-05-79
----	-----------------	--------------	---------------	----------

## कोर ब्राफ सिगनल्स

20	जे सी 30228 एल	सूबेदार मेजर	हजारा सिंह	30-04-79
----	----------------	--------------	------------	----------

## वी सिक्स रेजिमेंट

21	जे सी 19149 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर	गुरमैल सिंह	31-03-79
----	---------------------	--------------	-------------	----------

## धार्मी सर्विस कोर (सप्लाय)

22	जे सी 44136 के	सूबेदार मेजर	घत्तर सिंह	31-01-79
23	जे सी 21945 एक्स	सूबेदार मेजर	जोगिन्दर सिंह	30-04-79

## धार्मी मेडिकल कोर

24	जे सी 35975 ए	सूबेदार मेजर	राम सुब्ब पांडे	31-03-79
----	---------------	--------------	-----------------	----------

## कोर ब्राफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल इंजीनियरस

25	जे सी 35426 ए	सूबेदार मेजर	गिरधारी नारायण सिंह	28-02-79
26	जे सी 11135 एफ	सूबेदार मेजर	राम नारायण शर्मा	31-03-79

## डिफेंस मिश्रॉरिटी कोर

27	जे सी 6616 एक्स	सूबेदार मेजर	ए बी गणपति	30-06-79
28	जे सी 4134 एक्स	सूबेदार मेजर	एफ एस जोसफ	31-01-79
29	जे सी 4207 एक्स	सूबेदार मेजर	अगत हबबर सिंह	31-05-79
30	जे सी 23200 एक्स	सूबेदार मेजर	के रंगनाथा राव	30-06-79
31	जे सी 5057 एक्स	सूबेदार मेजर	कुंवर सिंह	30-11-79
32	जे सी 9520 एक्स	सूबेदार मेजर	लक्ष्मन सिंह	31-01-79
33	जे सी 41690	सूबेदार मेजर	पी के बालाकृष्णन	30-04-79

## प्रवैतनिक रिसालवार/सूबेदार मेजर के रैंक में

## 3 कैवेलरी

1	जे सी 60451 के	रिसालवार	राम नारायण सिंह	30-06-79
---	----------------	----------	-----------------	----------

## 4 होर्स

2	जे सी 67030 के	रिसालवार	जोगिन्दर सिंह	31-07-79
---	----------------	----------	---------------	----------

## 63 कैवेलरी

3	जे सी 55526 एम	रिसालवार	जयनारायण सिंह	30-04-79
---	----------------	----------	---------------	----------

64	कैबेलरी			
4	जे सी 50886 घाई	रिसालदार	सोहन सिंह	31-07-79
70	ग्रामिण रेजिमेंट			
5	जे सी 54783 एक्स	रिसालदार	हंस राज सिंह	30-04-79
73	ग्रामिण रेजिमेंट			
6	जे सी 61994 एच	रिसालदार	मुहम्मद यूनस खान	31-07-79
82	ग्रामिण रेजिमेंट			
7	जे सी 49800 एच	रिसालदार	के बी बोलाप्पा	26-06-79
8	जे सी 63880 डब्ल्यू	रिसालदार	सुखवीर सिंह	28-02-79
86	ग्रामिण रेजिमेंट			
9	जे सी 49148 एच	रिसालदार	शिओ प्रसाद सिंह	31-07-79
	ग्रामिण फोर			
10	जे सी 48729 एन	रिसालदार	जगपाल सिंह	30-04-79
11	जे सी 53548 एम	रिसालदार	नवल सिंह	28-02-79
12	जे सी 72972 के	रिसालदार	प्रकाश चन्व भारवा	31-05-79
13	जे सी 50735 ए	रिसालदार	प्यारा सिंह देवल	31-07-79
14	जे सी 54340 डब्ल्यू	रिसालदार	रामेश्वर बास	30-04-79
	रेजिमेंट ग्राफ ग्राटिलरी			
15	जे सी 37899 एक्स	सूबेदार	ए के सिवदास	28-02-79
16	जे सी 53647 पी	सूबेदार	अग्रहर्ष कोण्डा	31-03-79
17	जे सी 45372 एक्स	सूबेदार	भुवनेश्वर चन्द्र	30-04-79
18	जे सी 47193 डब्ल्यू	सूबेदार	ब्रिज राज शर्मा	31-05-79
19	जे सी 53413 एल	सूबेदार	सी एम राघवन	28-02-79
20	जे सी 64114 एम	सूबेदार	घन पाल	31-07-79
21	जे सी 47246 के	सूबेदार	मोहिन्द्र सिंह	31-03-79
22	जे सी 45271 के	सूबेदार	पी भानुवा कुरुप	31-01-79
23	जे सी 50370 डब्ल्यू	सूबेदार	पूरन सिंह	28-02-79
24	जे सी 45440 ए	सूबेदार	पूरन सिंह	28-02-79
25	जे सी 45576 के	सूबेदार	राम देव त्रिपाठी	31-07-79
26	जे सी 45272 एम	सूबेदार	राम कंवर सिंह	31-07-79
27	जे सी 33271 एक्स	सूबेदार	एस मानिकम	30-04-79
28	जे सी 47904 एल	सूबेदार	सोहन लाल	31-05-79
29	जे सी 45590 डब्ल्यू	सूबेदार	डी जी बरकी	28-02-79
30	जे सी 58516 एन	सूबेदार	तीर्थराम शर्मा	31-01-79
	बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप			
31	जे सी 39560 एच	सूबेदार	अमर चन्व	28-02-79
32	जे सी 38097 ए	सूबेदार	देव जंग मल	31-05-79
33	जे सी 51113 एल	सूबेदार	धनी लाल	31-05-79
34	जे सी 35688 डब्ल्यू	सूबेदार	जगमेल सिंह	31-07-79
35	जे सी 47019 के	सूबेदार	महेशा नन्द	31-03-79
36	जे सी 42146 पी	सूबेदार	सरजीत सिंह	30-06-79
37	जे सी 39089 पी	सूबेदार	सतेह सिंह तरियाल	31-07-79
38	जे सी 43948 एच	सूबेदार	सूरज भान सिंह	30-06-79
	बोम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप			
39	जे सी 43641 ए	सूबेदार	हिन्दुराव थोरत	31-01-79
	कोर ग्राफ मिंगलस			
40	जे सी 37240 पी	सूबेदार	ए श्रीधरा मैनन	31-01-79

41	जे सी 61733 पी	सूबेदार	बुध्ना दिम्ता मल	31-03-79
42	जे सी 56197 एन	सूबेदार	कमल रजन सरकार	31-01-79
43	जे सी 56196 एन	सूबेदार	ओम प्रताप	31-01-79
44	जे सी 58805 एन	सूबेदार	टी के बेनुगोपाल	30-06-79
45	जे सी 52284 के	सूबेदार	डब्ल्यू भरथन	30-06-79
<b>वी सिक्ख रेजिमेंट</b>				
46	जे सी 54649 के	सूबेदार	प्यारा सिंह	31-07-79
<b>वी सिक्ख लाईट इन्फैन्ट्री</b>				
47	जे सी 39294 पी	सूबेदार	नसीब सिंह	31-01-79
<b>वी डोगरा रेजिमेंट</b>				
48	जे सी 55431 एम	सूबेदार	ज्ञान चन्द	30-06-79
49	जे सी 44247 एफ	सूबेदार	जनक सिंह	31-01-79
50	जे सी 66053 बाई	सूबेदार	केसर सिंह पठानिया	31-07-79
51	जे सी 41616 एच	सूबेदार	पंचम चन्द	31-10-78
52	जे सी 48564 ए	सूबेदार	परमा नन्द	30-04-79
53	जे सी 45135 एन	सूबेदार	प्राकर्म चन्द	31-12-78
54	जे सी 49997 के	सूबेदार	पंजाब सिंह	30-04-79
55	जे सी 9340 के	सूबेदार	राम किशोर शास्त्री	30-06-79
<b>वी शङ्खाल रायफर्स</b>				
56	जे सी 53461 एल	सूबेदार	गजे सिंह राबत	31-05-79
<b>वी कुमाय रेजिमेंट</b>				
57	जे सी 57676 एन	सूबेदार	लक्ष्मण सिंह	31-05-79
58	जे सी 59939 एन	सूबेदार	मधुरा वत्त लोहसी	28-02-79
<b>वी थासाम रेजीमेंट</b>				
59	जे सी 51098 एफ	सूबेदार	लियानबोला सुशार्	31-07-79
60	जे सी 60343 ए	सूबेदार	नरेश्वर रे	31-01-79
61	जे सी 48330 डब्ल्यू	सूबेदार	नईसिल अंगामी	31-03-79
<b>वी महार रेजिमेंट</b>				
62	जे सी 50716 पी	सूबेदार	बाबू राम	30-04-79
63	जे सी 44092 एक्स	सूबेदार	जसवन्त सिंह	31-07-79
64	जे सी 48477 एम	सूबेदार	के श्रीधरन	30-06-79
65	जे सी 53959 एल	सूबेदार	माधवन मायर	31-07-79
<b>धार्मी सर्विस कौर (स्प्लाइ)</b>				
66	जे सी 57428 एल	सूबेदार	अजीत सिंह	30-06-79
67	जे सी 29961 के	सूबेदार	आनन सिंह	28-02-79
68	जे सी 57433 डब्ल्यू	सूबेदार	दर्शन सिंह	31-07-79
69	जे सी 56658 एम	सूबेदार	दिवजेंद्र भाष प्रमानिक	28-02-79
70	जे सी 29744 एन	सूबेदार	हरभजन सिंह	10-03-79
71	जे सी 53510 एच	सूबेदार	इकबाल सिंह	31-01-79
72	जे सी 30095 ए	सूबेदार	जगन्नाथ धूरी	28-02-79
73	जे सी 57411 एक्स	सूबेदार	जगदीश चन्द	30-04-79
74	जे सी 57420 बाई	सूबेदार	जगदीश प्रसाद	30-04-79
75	जे सी 57429 एन	सूबेदार	के माधवा मेनन	31-07-79
76	जे सी 56670 एन	सूबेदार	के ए जार्ज	31-03-79
77	जे सी 56675 एम	सूबेदार	के जे भन्नाहम	31-03-79
78	जे सी 57424 पी	सूबेदार	एम धानासुकुमार	31-05-79
79	जे सी 57427 एच	सूबेदार	मिजाजी लाल	30-06-79
80	जे सी 53119 एल	सूबेदार	मुकुन्द लाल शर्मा	31-05-79
81	जे सी 59545 पी	सूबेदार	नानी गोपाल बालोमजूमदार	28-02-79
82	जे सी 53127 के	सूबेदार	नर्त वेण्कर पाण्डे	31-07-79
83	जे सी 53117 ए	सूबेदार	निरपदा राय	31-05-79

84	जे सी 53717 एच	सूबेदार	पी के श्रीधरन	31-03-79
85	जे सी 52584 एल	सूबेदार	प्रीतम लाल	31-03-79
86	जे सी 52577 पी	सूबेदार	प्रीतम सिंह	28-02-79
87	जे सी 52572 एक्स	सूबेदार	पुथेन प्रामपिल आयाथिल जान थामस	28-02-79
88	जे सी 57421 एफ	सूबेदार	और वेंकटारमन	28-02-79
89	जे सी 47489 पी	सूबेदार	राजनारायण	30-04-79
90	जे सी 57430 एच	सूबेदार	शमदत्त	31-07-79
91	जे सी 57438 पी	सूबेदार	सोमेश्वर शरदे	30-06-79
92	जे सी 52571 एन	सूबेदार	सूबशंन सान्याल	28-02-79
93	जे सी 56663 एक्स	सूबेदार	बी राधाकृष्णा कुरुप	31-03-79
<b>धार्मी सर्विस कोर (एनिमल ट्रांसपोर्ट)</b>				
94	जे सी 51995 एक्स	रिमालदार	रमल	30-04-79
<b>धार्मी सर्विस कोर (मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट)</b>				
95	जे सी 43460 पी	सूबेदार	जोगिन्दर सिंह	28-02-79
96	जे सी 44035 डब्ल्यू	सूबेदार	मुकुंद सिंह	31-03-79
97	जे सी 51529 एच	सूबेदार	पंजारा मनाहर चेलासामी	31-07-79
98	जे सी 10324 वार्ड	सूबेदार (भार टी)	पंडित बिज मोहन शर्मा	30-06-79
99	जे सी 57060 एन	सूबेदार	परमेश्वरन विश्वनाथन	31-05-79
100	जे सी 57073 एल	सूबेदार	राम लाल	30-04-79
101	जे सी 54786 एल	सूबेदार	सरूप सिंह	31-05-79
102	जे सी 52978 के	सूबेदार	श्री भाष सिंह	31-05-79
<b>धार्मी मेडिकल कोर</b>				
103	जे सी 50244 के	सूबेदार	सी एम श्रीधरन	31-05-79
104	जे सी 51605 के	सूबेदार	चेत नाथ मिश्रा	31-07-79
105	जे सी 42830 एक्स	सूबेदार	देश राज शर्मा	31-05-79
106	जे सी 42887 एम	सूबेदार	देवा राजालू	28-02-79
107	जे सी 50245 एम	सूबेदार	गोन्डू तायडे	30-06-79
108	जे सी 45214 एच	सूबेदार	हरधजन सिंह	30-04-79
109	जे सी 65930 पी	सूबेदार	हृष्य नारायण सिंह	28-02-79
110	जे सी 42839 एम	सूबेदार	होशियार सिंह	30-04-79
111	जे सी 62389 एफ	सूबेदार	कामेश्वर सिंह	28-02-79
112	जे सी 45217 डब्ल्यू	सूबेदार	कुंज बिहारी शर्मा	31-07-79
113	जे सी 46469 पी	सूबेदार	सूनी राम चौहान	31-01-79
114	जे सी 42889 एक्स	सूबेदार	पी भार गोपाला कृष्णा फिल्डे	30-04-79
115	जे सी 32873 वार्ड	सूबेदार	फणी भूषण घोष	31-01-79
116	जे सी 45236 एफ	सूबेदार	रघुवंश प्रसाद सिन्हा	31-05-79
117	जे सी 63645 एक्स	सूबेदार	राम नाथ सिंह	31-01-79
118	जे सी 57304 डब्ल्यू	सूबेदार	रतन सिंह	30-06-79
119	जे सी 50246 पी	सूबेदार	सरन सिंह	31-07-79
120	जे सी 49460 एल	सूबेदार	शमीर सिंह	28-02-79
121	जे सी 50242 वार्ड	सूबेदार	श्री निवास सिंह	30-04-79
122	जे सी 65951 एल	सूबेदार	शिरी लाल	30-06-79
123	जे सी 45207 एम	सूबेदार	सोलेमन हमैशूयुल	31-01-79
124	जे सी 45211 पी	सूबेदार	उजागर सिंह	31-01-79
<b>धार्मी फार्मनस कोर</b>				
125	जे सी 61633 के	सूबेदार	हरधयाल सिंह	31-03-79
126	जे सी 48675 के	सूबेदार	हरी लक्ष्मण साबले	28-02-79
127	जे सी 64424 एक्स	सूबेदार	जे सामराज	31-05-79
128	जे सी 50758 एफ	सूबेदार	एन पी माधवन	28-02-79
129	जे सी 49674 एफ	सूबेदार	निरंजन पास	28-02-79
130	जे सी 61632 एफ	सूबेदार	रामन कुट्टी नायर	31-03-79
131	जे सी 61630 डब्ल्यू	सूबेदार	शिषप्पा कोरे	31-03-79
132	जे सी 63370 पी	सूबेदार	टी बामोवरन नेडुंगडी	31-01-79
133	जे सी 48677 के	सूबेदार	तरसेम सिंह	28-02-79



## कोर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स

134	जे सी 43159 आई	सूबेदार	बलवन्त सिंह	30-04-79
135	जे सी 59158 ए	सूबेदार	डी कृष्णामूर्ति	18-11-78
136	जे सी 52922 एक्स	सूबेदार	दूल सिंह	31-03-79
137	जे सी 43927 एन	सूबेदार	गोविन्द प्रसाद द्विवेदी	30-06-79
138	जे सी 47260 इंडिय	सूबेदार	हकीमत राय	31-05-79
139	जे सी 46705 एन	सूबेदार	जनम सिंह	31-07-79
140	जे सी 47261 आई	सूबेदार	जोगा सिंह	31-05-79
141	जे सी 43208 इंडिय	सूबेदार	जोगन्दर सिंह	31-01-79
142	जे सी 46394 एच	सूबेदार	जोगिन्दर सिंह	30-04-79
143	जे सी 46396 एन	सूबेदार	कहर सिंह धरियाल	31-05-79
144	जे सी 58718 पी	सूबेदार	खेत सिंह	30-04-79
145	जे सी 48307 एच	सूबेदार	एन सेधूमाचबन नायर	30-06-79
146	जे सी 40837 एच	सूबेदार	ओम प्रकाश	31-01-78
147	जे सी 46395 एल	सूबेदार	पूरन चन्द	30-04-79
148	जे सी 56771 एफ	सूबेदार	पुनन मल	31-03-79
149	जे सी 39621 पी	सूबेदार	एस पी नरसिंहम	31-05-79
150	जे सी 47262 एफ	सूबेदार	भरलोक नाथ शर्मा	31-07-79
151	जे सी 43223 एल	सूबेदार	ठाकर दास	31-03-79
152	जे सी 56651 एच	सूबेदार	याकूब खान	28-02-79
153	जे सी 47258 आई	सूबेदार	जिन्दे सिंह	31-05-79

## भार्मी एप्लिकेशन कोर

154	जे सी 40513 एन	सूबेदार	बाल किशन	31-03-79
155	जे सी 60538 एल	सूबेदार	बिद्या धर पांडे	28-02-79
156	जे सी 52212 ए	सूबेदार	जीतसिंह	28-02-79
157	जे सी 31162 एम	सूबेदार	कृष्ण गोपाल साहनी	28-02-79
158	जे सी 52240 एम	सूबेदार	कृष्ण चन्द्र दास	28-02-79

## डी इन्टील्लिजेंस कोर

159	जे सी 35256 एफ	सूबेदार	लक्ष्मी नारायण सेठ	30-04-79
-----	----------------	---------	--------------------	----------

## डिफेंस मिक्सीरिटी कोर

160	जे सी 64786 एक्स	सूबेदार	गा माधवन सामन्तियार	31-07-79
-----	------------------	---------	---------------------	----------

## अद्वैतनिक रिसालदार/सूबेदार के रैंक में

## 2 लासर्स

1	जे सी 78677 एक्स	नायब रिसालदार	मान सिंह	31-08-78
---	------------------	---------------	----------	----------

## रेजिमेंट आफ आर्टिलरी

2	जे सी 66806 ए	नायब सूबेदार	बुली चन्द	31-01-79
3	जे सी 76266 ए	नायब सूबेदार	एम आर कुमार	31-03-79

## बंगाल इंजीनियर ग्रुप

4	जे सी 54505 के	नायब सूबेदार	जनारदन पाण्डे	31-01-79
5	जे सी 74449 एफ	नायब सूबेदार	राजेश कुमार	30-04-79

## बोम्बे इंजीनियर ग्रुप

6	जे सी 72863 एक्स	नायब सूबेदार	बालक राम	31-05-79
7	जे सी 72643 एम	नायब सूबेदार	केशव सालसकर	31-05-79
8	जे सी 72879 एच	नायब सूबेदार	लक्ष्मण अरसीकर	31-03-79

## कोर आफ सिगनल

9	जे सी 73809 इंडिय	नायब सूबेदार	एम ए बलामा प्रगामम	31-07-79
---	-------------------	--------------	--------------------	----------

## डी ग्रेनेडियर्स

10	जे सी 82617 ए	नायब सूबेदार	अमर सिंह	31-07-79
11	जे सी 71857 एक्स	नायब सूबेदार	जयनाथ सिंह	31-03-79

## दी डोगरा रेजिमेन्ट

12	जे सी 75431 एन	नायब सूबेदार	रवी सिंह	22-08-78
ग्रामी भविस फोर (सप्पाई)				
13	जे सी 59404 ए	नायब सूबेदार	धरम सिंह	10-04-79
14	जे सी 59652 डब्ल्यू	नायब सूबेदार	कृष्ण चन्द	30-11-78
15	जे सी 59458 एफ	नायब सूबेदार	मोहिनन्दर सिंह	31-10-78
16	जे सी 59416 पी	नायब सूबेदार	एस सुन्दरा राज	28-02-79
17	जे सी 61363 एक	नायब सूबेदार	शरद भन्दापत्तकासे	30-04-79
ग्रामी मेडिकल फोर				
18	जे सी 67289 ए	नायब सूबेदार	इन्दरजीत सिंह राधवा	30-06-79
19	जे सी 53161 के	नायब सूबेदार	सचर राम	30-06-79
20	जे सी 67288 एक्स	नायब सूबेदार	महेशा तन्व	30-06-79
21	जे सी 53166 एच	नायब सूबेदार	महताब सिंह जय्याग	31-07-79
22	जे सी 53164 एक्स	नायब सूबेदार	समन सिंह	28-02-79
फोर ग्राफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स				
23	जे सी 76702 एस	नायब सूबेदार	बी चन्द्रन नायर	30-06-79
24	जे सी 72844 एस	नायब सूबेदार	रेवत सिंह रावत	30-06-79

## ARMY BRANCH

No. A/40113/ID 79/AG/CW 6

New Delhi, the 15th August 1979

No 9-E dated 13th August 1979.—The President is pleased to grant honorary ranks to the undermentioned JCOs on retirement under para 180 of Regulations for the Army, 1962, with effect from their respective dates of retirement:—

## TO BE HONORARY CAPTAINS

			Date of Retirement
8 CAVALRY			
1 JC 12043 F	Ris Maj & Hony Lt	Suraj Mal	31-05-79
17 HORSE			
2 JC 50461A	Ris & Hony Lt	Ran Singh	31-05-79
9 HORSE			
3 JC 6989 4M	Ris & Hony Lt	Mehar Singh	28-02-79
3 CAVALRY			
4 JC 43077W	Ris & Hony Lt	Amar Singh	31-05-79
63 CAVALRY			
5 JC 15801Y	Ris Maj & Hony Lt	Mukhtiar Singh	31-01-79
67 ARMoured REGIMENT			
6 JC 52300W	Ris & Hony Lt	Zile Singh	31-07-79
70 ARMoured REGIMENT			
7 JC 52334K	Ris & Hony Lt	Daya Nand	30-06-79
72 ARMoured REGIMENT			
8 JC 36936N	Ris Maj & Hony Lt	Partap Singh	31-05-79
83 ARMoured REGIMENT			
9 JC 49852Y	Ris & Hony Lt	Sedu Singh	30-06-79
ARMoured CORPS			
10 JC 43702M	Ris Maj & Hony Lt	Mahabhajan Singh	31-05-79
11 JC 41768K	Ris Maj & Hony Lt	Sampuran Singh	30-06-79
12 JC 67949M	Ris & Hony Lt	Gurdev Singh	30-04-79
*REGIMENT OF ARTILLERY			
13 JC 14344K	Sub Maj & Hony Lt	Anup Singh	31-03-79
14 JC 24242F	Sub Maj & Hony Lt	C Anthony	31-07-79
15 JC 26920P	Sub Maj & Hony Lt	Charn Das	31-03-79
16 JC 15979P	Sub Maj & Hony Lt	Dina Nath	28-02-79

17	JC 13905F	Sub Maj & Hony Lt	Gurbux Singh	31-07-79
18	JC 3989M	Sub Maj & Hony Lt	Gurchain Singh	31-07-79
19	JC 12082A	Sub Maj & Hony Lt	Hari Singh	30-06-79
20	JC 17352N	Sub Maj & Hony Lt	KS Devaji Rao	28-02-79
21	JC 14373Y	Sub Maj & Hony Lt	Kirpal Singh	30-06-79
22	JC 45514K	Sub Maj & Hony Lt	Moonan Tiwary	31-07-79
23	JC 25787L	Sub Maj & Hony Lt	Nand Ram	30-06-79
24	JC 31018X	Sub Maj & Hony Lt	Ram Chander Singh	30-06-79
25	JC 26896K	Sub Maj & Hony Lt	Ram Dayal	31-07-79
26	JC 26895F	Sub Maj & Hony Lt	Rampat Singh	28-02-79
27	JC 25736X	Sub Maj & Hony Lt	Saf James	30-04-79
28	JC 17369F	Sub Maj & Hony Lt	Sagat Singh	30-04-79
29	JC 24252L	Sub Maj & Hony Lt	Sewa Singh	31-03-79
30	JC 17422F	Sub Maj & Hony Lt	Surat Singh	31-03-79
31	JC 17384W	Sub Maj & Hony Lt	TM Mathew	30-06-79
32	JC 24236N	Sub Maj & Hony Lt	Velusamy Pandian	30-06-79
33	JC 479821H	Sub & Hony Lt	Bashambar Das	31-01-79
34	JC 45558F	Sub & Hony Lt	Chanderma	31-01-79
35	JC 45553H	Sub & Hony Lt	Faqir Singh	31-03-79
36	JC 45505H	Sub & Hony Lt	Ghungar Singh	28-02-79
37	JC 34663X	Sub & Hony Lt	Gian Singh	30-06-79
38	JC 45595P	Sub & Hony Lt	Gurmej Singh	31-01-79
39	JC 50075N	Sub & Hony Lt	Haqiqat Rai	31-03-79
40	JC 45276H	Sub & Hony Lt	Lekh Ram Sharma	31-03-79
41	JC 45438H	Sub & Hony Lt	Malak Singh	30-06-79
42	JC 45507N	Sub & Hony Lt	Rai Singh	30-04-79
43	JC 45523L	Sub & Hony Lt	Ranjit Singh	30-04-79
44	JC 45345N	Sub & Hony Lt	Santokh Singh	31-05-79
45	JC 40242L	Sub & Hony Lt	Tara Singh	28-02-79
46	JC 45578P	Sub & Hony Lt	Taj Ram	31-02-79
47	JC 47925F	Sub & Hony Lt	V Kumaran	28-02-79

**MADRAS ENGINEER GROUP**

48	JC 19659X	Sub Maj & Hony Lt	A Narayanan	28-02-79
49	JC 18589X	Sub Maj & Hony Lt	Anthoni	31-03-79
50	JC 38120H	Sub & Hony Lt	K Sivagnana Pandian	28-02-79
51	JC 32875X	Sub & Hony Lt	KM Karuvilla	31-03-79
52	JC 38274P	Sub & Hony Lt	S Dhanapalan	31-03-79

**BENGAL ENGINEER GROUP**

53	JC 25247M	Sub Maj & Hony Lt	Achuta Nand Misra	31-03-79
54	J 31851N	Sub Maj & Hony Lt	Bhagat Singh	31-05-79
55	JC 33187X	Sub Maj & Hony Lt	Dilbagh Singh	31-01-79
56	JC 24669L	Sub Maj & Hony Lt	Durlab Singh	30-04-79
57	JC 30717 W	Sub Maj & Hony Lt	Gurnam Singh	28-02-79
58	JC 26801Y	Sub Maj & Hony Lt	Harbans Singh	31-01-79
59	JC 31491H	Sub Maj & Hony Lt	Jarnail Singh	30-06-79
60	JC 25299H	Sub Maj & Hony Lt	Jaswant Singh Sahota	31-01-79
61	JC 28275K	Sub Maj & Hony Lt	KM Sreedharan	31-01-79
62	JC 26504L	Sub Maj & Hony Lt	MJ John	31-01-79
63	JC 26814W	Sub Maj & Hony Lt	Pt Thomas	31-01-79
64	JC 20561W	Sub Maj & Hony Lt	Randhir Singh	30-04-79
65	JC 26535L	Sub Maj & Hony Lt	Sagli Ram	31-03-79
66	JC 31489L	Sub Maj & Hony Lt	Sham Singh	31-03-79
67	JC 43617K	Sub & Hony Lt	Bah Chand	31-05-79
68	JC 46295A	Sub & Hony Lt	Bikramjit Singh	31-05-79
69	JC 51207H	Sub & Hony Lt	Dali Chand	31-05-79
70	JC 44526M	Sub & Hony Lt	Govardhan Prasad	31-05-79
71	JC 554645A	Sub & Hony Lt	Jagdish Prasad Singh	30-06-79
72	JC 52304M	Sub & Hony Lt	Main Singh	31-01-79
73	JC 44545X	Sub & Hony Lt	Rameshwar Prasad	31-07-79
74	JC 39099B	Sub & Hony Lt	Ravi Singh	31-01-79
75	JC 46235L	Sub & Hony Lt	Sarwan Singh	31-07-79
76	JC 51208L	Sub & Hony Lt	Shiv Datt Singh	28-02-79
77	JC 46241Y	Sub & Hony Lt	Sucha Singh	31-07-79

**BOMBAY ENGINEER GROUP**

78	JC 18383A	Sub Maj & Hony Lt	Man Singh	31-03-79
79	JC 17504K	Sub Maj & Hony Lt	Shripat Chowan	30-06-79
80	JC 41491W	Sub & Hony Lt	Ananda Yadhao	28-02-79
81	JC 43841W	Sub & Hony Lt	Atma Singh	31-07-79
82	JC 43799H	Sub & Hony Lt	Chattar Singh	30-06-79
83	JC 41678H	Sub & Hony Lt	Kalindar Singh	28-02-79
84	JC 36241L	Sub & Hony Lt	Sahebrao Jadhav	31-07-79

**CORPS OF SIGNALS**

85	JC 23235Y	Sub Maj & Hony Lt	Amar Singh	31-01-79
86	JC 23239P	Sub Maj & Hony Lt	Bhag Mal	31-05-79
87	JC 30223M	Sub Maj & Hony Lt	Bir Singh	31-07-79
88	JC 20070A	Sub Maj & Hony Lt	Deputy Lal Mahta	31-03-79
89	JC 32525X	Sub Maj & Hony Lt	Gian Singh, SM	30-04-79
90	JC 48199K	Sub Maj & Hony Lt	Krishna Chandra Maharana	31-07-79
91	JC 30226A	Sub Maj & Hony Lt	Krishan Lal	30-06-79
92	JC 29399L	Sub Maj & Hony Lt	MM Baby	30-06-79
93	JC 31056N	Sub Maj & Hony Lt	Mool Chand	28-02-79
94	JC 48200N	Sub Maj & Hony Lt	Prasanna Kumar Pattanaik	30-06-79
95	JC 30280K	Sub Maj & Hony Lt	R Bala-Krishnan	30-04-79
96	JC 27352F	Sub Maj & Hony Lt	Ram Rath	31-03-79
97	JC 30225X	Sub Maj & Hony Lt	Ranjha Singh	31-05-79
98	JC 44761L	Sub Maj & Hony Lt	Samund Singh	30-06-79
99	JC 56228H	Sub & Hony Lt	M Sreedharan	31-07-79

**BRIGADE OF THE GUARDS**

100	JC 27075F	Sub Maj & Hony Lt	Birendar Singh	28-02-79
101	JC 35572A	Sub Maj & Hony Lt	Dalip Singh	30-06-79
102	JC 55923L	Sub & Hony Lt	Atma Ram	30-06-79
103	JC 41666N	Sub & Hony Lt	Piara Singh	30-06-79

**THE PARACHUTE REGIMENT**

104	JC 34378Y	Sub Maj & Hony Lt	Victor Sequera, SM	28-02-79
-----	-----------	-------------------	--------------------	----------

**THE PUNJAB REGIMENT**

105	JC 24421F	Sub Maj & Hony Lt	Bhim Singh	31-03-79
106	JC 13526L	Sub Maj & Hony Lt	Nasib Singh	31-05-79
107	JC 59224X	Sub & Hony Lt	Amar Singh	31-01-79
108	JC 38211M	Sub & Hony Lt	Amar Singh	31-03-79
109	JC 59479X	Sub & Hony Lt	Gian Chand	30-04-79
110	JC 41374L	Sub & Hony Lt	Sardar Singh	28-02-79

**THE MADRAS REGIMENT**

111	JC 27307P	Sub Maj & Hony Lt	B Krishna Pillai	30-04-79
112	JC 17164M	Sub Maj & Hony Lt	KV Thomas	31-01-79
113	JC 38658K	Sub Maj & Hony Lt	S Rajan	30-06-79
114	JC 21838W	Sub Maj & Hony Lt	V Veerasamy	30-04-79
115	JC 54257Y	Sub & Hony Lt	P Raman	31-05-79
116	JC 35550F	Sub & Hony Lt	Swaminathan, SM	31-07-79

**THE GRENADIERS**

117	JC 39332A	Sub & Hony Lt	Basant Singh	31-01-79
118	JC 56126M	Sub & Hony Lt	Silk Ram	31-07-79

**THE MARATHA, LIGHT INFANTRY**

119	JC 22115N	Sub Maj & Hony Lt	Gangaram Barge	31-07-79
120	JC 12276H	Sub Maj & Hony Lt	Parmeshwar	31-03-79
121	JC 31872K	Sub Maj & Hony Lt	Rajaram Shinde	30-04-79
122	JC 34612K	Sub Maj & Hony Lt	Sakharam Powar	30-06-79
123	JC 16808P	Sub Maj & Hony Lt	Sopan Mane	30-04-79
124	JC 61592X	Sub & Hony Lt	Akbar Singh	31-07-79
125	JC 52214L	Sub & Hony Lt	Dattaji Rao	31-07-79

**THE RAJPUTANA RIFLES**

126	JC 17160W	Sub Maj & Hony Lt	Bhanwar Singh	28-02-79
127	JC 33236P	Sub Maj & Hony Lt	Mir Singh	31-07-79
128	JC 50575L	Sub & Hony Lt	Bed Ram	31-05-79
129	JC 40945M	Sub & Hony Lt	Bhagwan Singh	31-03-79
130	JC 50172L	Sub & Hony Lt	Jai Chand	30-06-79
131	JC 41376P	Sub & Hony Lt	Jawan Singh	28-02-79
132	JC 20051P	Sub & Hony Lt	Sajjan Singh	31-07-79

**THE RAJPUT REGIMENT**

133	JC 24936F	Sub Maj & Hony Lt	Dau Dayal Misra	30-06-79
134	JC 31218N	Sub Maj & Hony Lt	Hari Ram	30-06-79
135	JC 34732H	Sub & Hony Lt	Lajja Ram	31-03-79
136	JC 22971L	Sub & Hony Lt	Rattan Lal	31-07-79

**THE JAT REGIMENT**

137	JC 33166F	Sub Maj & Hony Lt	Rup Ram	31-03-79
138	JC 53273K	Sub & Hony Lt	Raj Bahadur Singh	28-02-79
139	JC 37780N	Sub & Hony Lt	Risal Singh	31-07-79
140	JC 39391M	Sub & Hony Lt	Sumer Singh	31-01-79

**THE SIKH REGIMENT**

141	JC 53020P	Sub & Hony Lt	Raghubir Singh	30-04-79
142	JC 50260F	Sub & Hony Lt	Santokh Singh	31-07-79

**THE SIKH LIGHT INFANTRY**

143	JC 11575P	Sub Maj & Hony Lt	Bant Singh	30-04-79
144	JC 12145X	Sub Maj & Hony Lt	Sardara Singh	31-05-79
145	JC 48068Y	Sub & Hony Lt	Bant Singh	31-05-79

**THE DOGRA REGIMENT**

146	JC 33442Y	Sub & Hony Lt	Baldev Singh	30-06-79
147	JC 49076K	Sub & Hony Lt	Daya Ram	28-02-79
148	JC 34619N	Sub & Hony Lt	Gandharb Singh	28-02-79
149	JC 54718X	Sub & Hony Lt	Surindar Nath	31-01-79

**THE GARHWAL RIFLES**

150	JC 26619Y	Sub Maj & Hony Lt	Bachan Singh Chauhan	31-03-79
-----	-----------	-------------------	----------------------	----------

**THE KUMAON REGIMENT**

151	JC 32962X	Sub Maj & Hony Lt	Balbir Singh	31-07-79
152	JC 35617P	Sub Maj & Hony Lt	Bhupal Singh	30-06-79
153	JC 32889X	Sub Maj & Hony Lt	Chandra Singh	31-03-79
154	JC 30446K	Sub Maj & Hony Lt	Jagnath Singh	30-06-79
155	JC 58145W	Sub & Hony Lt	Ayodhya Prasad Singh	30-06-79
156	JC 37825H	Sub & Hony Lt	Pratap Singh	31-05-79

**THE ASSAM REGIMENT**

157	JC 51172Y	Sub & Hony Lt	Rokhuma Lushai	28-02-79
-----	-----------	---------------	----------------	----------

**THE BIHAR REGIMENT**

158	JC 34898K	Sub Maj & Hony Lt	Joseph Lakra	30-06-79
159	JC 31629M	Sub Maj & Hony Lt	Ram Das Singh Yadava	31-01-79

**THE MAHAR REGIMENT**

160	JC 33947P	Sub Maj & Hony Lt	Bhimrao Shirsat	31-07-79
161	JC 24827P	Sub Maj & Hony Lt	Chand Singh	31-07-79
162	JC 23628P	Sub Maj & Hony Lt	Pritam Singh	31-01-79
163	JC 58984N	Sub & Hony Lt	Munshi Ram	30-06-79

**THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES**

164	JC 15759L	Sub Maj & Hony Lt	Harban Lal	30-04-79
-----	-----------	-------------------	------------	----------

**THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY**

165	JC 31A	Sub Maj & Hony Lt	Shiv Ram	31-07-79
-----	--------	-------------------	----------	----------

**1 GORKHA RIFLES**

166	JC 36892F	Sub Maj & Hony Lt	Dil Bahadur Gurung	31-01-79
-----	-----------	-------------------	--------------------	----------

**3 GORKHA RIFLES**

167	JC 36532L	Sub Maj & Hony Lt	Tej Bahadur Gurung	31-05-79
-----	-----------	-------------------	--------------------	----------

**4 GORKHA RIFLES**

168	JC 53468P	Sub & Hony Lt	Krishna Nand Kanwar	30-06-79
-----	-----------	---------------	---------------------	----------

**8 GORKHA RIFLES**

169	JC 42294A	Sub & Hony Lt	Sewa Sing Thapa	31-01-79
170	JC 44081L	Sub & Hony Lt	Ujer Singh Thapa	31-01-79

**11 GORKHA RIFLES**

171	JC 34534X	Sub Maj & Hony Lt	Tilman Tamang	31-07-79
-----	-----------	-------------------	---------------	----------

## ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

172	JC 21938F	Sub Maj & Hony Lt	AM Thomas	28-02-79
173	JC 40525M	Sub Maj & Hony Lt	Balwant Singh	30-06-79
174	JC 21942K	Sub Maj & Hony Lt	Om Parkash	30-04-79
175	JC 21950H	Sub Maj & Hony Lt	Piara Singh	31-07-79
176	JC 21949N	Sub Maj & Hony Lt	Ramji Dass	30-06-79
177	JC 17905Y	Sub Maj & Hony Lt	Suraj Prakash	28-02-79
178	JC 17900A	Sub Maj & Hony Lt	Tek Chand	28-02-79
179	JC 53512N	Sub & Hony Lt	Aswini Kumar Das	28-02-79
180	JC 56662P	Sub & Hony Lt	B Appala Rao	31-03-79
181	JC 57410P	Sub & Hony Lt	Baldev Singh Parmar	31-03-79
182	JC 57418F	Sub & Hony Lt	Balkrishan Prabhakar	30-04-79
183	JC 53515F	Sub & Hony Lt	Bikarmaditya Tewary	28-02-79
184	JC 53531Y	Sub & Hony Lt	C Naryana Gupta	30-06-79
185	JC 56667N	Sub & Hony Lt	Chamu Singh Kafalia	31-03-79
186	JC 52574F	Sub & Hony Lt	Damodar Chopade	28-02-79
187	JC 57415N	Sub & Hony Lt	Dhanush Dhari Pandey	30-04-79
188	JC 54610A	Sub & Hony Lt	Diptindra Narayan Mujumdar	30-06-79
189	JC 57419K	Sub & Hony Lt	GS Rao	31-05-79
190	JC 56660K	Sub & Hony Lt	Jagat Ram	28-02-79
191	JC 53514Y	Sub & Hony Lt	Jogindar Singh	28-02-79
192	JC 53118H	Sub & Hony Lt	Kapil Deo Singh	31-05-79
193	JC 53123N	Sub & Hony Lt	Karra Gopal	31-05-79
194	JC 56659P	Sub & Hony Lt	Keshab Datt Oli	28-02-79
195	JC 53106N	Sub & Hony Lt	Khagendra Nath Gosh	30-04-79
196	JC 56665H	Sub & Hony Lt	Kishan Chand	31-03-79
197	JC 56668W	Sub & Hony Lt	Krishan Lall Sharma	31-03-79
198	JC 56661M	Sub & Hony Lt	Melikiat Singh	31-03-79
199	JC 59559P	Sub & Hony Lt	PV Chandu Kutty	31-05-79
200	JC 52583H	Sub & Hony Lt	Piara Singh	31-03-79
201	JC 56664A	Sub & Hony Lt	R Subbaiyan	31-03-79
202	JC 53111Y	Sub & Hony Lt	Ram Naresh Singh	30-04-79
203	JC 56678A	Sub & Hony Lt	Rattan Chand Sharma	31-03-79
204	JC 57426A	Sub & Hony Lt	Roshan Lal	30-06-79
205	JC 53513W	Sub & Hony Lt	Sai Pal Sharma	8-0-79
206	JC 53109F	Sub & Hony Lt	Somiran Kumar Das	30-04-79
207	JC 52582A	Sub & Hony Lt	Tara Singh Panesar	31-03-79
208	JC 52576M	Sub & Hony Lt	Tarsem Singh	28-02-79
209	JC 53122L	Sub & Hony Lt	V Varkey	28-02-79

## ARMY SERVICES CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

210	JC 51523F	Sub & Hony Lt	Babir Singh	31-03-79
211	JC 49227X	Sub & Hony Lt	Bhag Mal	31-05-79
212	JC 57080P	Sub & Hony Lt	Bhagat Ram	31-05-79
213	JC 51740X	Sub & Hony Lt	Bishwa Nath Tiwari	30-04-79
214	JC 49226H	Sub & Hony Lt	Chunna Ram	31-01-79
215	JC 43520Y	Sub & Hony Lt	Harbans Lal	31-05-79
216	JC 44062A	Sub & Hony Lt	Jagdish Ram	31-03-79
217	JC 51738A	Sub & Hony Lt	Kaptan Chand	30-04-79
218	JC 57116P	Sub & Hony Lt	Malket Singh	31-05-79
219	JC 57062Y	Sub & Hony Lt	Nand Kishore Pandey	31-05-79
220	JC 44044X	Sub & Hony Lt	Paras Ram	30-06-79
221	JC 57067X	Sub & Hony Lt	Puran Singh	30-06-79

## ARMY MEDICAL CORPS

222	JC 26567N	Sub & Maj Hony Lt	BD Joshi	31-03-79
223	JC 33749A	Sub Maj & Hony Lt	Balwant Singh	30-04-79
224	JC 33751F	Sub Maj & Hony Lt	Hari Bilas	30-04-79
225	JC 41583H	Sub Maj & Hony Lt	Karunakaran Namblar	30-06-79
226	JC 48456W	Sub Maj & Hony Lt	PD Kannan	31-05-79
227	JC 33752K	Sub Maj & Hony Lt	Thomas Mathew	31-05-79
228	JC 52953X	Sub Maj & Hony Lt	VN Sivasdas	30-04-79
229	JC 33753M	Sub Maj & Hony Lt	Zulfi Ram	28-02-79
230	JC 47519F	Sub & Hony Lt	Sohan Singh	31-01-79

## ARMY ORDNANCE CORPS

231	JC 14301P	Sub Maj & Hony Lt	Appa Rao Chitireddi	31-07-79
232	JC 38060	Sub Maj & Hony Lt	Bharat Singh	30-06-79

233	JC 35241Y	Sub Maj & Hony Lt	Dharam Singh	31-03-79
234	JC 38004A	Sub Maj & Hony Lt	Hapal Singh	28-02-79
235	JC 38031K	Sub Maj & Hony Lt	K. Kesava Nambeersan	30-06-79
236	JC 36491H	Sub Maj & Hony Lt	Kehar Singh	31-05-79
237	JC 22796I	Sub Maj & Hony Lt	Krishan Lal	28-02-79
238	JC 35243K	Sub Maj & Hony Lt	Lajpat Rai	31-05-79
239	JC 38023L	Sub Maj & Hony Lt	MG Varghese	31-05-79
240	JC 32730Y	Sub Maj & Hony Lt	Mr Venkateswaran	31-07-79
241	JC 22821P	Sub Maj & Hony Lt	Manjit Lal Kakria	31-05-79
242	JC 48873H	Sub Maj & Hony Lt	P Thankappan Nair	31-07-79
243	JC 37043M	Sub Maj & Hony Lt	PC Thomas	31-05-79
244	JC 22811L	Sub Maj & Hony Lt	R Balasubramaniam	31-05-79
245	JC 11108X	Sub Maj & Hony Lt	Ram Murti Rattan	31-05-79
246	JC 34775X	Sub Maj & Hony Lt	Ram Singh	31-01-79
247	JC 35417Y	Sub Maj & Hony Lt	Ram Tirath Sharma	31-03-79
248	JC 38294H	Sub Maj & Hony Lt	Shambhu Prasad	30-06-79
249	JC 22802K	Sub Maj & Hony Lt	Sham Lal Gupta	31-05-79
250	JC 10999Y	Sub Maj & Hony Lt	Shiva Chandr Pandey	31-07-79
251	JC 48101L	Sub Maj & Hony Lt	Suraj Inder Sharma	30-04-79
252	JC 30862N	Sub Maj & Hony Lt	TC Raman	30-06-79
253	JC 35242F	Sub Maj & Hony Lt	TK Philipose	31-05-79
254	JC 22812N	Sub Maj & Hony Lt	Tilak Raj Sawhney	31-05-79
255	JC 61627W	Sub & Hony Lt	Krishna Kumar Singh	28-02-79
256	JC 54341Y	Sub & Hony Lt	Rajendra Singh	31-03-79

## CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

257	JC 14774N	Sub Maj & Hony Lt	Ajit Singh	31-01-79
258	JC 17748X	Sub Maj & Hony Lt	DA Chitale	28-02-79
259	JC 19246N	Sub Maj & Hony Lt	Deep Chand	30-06-79
260	JC 27024N	Sub Maj & Hony Lt	Hukam Singh	31-03-79
261	JC 19058M	Sub Maj & Hony Lt	Jai Chand	31-07-79
262	JC 18692H	Sub Maj & Hony Lt	K. Lakshmanan	31-03-79
263	JC 18677N	Sub Maj & Hony Lt	Karam Singh	31-07-79
264	JC 35449F	Sub Maj & Hony Lt	Murigappa Karabasappa	31-07-79
			Dodamani	
265	JC 26457Y	Sub Maj & Hony Lt	Om Dutt	31-01-79
266	JC 14778K	Sub Maj & Hony Lt	Ram Parkash	31-03-79
267	JC 18660A	Sub Maj & Hony Lt	Tarsem Dass	31-03-79
268	JC 54569P	Sub & Hony Lt	Dayanand Choubey	31-05-79
269	JC 46392X	Sub & Hony Lt	P Balakrishnan	31-01-79
270	JC 58725L	Sub & Hony Lt	Satya Paul	31-05-79
271	JC 56752W	Sub & Hony Lt	TP Sivasankaran	28-02-79

## ARMY EDUCATION CORPS

272	JC 18267X	Sub Maj & Hony Lt	Ajmer Singh	30-04-79
273	JC 18270X	Sub Maj & Hony Lt	Bhupinder Singh	31-05-79
274	JC 18268A	Sub Maj & Hony Lt	Chander Parkash	30-04-79
275	JC 21311F	Sub Maj & Hony Lt	Radha Krishen Kachreo	31-03-79
276	JC 17105A	Sub Maj & Hony Lt	Ram Narain	30-04-79
277	JC 21304L	Sub Maj & Hony Lt	Uttam Chand	31-01-79
278	JC 52356H	Sub & Hony Lt	Ajmer Singh	28-02-79
279	JC 53901N	Sub & Hony Lt	Deo Raj Singh	31-07-79
280	JC 52600X	Sub & Hony Lt	Gokula Nand Upadhyaya	31-03-79
281	JC 52359W	Sub & Hony Lt	Hirdya Nand Tiwari	31-03-79
282	JC 30637Y	Sub & Hony Lt	Hoshier Singh	31-01-79
283	JC 52358N	Sub & Hony Lt	Jagobandhu Choudhury	31-03-79
284	JC 52347F	Sub & Hony Lt	Kapil Deo Sharma	31-03-79
285	JC 22602H	Sub & Hony Lt	Sarabjit Singh	31-05-79

## THE INTELLIGENCE CORPS

286	JC 23904M	Sub Maj & Hony Lt	MM Gangadharan Nair	30-06-79
287	JC 34555N	Sub & Hony Lt	Sarjit Singh	31-05-79

## CORPS OF MILITARY POLICE

288	JC 21834A	Sub Maj & Hony Lt	Ude Singh Rawat	31-03-79
289	JC 49811P	Sub & Hony Lt	Man Singh	31-03-79

**THE PIONEER CORPS**

290 JC 16075F	Sub Maj & Hony Lt	Amin Lal Singh	31-05-79
---------------	-------------------	----------------	----------

**DEFENCE SECURITY CORPS**

291 JC 4176	Sub Maj & Hony Lt	Harbans Singh	31-05-79
292 JC 46340	Sub Maj & Hony Lt	MK Govindan Nair	30-04-79

**TO BE HONORARY LIEUTENANTS****75 ARMoured REGIMENT**

1 JC 24671H	Ris Maj	Udebir Singh	31-07-79
-------------	---------	--------------	----------

**REGIMENT OF ARTILLERY**

2 JC 29045H	Sub Maj	Ram Ram	31-07-79
-------------	---------	---------	----------

**MADRAS ENGINEER GROUP**

3 JC 15841A	Sub Maj	Daniel Peter	31-03-79
-------------	---------	--------------	----------

**BENGAL ENGINEER GROUP**

4 JC 33974X	Sub Maj	Anand Singh	30-06-79
5 JC 30267K	Sub Maj	Balwant Singh	31-01-79
6 JC 28251A	Sub Maj	Gurdial Singh Hundal	28-02-79
7 JC 27518X	Sub Maj	Iqbal Singh	28-02-79
8 JC 28268N	Sub Maj	K Arulsami	31-01-79
9 JC 30970X	Sub Maj	Lal Singh Nayal	28-02-79
10 JC 27507L	Sub Maj	N Maheswara Bhattathiri	30-04-79
11 JC 34110F	Sub Maj	P Lakshmanan	31-01-79
12 JC 34755K	Sub Maj	P Samuel Mathew	31-01-79
13 JC 33361X	Sub Maj	P Sankaranarayanan	31-07-79
14 JC 28739W	Sub Maj	P K Gopinathan Nair	30-06-79
15 JC 27520P	Sub Maj	Ram Partap	31-03-79
16 JC 27519A	Sub Maj	Shyam Singh	30-06-79
17 JC 33001N	Sub Maj	Sudarshan Singh	31-01-79
18 JC 28741 N	Sub Maj	V S Sukumaran	30-06-79

**BOMBAY ENGINEER GROUP**

19 JC 23140Y	Sub Maj	Namdeo Dhamankar	31-05-79
20 JC 30228L	Sub Maj	Hazara Singh	30-04-79

**THE SIKH REGIMENT**

21 JC 19149W	Sub Maj	Gurmail Singh	31-03-79
--------------	---------	---------------	----------

**ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)**

22 JC 44136K	Sub Maj	Chattar Singh	31-01-79
23 JC 21945X	Sub Maj	Joginder Singh	30-04-79

**ARMY MEDICAL CORPS**

24 JC 35975A	Sub Maj	Ram Sukh Pandey	31-03-79
--------------	---------	-----------------	----------

**CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS**

25 JC 35426A	Sub Maj	Girdhari Narain Singh	28-02-79
26 JC 11135F	Sub Maj	Ramnaram Sharma	31-03-79

**DEFENCE SECURITY CORPS**

27 JC 6616	Sub Maj	AB Ganapathi	30-06-79
28 JC 4134	Sub Maj	FS Joseph	31-01-79
29 JC 4207	Sub Maj	Jagat Ishwar Singh	31-05-79
30 JC 23200	Sub Maj	K Ranganatha Rao	30-06-79
31 JC 5057	Sub Maj	Kunwar Singh	30-11-75
32 JC 9520	Sub Maj	Lachman Singh	31-01-79
33 JC 41690 JC	Sub Maj	PK Balakrishnan	30-04-79

**TO BE HONORARY RISALDAR/SUBEDAR MAJORS****3 CAVALRY**

1 JC 60451K	Ris	Ram Narain Singh	30-06-79
-------------	-----	------------------	----------

**4 HORSE**

2 JC 67030K	Ris	Joginder Singh	31-07-79
-------------	-----	----------------	----------



<b>63 CAVALRY</b>			
3 JC 55526M	Ris	Jainarain Singh	30-04-79
<b>64 CAVALRY</b>			
4 JC 50886Y	Ris	Sohan Singh	31-07-79
<b>70 ARMoured REGIMENT</b>			
5 JC 54783X	Ris	Hans Raj Singh	30-01-79
<b>73 ARMoured REGIMENT</b>			
6 JC 61994H	Rls	Mohd Yunis Khan	31-07-79
<b>82 ARMoured REGIMENT</b>			
7 JC 49800H	Ris	KB Bollappa	26-06-79
8 JC 63880W	Ris	Sukhbir Singh	28-02-79
<b>86 ARMoured REGIMENT</b>			
9 JC 49148H	Ris	Shoo Prasad Singh	31-07-79
<b>ARMoured CORPS</b>			
10 JC 48729N	Ris	Jagpal Singh	30-04-79
11 JC 53548M	Ris	Nawal Singh	28-02-79
12 JC 72972K	Ris	Parkash Chand Sharda	31-05-79
13 JC 50735A	Ris	Piara Singh Deol	31-07-79
14 JC 54340W	Rls	Rameshwar Dass	30-04-79
<b>REGIMENT OF ARTILLERY</b>			
15 JC 37899X	Sub	AK Sivadas	38-02-79
16 JC 53647P	Sub	Agraharapu Konda	31-03-79
17 JC 45372X	Sub	Bhaveneshwar Chander	30-04-79
18 JC 47193W	Sub	Brij Raj Sharma	31-05-79
19 JC 53413L	Sub	Om Raghavan	28-02-79
20 JC 64114M	Sub	Dhan Pal	31-07-79
21 JC 47246K	Sub	Mohinder Singh	31-03-79
22 JC 45271K	Sub	P. Ananda Kurup	31-01-79
23 JC 50370W	Sub	Puran Singh	28-02-79
24 JC 45440A	Sub	Puren Singh	28-02-79
25 JC 45576K	Sub	Ram Deo Tripathi	31-07-79
26 JC 45272M	Sub	Ram Kanwar Singh	31-07-79
27 JC 33271X	Sub	S. Manickam	30-04-79
28 JC 47904L	Sub	Sohan Lal	31-05-79
29 JC 45590W	Sub	T. G. Varkey	28-02-79
30 JC 58516N	Sub	Tirathram Sharma	31-01-79
<b>BENGAL ENGINEER GROUP</b>			
31 JC 39560H	Sub	Amar Chand	28-02-79
32 JC 38097A	Sub	Dev Jang Mal	31-05-79
33 JC 51113L	Sub	Dhani Lal	31-05-79
34 JC 35688W	Sub	Jagmail Singh	31-07-79
35 JC 47019K	Sub	Mahesha Nand	31-03-79
36 JC 42146P	Sub	Sarjit Singh	30-06-79
37 JC 39098P	Sub	Sateh Singh Tariyal	31-07-79
38 JC 43948L	Sub	Suraj Bhan Singh	30-06-79
<b>BOMBAY ENGINEER GROUP</b>			
39 JC 43641A	Sub	Hindurao Thorat	31-01-79
<b>CORPS OF SIGNALS</b>			
40 JC 37240P	Sub	A Sreedhara Menon	31-01-79
41 JC 61733P	Sub	Bua Ditta Mall	31-03-79
42 JC 56197N	Sub	Kamal Ranjan Sarkar	31-01-79
43 JC 56196L	Sub	Om Parkash	31-01-79
44 JC 58805H	Sub	T.K. Venugopal	30-06-79
45 JC 52284K	Sub	W. Bharathan	30-06-79
<b>THE SIKH REGIMENT</b>			
46 JC 54648K	Sub	Piara Singh	31-07-79

## THE SIKH LIGHT INFANTRY

47	JC 39294P	Sub	Nasib Singh	31-01-79
----	-----------	-----	-------------	----------

## THE DOGRA REGIMENT

48	JC 55431M	Sub	Glan Chand	30-06-79
49	JC 44247F	Sub	Janak Singh	31-01-79
50	JC 66053Y	Sub	Kesar Singh Pathania	31-07-79
51	JC 41616H	Sub	Pancham Chand	31-10-78
52	JC 48564A	Sub	Parma Nand	30-04-79
53	JC 45135N	Sub	Prakarm Chand	31-12-78
54	JC 49997K	Sub	Punjab Singh	30-04-79
55	JC 9340K	Sub	Ram Kishore Shastri	30-06-79

## THE GARHWAL RIFLES

56	JC 53461L	Sub	Gaje Singh Rawat	31-05-79
----	-----------	-----	------------------	----------

## THE KUMAON REGIMENT

57	JC 57676L	Sub	Laxman Singh	31-05-79
58	JC 59939N	Sub	Mathura Datt Lohumi	28-02-79

## THE ASSAM REGIMENT

59	JC 51098F	Sub	Llandawla Lushai	31-07-79
60	JC 60343A	Sub	Nandeswar Ray	31-01-79
61	JC 48330W	Sub	Neiselle Angami	31-03-79

## THE MAHAR REGIMENT

62	JC 50716P	Sub	Babu Ram	30-04-79
63	JC 44092X	Sub	Jaswant Singh	31-07-79
64	JC 48477M	Sub	K. Sridharan.	30-06-79
65	JC 53959L	Sub	Madhavan Nair	31-07-79

## ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

66	JC 57428L	Sub	Ajit Singh	30-06-79
67	JC 29961K	Sub	Chanan Singh	28-02-79
68	JC 57433W	Sub	Darshan Singh	31-07-79
69	JC 56658M	Sub	Dwijendra Nath Pramanik	28-02-79
70	JC 29744N	Sub	Harbhajan Singh	10-03-79
71	JC 53510H	Sub	Iqbal Singh	31-01-79
72	JC 30095A	Sub	Jagannath Suri	28-02-79
73	JC 57411X	Sub	Jagdish Chand	30-04-79
74	JC 57420Y	Sub	Jagdish Prashad	30-04-79
75	JC 57429N	Sub	K. Madhava Menon	31-07-79
76	JC 56670N	Sub	K.A. George	31-03-79
77	JC 56675M	Sub	K.J. Abraham	31-03-79
78	JC 57424P	Sub	M. Dhanasukumar	31-05-79
79	JC 57427H	Sub	Mizaji Lal	30-06-79
80	JC 53119L	Sub	Mukand Lal Sharma	31-05-79
81	JC 59545P	Sub	Nani Gopal Balomazumdar	28-02-79
82	JC 53127K	Sub	Narma Deshwar Pandey	31-07-79
83	JC 53117A	Sub	Nirapada Roy	31-05-79
84	JC 53717H	Sub	P.K. Sreedharan	31-03-79
85	JC 52584L	Sub	Pritam Lal	31-03-79
86	JC 52577P	Sub	Pritam Singh	28-02-79
87	JC 52572X	Sub	Puthenparampil Ayanthil	28-02-79
			John Thomas	
88	JC 57421F	Sub	R. Venkataraman	28-02-79
89	JC 47489P	Sub	Raj Narain	30-04-79
90	JC 57430H	Sub	Ram Datt	31-07-79
91	JC 57438P	Sub	Someshwar Garde	30-06-79
92	JC 52571N	Sub	Sudarsan Sanyal	28-02-79
93	JC 56663X	Sub	V. Radhakrishna Kurup	31-03-79

**ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)**

94	JC 51995X	Ris	Ramloo	30-04-79
----	-----------	-----	--------	----------

**ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)**

95	JC 43460P	Sub	Joginder Singh	28-02-79
96	JC 44035W	Sub	Mukand Singh	31-03-79
97	JC 51529H	Sub	Pandaramnadar Chellasami	31-07-79
98	JC 10324Y	Sub (Rt)	Pandit Brij Mohan Sharma	30-06-79
99	JC 57060N	Sub	Parameswaran Viswanathan	31-05-79
100	JC 57073L	Sub	Ram Lal	30-04-79
101	JC 54786L	Sub	Sarup Singh	31-05-79
102	JC 52978K	Sub	Shri Nath Singh	31-05-79

**ARMY MEDICAL CORPS**

103	JC 50244K	Sub	C.M. Sreedharan	31-05-79
104	JC 51605K	Sub	Chet Nath Mishra	31-07-79
105	JC 42830X	Sub	Des Raj Sharma	31-05-79
106	JC 42887M	Sub	Deva Rajalu	28-02-79
107	JC 50245M	Sub	Gondur Tayade	30-05-79
108	JC 45214H	Sub	Harbhajan Singh	30-04-79
109	JC 65930P	Sub	Hirdai Narain Singh	28-02-79
110	JC 42839M	Sub	Hoshiar Singh	30-04-79
111	JC 62389F	Sub	Kameshwar Singh	28-02-79
112	JC 45217W	Sub	Kunj Behari Sharma	31-07-79
113	JC 46469P	Sub	Munshi Ram Chohan	31-01-79
114	JC 42889X	Sub	P.R. Gopala Krishna Pillai	30-04-79
115	JC 32873Y	Sub	Phani Bhushan Ghosh	31-01-79
116	JC 45236F	Sub	Raghubansh Prasad Sinha	31-05-79
117	JC 63645X	Sub	Ram Nath Singh	31-01-79
118	JC 57304W	Sub	Rattan Singh	30-06-79
119	JC 50246P	Sub	Saran Singh	31-07-79
120	JC 49460L	Sub	Shamlr Singh	28-02-79
121	JC 50242Y	Sub	Shri Niwas Singh	30-04-79
122	JC 65951L	Sub	Siri Lal	30-06-79
123	JC 45207M	Sub	Solomon Emmanuel	31-01-79
124	JC 45211P	Sub	Ujagar Singh	31-01-79

**ARMY ORDNANCE CORPS**

125	JC 61633K	Sub	Hardyal Singh	31-03-79
126	JC 49675K	Sub	Hari Laxman Sable	28-02-79
127	JC 64424X	Sub	J. Samraj	31-05-79
128	JC 50758F	Sub	N.P. Madhavan	28-02-79
129	JC 49674F	Sub	Niranjan Das	28-02-79
130	JC 61632F	Sub	Raman Kutty Nair	31-03-79
131	JC 61630W	Sub	Shivappa Kore	31-03-79
132	JC 63370P	Sub	T. Damodaran Nedungadi	31-01-79
133	JC 46677K	Sub	Tareem Singh	28-02-79

**CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS**

134	JC 43159Y	Sub	Bakwant Singh	30-04-79
135	JC 59158A	Sub	D. Krishna Murthi	18-11-78
136	JC 52922X	Sub	Dul Singh	31-03-79
137	JC 45927N	Sub	Govind Prasad Dwivedi	30-06-79
138	JC 47260W	Sub	Hakikat Rai	31-05-79
139	JC 46705L	Sub	Janam Singh	31-07-79
140	JC 47261Y	Sub	Joga Singh	31-05-79
141	JC 43208W	Sub	Joginder Singh	31-01-79
142	JC 46394H	Sub	Joginder Singh	30-04-79
143	JC 46396N	Sub	Kehar Singh Dhariwal	31-05-79
144	JC 58718P	Sub	Khel Singh	30-04-79

145	JC 48307H	Sub	N Sethumadhavan Nair	30-06-79
146	JC 40837H	Sub	Om Parkash	31-01-79
147	JC 46395L	Sub	Puran Chand	30-04-79
148	JC 56771F	Sub	Puran Mal	31-03-79
149	JC 39621P	Sub	S.P. Narasimhan	31-05-79
150	JC 47262F	Sub	Tarlok Nath Sharma	31-07-79
151	JC 43223L	Sub	Thakar Dass	31-03-79
152	JC 56651H	Sub	Yaqub Khan	28-02-79
153	JC 47258Y	Sub	Zile Singh	31-05-79

## Army Education Corps

154	JC 46513N	Sub	Bal Krishan	31-03-79
155	JC 60538L	Sub	Bidya Bhar Pandey	28-02-79
156	JC 52212A	Sub	Jit Singh	28-02-79
157	JC 31162M	Sub	Krishan Gopal Sawhney	28-02-79
158	JC 52240M	Sub	Krishan Chandra Das	28-02-79

## The Intelligence Corps

159	JC 35256F	Sub	Lakshmi Narain Seth	30-04-79
-----	-----------	-----	---------------------	----------

## Defence Security Corps

60	JC 64786X	Sub	Go Madhavan Nambiar	31-07-79
----	-----------	-----	---------------------	----------

## TO BE HONORARY RISALDARS/SUBEDARS

## 2 LANCERS

1	JC 78677X	NB RIS	Man Singh	31-08-78
---	-----------	--------	-----------	----------

## REGIMENT OF ARTILLERY

2	JC 66806A	NB Sub	Duli Chand	31-01-79
3	JC 76266A	NB Sub	MR Kumaran	31-03-79

## BENGAL ENGINEER GROUP

4	JC 54505K	NB Sub	JANARDAN PANDEY	31-01-79
5	JC 74449F	NB Sub	Rajesh Kumar	30-04-79

## BOMBAY ENGINEER GROUP

6	JC 72863X	NB Sub	Balak Ram	31-05-79
7	JC 72643M	Sub NB	Keshao Salaskar	31-05-79
8	JC 72879H	NB Sub	Laxman Arslkar	31-03-79

## CORPS OF SIGNALS

9	JC 73809W	NB Sub	MAGnana Prag-asam	31-07-79
---	-----------	--------	-------------------	----------

## THE GRENADIERS

10	JC 82617A	NB Sub	Amar Singh	31-07-79
11	JC 71857X	NB Sub	Jadunath Singh	31-03-79

## THE DOGRA REGIMENT

12	JC 75431N	NB Sub	Ravi Singh	22-08-79
----	-----------	--------	------------	----------

## ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

13	JC 59404A	Nb Sub	Dharam Singh	30-04-79
14	JC 596652W	Nb Sub	Krishan Chand	30-11-78
15	JC 59458F	Nb Sub	Mohinder Singh	31-10-79
16	JC 59416P	Nb Sub	S. Sundara Raj	28-02-79
17	JC 61363F	Nb Sub	Sharad Dhondopant Phanse	30-04-79

## ARMY MEDICAL CORPS

18	JC 67289A	Nb Sub	Inderjit Singh Raghawa	30-06-79
19	JC 53161K	Nb Sub	Maghar Ram	30-06-79
20	JC 67288X	Nb Sub	Mahesha Nand	30-06-79
21	JC 53166H	Nb Sub	Mehtab Singh Jaryal	31-07-79
22	JC 53164X	Nb Sub	Saman Singh	28-02-79

## CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

23	JC 76702M	Nb Sub	C. Chandran Nair	30-06-79
24	JC 72844M	Nb Sub	Rawat Singh Rawat	30-06-79

सं० 10—ई विनांक 13 अगस्त, 1979.—राष्ट्रपति सहर्ष स्वतन्त्रता दिवस (1 अगस्त, 1979) के अवसर पर निम्नलिखित एन सी प्रोन्न को उनके अवकाश ग्रहण करने पर सेना विनियमावली, 1962 के पैरा 181 के अधीन उनके नाम के सामने दी गई तारीख से, अवैतनिक नायब रिसालदार/सूबेदार का पद प्रदान करते हैं :—

## नायब रिसालदार/सूबेदार के अवैतनिक रैंक में

8 केवेलरी			
1 1026408 एम	वफादार	तिरफोक सिंह	31-01-79
2 सांसर्स			
2 1026817 ए	वफादार	बिजय पास सिंह	28-02-79
17 होर्स			
3 1025256 के	वफादार	अरजुन सिंह	30-09-78
4 1026633 एफ	वफादार	भाग सिंह	28-02-79
5 1026422 बाई	वफादार	हरी सिंह	31-01-79
9 होर्स			
6 1026477 एन	वफादार	करन सिंह	31-01-79
सैन्ड्रल इण्डिया होर्स			
7 1026261 एफ	वफादार	मन्व किशोर	31-01-79
62 केवेलरी			
8 1023822 ए	वफादार	धरम पास	31-05-79
06 थर्मंड रेजिमेन्ट			
9 1146194 एक्स	वफादार	बसी राम भावडकर	31-01-79
10 1146907 एक्स	वफादार	शंकर विक्रम	28-02-79
70 थर्मंड रेजिमेन्ट			
11 1025995 डब्ल्यू	वफादार	भूमी लाल	30-11-78
72 थर्मंड रेजिमेन्ट			
12 1025239 ए	वफादार	जुगती राम	06-01-79
13 1026776 एम	वफादार	राम अमरतार सिंह	28-03-79
14 1027133 डब्ल्यू	वफादार	सूर्यनाथ सिंह	30-04-79
74 थर्मंड रेजिमेन्ट			
15 102601 एन	वफादार	प्रीतम सिंह	31-12-78
81 थर्मंड रेजिमेन्ट			
16 1026337 डब्ल्यू	वफादार	देवी गुलाम सिंह	31-01-79
82 थर्मंड रेजिमेन्ट			
17 1027152 एफ	वफादार	हरबीर सिंह	30-04-79
थर्मंड कोर			
18 1025206 बाई	वफादार	वरन सिंह गिल	30-11-78
19 1025492 एल	वफादार	के मरियाप्पन	08-01-79
20 1024738 एम	वफादार	तारा धन्व	17-12-78
रेजिमेन्ट थाफ घाटिलरी			
21 1145731 एल	हवलदार	अजायब सिंह बाला	31-12-78
22 1149267 के	हवलदार	अमर सिंह	31-05-79
23 1145944 बाई	हवलदार	अमरजीत सिंह	31-12-78
24 1145540 डब्ल्यू	हवलदार	आनन्दाराव जाटीसे	31-12-78
25 1145542 एम	हवलदार	अतार सिंह	31-12-78
26 1146020 एक्स	हवलदार	अमरतार सिंह	31-01-79
27 1146693 एम	हवलदार	अमरतार सिंह	28-02-79
28 1147221 एन	हवलदार	बी० बी० जयप्पा	28-02-79
29 1145758 एन	हवलदार	बलदेव सिंह	31-12-78
30 1146116 ए	हवलदार	बासलिंगप्पा कूचनूर	31-01-79
31 1147822 एन	हवलदार	भून्	30-4-79
32 1146520 पी	हवलदार	बराउन डोमीन	31-01-79
33 1147462 एन	हवलदार	बुधा विस्त	31-03-79
34 6632103 पी	हवलदार	छत्रपति निवारी	31-12-78
35 1147978 के	हवलदार	चिकिले चेन्नया	31-03-79

36	1145478 श्री	हृदय दार	दलीप सिंह	31-12-78
37	1140592 बाई	हृदय दार	दया नन्द यादव	31-01-79
38	1149107 के	हृदय दार	दया राम	31-05-79
39	1146163 एम	हृदय दार	देवी चन्द	31-01-79
40	1146275 एम	हृदय दार	धनी राम	31-01-79
41	1145099 बाई	हृदय दार	धर्म पास	30-11-79
42	1145492 एक	हृदय दार	दनीप कुमार प्रधान	31-12-78
43	1146788 एम	हृदय दार	दीशान सिंह	28-02-79
44	1148320 एम	हृदय दार	ई. पी. प्रपुनी मेनन	31-05-79
45	1147022 पी	हृदय दार	ईश के एम	28-02-79
46	1149260 डब्ल्यू	हृदय दार	जानि चन्द	31-05-79
47	1146366 एक	हृदय दार	गुलशन सिंह	31-01-79
48	1148217 एम	हृदय दार	हरदेव सिंह	30-04-79
49	1145541 बाई	हृदय दार	हरी सिंह	31-12-78
50	1145152 के	हृदय दार	शिवरामन प्रार	30-04-79
51	1145822 पी	हृदय दार	हृका बहादुर राय	31-12-78
52	1146067 एम	हृदय दार	हेन राम	31-01-79
53	1146542 एन	हृदय दार	जगतार सिंह	31-01-79
54	1147727 एक	हृदय दार	जन्मी लाल	31-03-79
55	1149278 डब्ल्यू	हृदय दार	के. बी. नागायणन	31-05-79
56	1145162 के	हृदय दार	कबीराज मगर	31-12-78
57	1149090 एक	हृदय दार	कलबन्त सिंह	31-05-79
58	1145260 एच	हृदय दार	कुन्दन सिंह	30-11-78
59	1147592 एल	हृदय दार	लक्ष्मण प्रभार	31-03-79
60	1145802 एक	हृदय दार	एम. प्रार गोपालकृष्ण भायर	31-12-78
61	1141525 के	हृदय दार	मातादीन माली	31-12-78
62	1148122 एम	हृदय दार	मातू राम	30-04-79
63	1145148 डब्ल्यू	हृदय दार	माया राम	30-11-78
64	1147749 ए	हृदय दार	मेवा सिंह	31-03-79
65	1146913 एक	हृदय दार	मोहन सिंह	31-01-79
66	1146165 एच	हृदय दार	मोहन सिंह प्रार	31-01-79
67	1146695 एम	हृदय दार	महिल्वर सिंह	28-02-79
68	1145626 पी०	हृदय दार	मुखतियार सिंह	31-12-78
69	1145288 एच	हृदय दार	एन. एम. थोमस	30-11-78
70	1146812 एम	हृदय दार	नाथ सिंह	28-02-79
71	1144952 एन	हृदय दार	नागायणन के	30-11-78
72	1145192 ए	हृदय दार	श्रीधर सिंह	30-11-78
73	1146421 एम	हृदय दार	पी. के. कृष्णन भायर	31-01-79
74	1145611 एम	हृदय दार	प्रकाश सिंह	31-12-79
75	1146612 एक	हृदय दार	पृथ्वी सिंह	31-01-79
76	1147072 ए	हृदय दार	प्रेम सिंह	28-02-79
77	1147013 एन	हृदय दार	राधवन एन	28-02-79
78	1146561 बाई	हृदय दार	रघवीर सिंह	31-01-79
79	1145185 के	हृदय दार	रघवीर सिंह शर्मा	30-11-78
80	1146009 बाई	हृदय दार	राजेश्वर सिंह	31-01-79
81	1148380 एम	हृदय दार	रूप चन्द	31-05-79
82	1146413 एन	हृदय दार	एस. ईश्वर मूर्ति	31-01-79
83	1145580 एम	हृदय दार	सतीश सिंह	31-12-78
84	1145789 एच	हृदय दार	सतीश सिंह	31-12-78
85	1147207 एन	हृदय दार	सतीश सिंह	30-04-79
86	1146233 एन	हृदय दार	सन्मुख सिंह	31-01-79
87	1146032 एम०	हृदय दार	शमशेर सिंह	31-01-79
88	1146855 एन	हृदय दार	शरत सिंह	28-02-79
89	1148603 बाई	हृदय दार	शिवराम सिंह	31-05-79
90	1146074 बाई	हृदय दार	शिवशरन सिंह	31-01-79
91	1146463 बाई	हृदय दार	शिवशरन पिन्ने पी	31-01-79

92	1145329 एफ	हवलदार	शरण भान	31-12-78
93	1145601 एच	हवलदार	श. तेन्दर सिंह	31-12-78
94	1148130 एल	हवलदार	ट. के पिछाड़	30-04-79
95	1147440 के	हवलदार	गणेश सिंह	31-03-79
96	1146113 एम	हवलदार	तिलक राज	31-01-79
97	1146499 एक्स	हवलदार	यू.एम. नकुन्दा	31-01-79
98	1148315 एम	हवलदार	वी. विहारामा पिन्ने	31-05-79
99	1146921 ने	हवलदार	वी. श्रीराम मो	28-02-79
100	1148032 एल	हवलदार	वी. ए. मनी	30-04-79
101	1146961 एल	हवलदार	विश्वनाथ सिंह	28-02-79
102	1111571 एम	हवलदार	यासीन	31-12-78
<b>मद्रास इंजीनियर ग्रुप</b>				
103	1314854 के	हवलदार	मी. जार्ज	31-05-79
104	1312818 डब्ल्यू	हवलदार	घिननाप्पन	31-01-79
105	1314308 एन	हवलदार	एफ. मोसोमन	31-01-79
106	1313493 ए	हवलदार	जी. मुन्बारायलू	30-06-79
107	1314808 एल	हवलदार	कालियामूर्ति	31-07-79
108	1313118 पी	हवलदार	कासी	31-07-79
109	1313021 के	हवलदार	मुनिस्वादी	31-03-79
110	1312888 पी	हवलदार	गुरुमन	28-02-79
111	1314854 ए	हवलदार	पो. कृष्णन पोद्दुवेल	31-07-79
112	1312907 पी	हवलदार	श. गुण	28-02-79
113	1314052 डब्ल्यू	हवलदार	श्रीधरन गिल्ले	31-05-79
114	1314385 एच	हवलदार	टी. रंगनाथन	31-03-79
115	1313012 एच	हवलदार	वी. बालकृष्णनन्	31-03-79
116	1314546 ए	हवलदार	विस्वानाथन नायर नेरुनेरी	31-03-79
<b>बंगाल इंजीनियर ग्रुप</b>				
117	1421581 ए	हवलदार	थान सिंह रोथान	16-01-79
118	1409875 एफ०	हवलदार	हथान सिंह	28-02-79
119	8360252 एम०	हवलदार	थिठन शिन्डे	31-01-79
<b>कोम्बे इंजीनियर ग्रुप</b>				
120	11511924 एम	हवलदार	अजमेर सिंह	31-05-79
121	1511680 के	हवलदार	आरमाराम पिक्कुलकर	31-03-79
122	1411528 डब्ल्यू	हवलदार	अगव. तं सिंह	31-01-79
123	1511898 डब्ल्यू	हवलदार	मुपिन्दर सिंह	31-05-79
124	1511541 ए	हवलदार	छज. सिंह	31-01-79
125	1511915 एल	हवलदार	गुरमीत सिंह	31-05-79
126	1512085 एम०	हवलदार	करतार सिंह	31-07-79
127	1511772 डब्ल्यू	हवलदार	लक्ष्मन धानकडे	30-06-79
128	1511976 एच	हवलदार	लिबाजी अकोलकर	30-06-79
129	1511522 पी	हवलदार	मुखनितार सिंह	31-01-79
130	1511899 वाई	हवलदार	नछतर सिंह	31-05-79
131	1511940 के	हवलदार	नगिस्वर सिंह	30-06-79
132	1511981 ए	हवलदार	नियाम अहमद खान	30-06-79
133	1562723 डब्ल्यू	हवलदार	शिव. रं. धिमरे	31-07-79
134	1511662 एफ	हवलदार	शिवार्जुन हावे	28-02-79
135	1511559 डब्ल्यू	हवलदार	शिवराम जंगम	31-01-79
136	1512064 डब्ल्यू	हवलदार	विष्णू पाटेल	30-06-79
<b>कोर ग्रॉफ सिग्नल</b>				
137	6270714 ई	हवलदार	अजीत सिंह	31-01-79
138	6271921 वाई	हवलदार	अज. नाथ सिंह	31-05-79
139	6271672 एल	हवलदार	ब. रं. शि. सिंह	30-04-79
140	6272015 एन	हवलदार	दत्तात्रेया पटंगे	31-05-79
141	6270825 एफ	हवलदार	इ. के. असोकन	29-12-78
142	6272531 एच	हवलदार	फासिय गिरकर	31-07-79

143	6271755 डब्ल्यू	हवलदार	जार्ज के जे	30-04-79
144	627160 पी	हवलदार	हर सिंह	30-04-79
145	6271699 एन	हवलदार	हयास सिंह	30-04-79
146	6271626 डब्ल्यू	हवलदार	ईश्वर सिंह	30-04-79
147	6270971 एम्स	हवलदार	जगदीश चन्द्र	28-02-79
148	6273819 पी	हवलदार	जगजीत सिंह	31-01-79
149	6271917 डब्ल्यू	हवलदार	जनक सिंह	30-04-79
150	6272455 एफ	हवलदार	के धिएबालाथन	31-07-79
151	6271839 के	हवलदार	माधो सिंह	30-04-79
152	6271587 एन	हवलदार	महेन्द्र सिंह	30-04-79
153	6274463 वार्ड	हवलदार	मखन लाल	31-05-79
154	6271540 एम्स	हवलदार	मोहन लाल	31-03-79
155	6274488 एल	हवलदार	नीलाम्बर कोठ्यारी	30-06-79
156	6272291 डब्ल्यू	हवलदार	श्रीकार सिंह	31-07-79
157	6271988 एम्स	हवलदार	राजा राम मोरे	31-05-79
158	6272407 एफ	हवलदार	राजेश्वर सिंह	31-07-79
159	6272337 एन	हवलदार	गरूप सिंह समर	31-07-79
160	6267975 एच	हवलदार	शिव मुरन सिंह	31-05-79
161	6271124 एन	हवलदार	श्री नारायण पाण्डे	28-02-79
162	6269460 एफ	हवलदार	सीताराम	13-06-79
163	6269239 एम	हवलदार	सोहन लाल	09-09-78
164	6274666 एच	हवलदार	सोहन लाल भाटिया	31-07-79
165	6274653 एल	हवलदार	उत्तम पाण्डे	31-07-79
166	6271481 डब्ल्यू	हवलदार	वदगीस प्रो सी	31-03-79
167	6271695 एम	हवलदार	विश्वनाथ सिंह	30-04-79
<b>विशेष भाग दो गार्ड्स</b>				
168	3345863 पी	हवलदार	बलवन्त सिंह	31-03-79
169	13651614 एच	हवलदार	बस्ती राम	31-05-79
170	13651325 एन	हवलदार	दीवान सिंह	28-02-79
171	13651182 वार्ड	हवलदार	हरी राम	31-01-79
172	13651427 के	हवलदार	हुकम चन्व	31-03-79
173	13651348 पी	हवलदार	जोसेफ एम	28-02-79
174	13651536 डब्ल्यू	हवलदार	कन्ही राम	30-04-79
175	2838673 एम	हवलदार	कर्णबीर बमरई	30-04-79
176	13651681 एम	हवलदार	करनैल सिंह	30-06-79
177	13651728 एम	हवलदार	कुन्दन सिंह	31-07-79
178	13651218 एम	हवलदार	लक्ष्मी नारायण	31-01-79
179	13651695 एन	हवलदार	ममपाल सिंह	30-06-79
180	13651434 ए	हवलदार	नारायण सिंह	31-03-79
183	13651216 एफ	हवलदार	रिछपाल	31-01-79
182	4143532 एफ	हवलदार	सनवत सिंह	31-03-79
183	4236108 एल	हवलदार	श्याम बिहारी सिंह	31-03-79
184	13651537 वार्ड	हवलदार	श्याम राम	30-04-79
<b>श्री वैरागुट रेजिमेंट</b>				
185	2845219 पी	हवलदार	बलवन्त सिंह	30-04-79
186	13600097 एम	हवलदार	देवी बयाल सिंह	29-10-78
187	13716705 के	हवलदार	लछमन दास	30-06-79
188	4143704 एल	हवलदार	पूरन सिंह	31-03-79
189	3949682 वार्ड	हवलदार	उत्तम सिंह	31-07-79
<b>श्री पंजाब रेजिमेंट</b>				
190	2441078 ए	हवलदार	भगवान सिंह	31-01-79
193	2441195 एल	हवलदार	छागर सिंह	31-01-79
192	2441354 एम्स	हवलदार	छोटे राम	30-04-79
193	2440933 एम्स	हवलदार	चोरन्धी लाल	31-01-79
194	2441018 ए	हवलदार	वसीप सिंह	31-01-79



195	2441683 एन	हवलदार	दलीप सिंह	31-07-79
196	2441144 एफस	हवलदार	जीत राम	31-01-79
197	2441153 वाई	हवलदार	जगदीश सिंह	31-01-79
198	2441282 वाई	हवलदार	खजूर सिंह	31-03-79
199	2441390 एन	हवलदार	मेहर सिंह	30-04-79
200	2441102 एल	हवलदार	नरनजन सिंह	31-01-79
201	2441000 पी	हवलदार	निरमल सिंह	31-01-79
202	2441255 पी	हवलदार	सफरी राम	28-02-79
203	2441643 एम	हवलदार	सरदार सिंह	31-07-79
204	2441560 एफ	हवलदार	तेजु राम	30-06-79
205	2441088 के	हवलदार	धोरू सिंह	31-01-79
बी मद्रास रेजिमेंट				
206	2546239 डबल्यू	हवलदार	ए नटराजन	30-06-79
207	2546027 एल	हवलदार	सी पी कालिया पेयमल	30-04-79
208	2545774 के	हवलदार	जी० के प्रभाकरन नायर	30-04-79
209	2545962 एल	हवलदार	के रवीन्द्रन नायर	31-05-79
210	2546025 ए	हवलदार	कृष्णनकुटि नायर पी टी	30-06-79
211	2544675 पी	हवलदार	कुम्हरमन नायर	30-09-78
212	2545072 एल	हवलदार	मोहम्मद इब्राहीम	31-10-78
213	2546043 एन	हवलदार	पी बालकृष्णन नायर	30-06-79
214	2545745 पी	हवलदार	परुषोत्तमन राव	30-04-79
215	2546049 के	हवलदार	रामन	30-04-79
216	2545827 एफस	हवलदार	रामर	30-04-79
217	2546247 पी	हवलदार	एस लोगानाथन	30-06-79
218	2545978 एन	हवलदार	एस सेलवनायगम	31-05-79
219	2545925 एफस	हवलदार	सन्ध्यागु	31-05-79
220	2546317 एन	हवलदार	सुकपाल हरिजन	31-07-79
221	2546022 एम	हवलदार	टी वी कुन्जंबू	30-06-79
222	2544944 डबल्यू	हवलदार	बी कृष्णमूर्ति	31-10-78
बी प्रजेडियरस				
223	2641361 एफस	हवलदार	बाजे सिंह	30-04-79
224	2641333 एल	हवलदार	बजरंग लाल	30-04-79
225	2642683 के	हवलदार	चमेल सिंह	31-03-79
226	2641300 ए	हवलदार	चांद राम	31-03-79
227	2641560 एल	हवलदार	चतक राम	31-05-79
228	2641830 पी	हवलदार	चातो राम	31-07-79
229	2641094 एफ	हवलदार	शान सिंह	28-02-79
230	2641151 एफस	हवलदार	हरकिशन	28-02-79
231	2641640 एन	हवलदार	हरी सिंह	31-05-79
232	2641796 ए	हवलदार	जैवी सिंह	31-07-79
233	1026534 वाई	हवलदार	जसवंत सिंह	31-01-79
234	2641816 एन	हवलदार	करण सिंह	31-07-79
235	2641072 एन	हवलदार	माला राम	28-02-79
236	2641326 पी	हवलदार	मन्य रूप	31-08-79
237	2641850 एम	हवलदार	नाम्पू राम	31-05-79
238	2641011 एल	हवलदार	बोम परकाश	31-10-79
239	2641352 डबल्यू	हवलदार	प्रीतम चन्द	30-04-79
240	2641012 एन	हवलदार	रामेश्वर	31-01-79
241	2641136 एन	हवलदार	सन्त राम	28-02-79
242	2641813 पी	हवलदार	शेर सिंह	31-07-79
243	2641213 एम	हवलदार	श्री चन्द	31-03-79
बी मराठा लाइट इन्फैंट्री				
244	2742880 एफ	हवलदार	भवगान सावंत	28-02-79
245	2742866 पी	हवलदार	भिकु निकम	28-02-79
246	4142954 ए	हवलदार	श्री साधुबा	31-08-78

247	2742906 एल	हवलदार	लक्ष्मण मोहिते	31-01-79
248	2743026 एफ	हवलदार	महादेव शिंदे	28-02-79
249	2742295 एफ	हवलदार	मारसंड काकडे	28-02-79
250	2742550 एच	हवलदार	मासुती झानू मोनोले	31-07-79
251	2742959 के	हवलदार	पंडरी नौधरे	31-12-78
252	2742923 एल	हवलदार	संपतराव बाबर	28-02-79
253	2732636 एफ	हवलदार	शिवाजी राव बागणे	28-02-79
254	2742455 डब्ल्यू	हवलदार	तुकाराम खामकर	31-07-79
255	2742511 के	हवलदार	वसंत राव लावठ	31-07-79
256	2742910 एन	हवलदार	विष्णू मोहिते	31-07-79
257	2742931 के	हवलदार	विठ्ठल गवस	31-10-79
258	2743079 ए	हवलदार	विठ्ठोबा टोणे	28-02-79
बी राजपूताना रायफर्स				
259	2845329 के	हवलदार	प्रमूत	30-04-79
260	2844482 एन	हवलदार	भंवर सिंह	22-01-79
261	2845164 डब्ल्यू	हवलदार	भंवर सिंह	30-04-79
262	2844789 वार्ड	हवलदार	देवराज सिंह	31-01-79
263	2845135 एफ	हवलदार	धरम सिंह	31-03-79
264	2845601 एल	हवलदार	मखतूल सिंह	30-06-79
265	2845488 एफ	हवलदार	नरुद राम	30-06-79
266	2845218 एम	हवलदार	रामेश्वर सिंह	30-04-79
267	2845073 एम	हवलदार	रंगी राम	31-03-79
268	2845203 के	हवलदार	सरदार सिंह	30-04-79
269	2843696 एक्स	हवलदार	सेवा सिंह	19-09-78
बी राजपूत रेजिमेंट				
270	2945616 एच	हवलदार	केसर सिंह	29-03-79
271	2945798 एफ	हवलदार	फूल सिंह	31-01-79
272	2946504 पी	हवलदार	रत्नजीतसिंह	31-07-79
273	2945186 के	हवलदार	श्रीकान्त सिंह	31-01-79
274	2944763 वार्ड	हवलदार	सुबदी राम	28-02-79
बी आर्ट रेजिमेंट				
275	3141736 वार्ड	हवलदार	भागू राम	31-03-79
276	3141898 के	हवलदार	भगवान सिंह	30-04-79
277	2946400 एन	हवलदार	शाफी ,	31-07-78
278	3141649 एल	हवलदार	मोजी राम	31-01-79
279	3141808 एक्स	हवलदार	ओम प्रकाश	31-03-79
280	3141647 ए	हवलदार	बिजेन्द्रा सिंह	31-01-79
बी सिक्ख रेजिमेंट				
281	3346632 एल	हवलदार	गुरदेव सिंह	31-01-79
282	3345878 एक्स	हवलदार	गुरशरण सिंह	31-03-79
283	3345635 एम	हवलदार	कपूर सिंह	31-01-79
284	3346265 के	हवलदार	प्यारी सिंह	31-07-79
285	3345745 एफ	हवलदार	सेवक सिंह	31-01-79
बी सिक्ख लाइट इन्फेन्ट्री				
286	4436916 एम	हवलदार	अजमेर सिंह	31-01-79
287	4437038 एन	हवलदार	मुक्ता सिंह	28-02-79
बी डोगरा रेजिमेंट				
288	3949164 वार्ड	हवलदार	बलितर सिंह	18-02-79
289	3948880 एक्स	हवलदार	बलदेव सिंह	31-01-79
290	9301040 ए	हवलदार	भाकर राम	31-05-79
291	3949014 एच	हवलदार	त्रिकम सिंह	31-01-79
292	3946451 एक्स	हवलदार	बूखी सिंह	30-06-79

293	3948855 बार्ड	हवलदार	गधर्व सिंह	31-01-79
294	3948767 एच	हवलदार	हेम राज	31-12-78
295	3947157 के	हवलदार	नरपत राम	30-06-79
296	3949400 पी	हवलदार	पान सिंह	31-05-79
297	3945005 एफ	हवलदार	प्रेम चंद	31-01-79
298	3949620 बार्ड	हवलदार	समस्त राम	31-07-79
बी गढ़वाल राज्यफलस				
299	4036675 के	हवलदार	औसार सिंह गुर्गार्ड	31-01-79
300	4036635 एच	हवलदार	बिक्री राम	31-01-79
301	4036673 बार्ड	हवलदार	हुकम सिंह बर्तवाल	31-01-79
302	4036944 एल	हवलदार	जसवन्त सिंह नेगी	31-03-79
303	4036900 एम	हवलदार	जीत सिंह कैन्पुरा	31-03-79
304	4037002 एफ	हवलदार	कुन्दन सिंह नेगी	31-03-79
305	4036868 के	हवलदार	कुताल सिंह नेगी	31-03-79
306	4036890 पी	हवलदार	मन्वा सिंह शाह	31-03-79
307	4036816 एन	हवलदार	मल्ही प्रभाव टुरखन्डियाल	15-04-79
308	4036544 बार्ड	हवलदार	पंचम सिंह रमोला	22-12-78
309	4036908 पी	हवलदार	बिष्णु दत्त पेटवाल	31-03-79
बी कुमायू रेजिमेंट				
310	4143441 एक्स	हवलदार	प्रमीसाल	31-03-79
311	4143422 एम	हवलदार	चंचल सिंह	31-03-79
312	4143403 एम	हवलदार	दलबीर सिंह	31-03-79
313	4143585 एम	हवलदार	वरवान सिंह	31-03-79
314	4143478 बार्ड	हवलदार	दिवान सिंह	31-03-79
315	1419977 एल	हवलदार	गणेश दत्त, वीर चक्र	15-05-79
316	4143545 बार्ड	हवलदार	हरफूल सिंह	31-03-79
317	4143919 के	हवलदार	कमला पति	31-07-79
318	4143728 पी	हवलदार	खुशाल सिंह	30-04-79
319	4143724 बार्ड	हवलदार	लाल सिंह	30-04-79
320	4143401 डबल्यू	हवलदार	माखन सिंह	31-03-79
321	4143469 एक्स	हवलदार	मोहन चन्द्र भट्ट	31-03-79
322	4143672 एन	हवलदार	मोहन सिंह	31-03-79
323	4143358 ए	हवलदार	नन्दन सिंह	31-03-79
324	4143356 पी	हवलदार	पुष्कर सिंह	31-03-79
325	4143689 एफ	हवलदार	रघुबीर सिंह	31-03-79
326	4143818 डबल्यू	हवलदार	शेर सिंह	30-06-79
327	4143776 पी	हवलदार	श्री कान्त सिंह यादव	30-04-79
बी आसाम रेजिमेंट				
328	4336297 एक्स	हवलदार	बेन्टोन आनन	31-07-79
329	4335734 एच	हवलदार	रमन सिन्हा	31-05-79
बी बिहार रेजिमेंट				
330	4235651 एक्स	हवलदार	अजाल नियो	31-08-78
331	4236074 एच	हवलदार	बाबू प्रभाव झा	31-03-79
332	4236167 एक्स	हवलदार	दाम सिंह मुन्डी	30-04-79
333	4235908 एका	हवलदार	हजान केरके ट्टा	30-06-79
334	7038618 ए	हवलदार	महाकांत झा	30-06-79
335	4236053 एम	हवलदार	भापाल मुरमु	31-03-79
336	4236152 पी	हवलदार	नयेन्द्र गामडे	30-04-79
337	4235975 एच	हवलदार	राज नारायण सिंह	31-01-79
338	4235997 एम	हवलदार	राम प्रवेश सिंह	31-01-79
339	4236014 एन	हवलदार	राम राज सिंह	28-2-79
बी महार रेजिमेंट				
340	9202692 डबल्यू	हवलदार	भगवान सबाफुने	31-03-79
341	9202677 एफ	हवलदार	विश्वनाथ यादव	31-03-79

342	4437139 एफ	हवलदार	हेम सिंह	31-05-79
343	9202551 एल	हवलदार	जोदन	28-02-79
344	4534385 डब्लू	हवलदार	केशव कुलकर्णी	31-03-79
345	9202538 एक्स	हवलदार	कुन्दन सिंह धिष्ट	31-01-79
346	5032633 डब्लू	हवलदार	रन बहादुर गुरंग	28-02-79
347	9202664 के	हवलदार	उपा नन्दा पानी	31-03-79
बी जम्मू एण्ड काश्मीर राइफल				
348	13717019 एफ	हवलदार	घोष राज	31-07-79
349	13716579 एफ	हवलदार	जतर सिंह	30-06-79
350	13716534 एफ	हवलदार	गधर्व सिंह	30-06-79
351	13716528 एन	हवलदार	जगन नाथ	30-06-79
352	13716526 एच	हवलदार	जसवंत सिंह	30-06-79
353	13716822 एन	हवलदार	श्रीम प्रकाश	31-07-79
354	13716890 एफ	हवलदार	परमोत्तम चंद	31-07-79
355	13716593 एन	हवलदार	प्रीतम सिंह	30-06-79
356	13716573 एल	हवलदार	सन्तोष सिंह	30-06-79
357	13717008 पी	हवलदार	श्रीराम	31-07-79
बी नागा रेजिमेंट				
358	4036881 एन	हवलदार	मुन्दर सिंह पुम्हीर	31-03-79
1 गोरखा राइफल्स				
359	5233939 पी	हवलदार	बखान गुरंग	30-06-79
360	5032484 एन	हवलदार	गणेश बहादुर गुरंग	28-02-79
361	5032742 एच	हवलदार	गुजा बीर थापा	31-03-79
3 गोरखा राइफल्स				
362	5234324 डब्लू	हवलदार	भमीर गुरंग	31-03-79
363	5234269 एल	हवलदार	बम्बा सिंह मले	31-03-79
364	5232055 डब्लू	हवलदार	मान सिंह थापा	30-11-78
365	5234277 के	हवलदार	श्रीम प्रताप गुरंग	31-03-79
366	5234244 वार्ड	हवलदार	पास बहादुर गुरंग	31-03-79
367	5234318 एच	हवलदार	पिरथेराभा	31-03-79
4 गोरखा राइफल्स				
368	5334242 एम	हवलदार	पुर्ना बहादुर गुरंग	31-01-79
369	5032502 एल	हवलदार	टेक बहादुर थापा	31-01-79
5 गोरखा राइफल्स				
370	5436238 एन	हवलदार	बीर बहादुर थापा	31-03-79
371	5436465 एल	हवलदार	चमन सिंह साहू	30-04-79
372	5436435 डब्लू	हवलदार	दल बहादुर थापा	30-04-79
373	5436173 एल	हवलदार	जंग बहादुर राना	28-02-79
374	5436381 ए	हवलदार	कमान सिंह गुरंग	30-04-79
375	5436493 ए	हवलदार	क्याली राम	30-06-79
376	5436151 एम	हवलदार	नर बहादुर थापा	31-01-89
377	5436176 वार्ड	हवलदार	परेथा बीर राना	28-02-79
378	5436341 वार्ड	हवलदार	शेर बहादुर थापा	30-04-79
379	5436168 ए	हवलदार	सुखदेव थापा	28-02-79
8 गोरखा राइफल्स				
380	5737096 एम	हवलदार	बहादुरबल गुरंग	30-04-79
381	5737666 एक्स	हवलदार	बिस बहादुर गुरंग	28-02-79
382	5737054 एल	हवलदार	बेबी राम थापा	31-03-79
383	5737553 पी	हवलदार	कुल बहादुर पुन	28-02-79
384	5737646 के	हवलदार	लाल बहादुर गुरंग	28-02-79
385	5737686 एल	हवलदार	लोक बहादुर गुरंग	31-03-79
386	5736980 वार्ड	हवलदार	मोहनलाल पुन	31-03-79
387	5736913 एन	हवलदार	पुरना बहादुर राना	28-02-79
388	5717636 ए	हवलदार	ससि राय पुन	28-02-79

## 9 गोरखा राइफल्स

389	5834294 एफ	हवलदार	भीम बहादुर खत्री	30-04-79
390	5834359 के	हवलदार	मोहनी बहादुर मल्ल	31-03-79
391	5834279 एम	हवलदार	नेत्रा बहादुर मल्ल	28-02-79
392	5834391 वाई	हवलदार	टेक बहादुर खत्री	31-03-79

## 11 गोरखा राइफल्स

393	9404002 के	हवलदार	प्रह्लाद प्रसाद राई	31-03-79
394	9403881 डब्ल्यू	हवलदार	धन बहादुर गुरंग	31-01-79
395	9403987 एच	हवलदार	लच्छी माण गुरंग	31-03-79
395	9403984 पी	हवलदार	मान सिंह तमांग	31-03-79
397	9403720 एन	हवलदार	शांता बहादुर सुम्बार	31-05-79
398	9404019 एक्स	हवलदार	सोम बहादुर थापा	31-03-79

## धार्मी सविस कोर (सप्लाय)

399	6349479 एन	हवलदार	सी०एच० गनपथी	30-06-79
400	6348026 डब्ल्यू	हवलदार	रतन चन्द	30-09-78
401	6348886 के	हवलदार	बी०बी० नारायण बाखिर	28-02-79

## धार्मी सविस कोर (एनिमस ट्रांसपोर्ट)

402	6443433 के	दफादार	धम्ना करब	31-01-79
403	6443905 पी	दफादार	अर्जुन सिंह	31-05-79
404	6443600 पी	दफादार	बहादुर सिंह	31-12-78
405	6443954 एक्स	दफादार	किशुन लाल	31-07-79
406	6443768 एफ	दफादार	मेवा सिंह	28-02-79

## धार्मी सविस कोर (मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट)

407	6595379 एल	हवलदार	बंशी धर पाल	30-06-79
408	6595467 एक्स	हवलदार	भरत सिंह	31-07-79
409	6596508 एम	हवलदार	कृष्ण लाल	30-04-79
430	6596678 डब्ल्यू	हवलदार	एन० सत्यानारायण मूर्ती	31-07-79
411	6596737 एक्स	हवलदार	भार जगधीसन	31-07-79
412	6594932 डब्ल्यू	हवलदार	सरप सिंह	31-01-79
413	6584928 एन	हवलदार	ठाकुर सिंह	31-01-79
414	6596332 एम	हवलदार	तिलोक सिंह	31-01-79

## धार्मी मेडिकल कोर

415	678413 ए	हवलदार	प्रभत हवाल	31-01-79
416	9091822 डब्ल्यू	हवलदार	बाबू राम	31-07-79
417	6790663 एफ	हवलदार	देवी बस जोशी	12-02-79
418	6785017 ए	हवलदार	बुद्धिग सिलबा	28-02-79
419	6790661 डब्ल्यू	हवलदार	गंगाधरण	30-06-79
420	6790535 के	हवलदार	ज्ञान सिंह	31-01-79
421	6785388 एच	हवलदार	ज्ञान सिंह	31-05-79
422	6785366 के	हवलदार	कारती सीताराममथा	02-02-79
423	6792277 एन	हवलदार	कृष्ण नन्ध पान्डे	31-07-79
424	6784785 पी	हवलदार	एम० इस्ताफी	31-01-79
425	6791454 डब्ल्यू	हवलदार	एम० पी० खन्खूरी	03-12-78
426	6790506 पी	हवलदार	महावीर प्रसाद	31-01-79
427	6784634 डब्ल्यू	हवलदार	मनसिध कूजूर	31-12-78
428	6785475 डब्ल्यू	हवलदार	पी० एस० बामोदर नम्बियार	31-05-79
429	6784681 डब्ल्यू	हवलदार	भार० भासकरण पिल्ले	30-06-79
430	6784958 एफ	हवलदार	एस० प्रभुल रहीम	28-02-79

## धार्मी चार्लेस कोर

431	6868172 ए	हवलदार	मेघ सिंह	28-02-79
432	6868335 एच	हवलदार	मुरहू प्रसाद	31-03-79

## कोर भाफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकैनिक्ल इंजीनियरस

433	7029566 एक्स	हवलदार	अजीत राज साहनी	30-04-79
434	7034782 बार्ड	हवलदार	भानन्दी बेब सिन्हा महापात्रा	31-01-79
435	7030401 लि	हवलदार	बलबीर सिंह रायत	30-06-79
436	7030885 डब्ल्यू	हवलदार	बी०के० भट्टाचार्य	30-06-79
437	7035333 एम	हवलदार	बिशम्बर प्रसाद	31-07-79
438	7038417 एल	हवलदार	बोपभ्रा सुब्बाराय	31-05-79
439	7036410 एच	हवलदार	सिप्रीयान भेंगरा	30-06-79
440	7030294 पी	हवलदार	दलीप सिंह	30-04-79
441	7034925 के	हवलदार	धूम सिंह	28-02-79
442	7033757 एफ	हवलदार	हुकम सिंह	31-10-79
443	7031828 एफ	हवलदार	के० पार्थसारथि	31-05-79
444	7035021 डब्ल्यू	हवलदार	के० एम० सीनि नाथन	31-03-79
445	7034922 डब्ल्यू	हवलदार	कल्लू प्रसाद	31-03-79
446	7030588 एच	हवलदार	मदन मोहन पाल	30-04-79
447	7030581 बार्ड	हवलदार	मान सिंह	30-04-79
448	7029695 एक्स	हवलदार	मनबर सिंह	28-02-79
449	7035274 एल	हवलदार	माइकल पन्ना	30-06-79
450	7035018 डब्ल्यू	हवलदार	नामदेव सालुंके	31-03-79
451	7030169 एल	हवलदार	नरेन्द्र वस	31-01-79
452	7032706 के	हवलदार	नारी सिंह	30-06-79
453	7040415 बार्ड	हवलदार	पाण्डु रंग गोरे	30-11-78
454	7034847 एक्स	हवलदार	फनीन्द्र नाथ सरकार	31-01-79
455	7033473 ए	हवलदार	राधा कृष्णन एम०	31-05-79
456	7025756 एम	हवलदार	रामाधाय नायडू	30-06-79
457	7028856 एच	हवलदार	रनबीर सिंह	28-02-79
458	7030963 एच	हवलदार	रोहतास सिंह	30-06-79
459	7034843 एच	हवलदार	सन्तोष कुमार सरकार	31-03-79
460	7038390 बार्ड	हवलदार	सलुषन प्रसाद	31-05-79
461	7032804 के	हवलदार	शेष नाथ सिंह	31-01-79
462	7035355 एल	हवलदार	श्री कृसन सिंह	31-07-79
463	7034091 एच	हवलदार	सुबलाल सिंह	30-06-79
464	7033649 ए	हवलदार	सुल्तान सिंह	30-06-79
465	7035110 पी	हवलदार	सुरधीत सिंह	30-04-79
466	7035326 डब्ल्यू	हवलदार	बिलोक सिंह	31-07-79
467	7034133 के	हवलदार	उमाशंकर	31-07-79
468	7032806 पी	हवलदार	बेंकटेश गहुना केरी	28-02-79

## डी रिमाउन्ट बैटैरियरी कोर

469	7230549 एल	वफादार	गनु जाधव	31-07-79
470	7230525 के	वफादार	महफूज भालम	31-03-79
471	7230491 एफ	वफादार	मोहम्मद यूसफ	28-02-79
472	7230528 एक्स	वफादार	सुरेन्द्र नाथ सेठी	31-03-79

## डी इंटेलिजेंस कोर

473	1027235 एम	हवलदार	बलबीर सिंह	31-05-79
-----	------------	--------	------------	----------

## घार्मो फिजिकल ट्रेनिंग कोर

474	4143308 पी	हवलदार	बाल कृष्ण सूर्यवंशी	28-02-79
475	3142075 डब्ल्यू	हवलदार	बिरपाल सिंह	31-07-79
476	5834497 एल	हवलदार	लछिम बहादुर खत्री	30-06-79
477	1147409 एक्स	हवलदार	मलकीत सिंह	30-04-79
478	13717009 एक्स	हवलदार	नार सिंह	31-07-79
479	3949316 पी	हवलदार	प्रेम सिंह	30-04-79
480	2845646 एल	हवलदार	रामेश्वर बयाल	30-06-79

## डिपेंस सिक्योरिटी कोर

481	8795443 एक्स	हुवलदार	बंसी राम	28-02-79
482	8798240 एक्स	हुवलदार	बिहारी	31-07-79
483	8808138 एक्स	हुवलदार	एकनाथ सावळे	31-01-79
484	8801845 एक्स	हुवलदार	जो गिन्दर सिंह	28-02-79
485	8795541 एक्स	हुवलदार	माधोराम	28-02-79
486	8802596 एक्स	हुवलदार	मेहरवान सिंह फर्गना	30-04-79
487	4129780 एक्स	हुवलदार	मुसहीलाल	31-07-79
488	8809662 एक्स	हुवलदार	निवस्ती बाघमारे	31-03-79
489	8799070 एक्स	हुवलदार	पी बालाकृष्णन	31-03-79

बी०बी० सहाय, संयुक्त सचिव (पी एण्ड डब्ल्यू)

No. 10-E dated 13 the August, 1979, The President is pleased to grant honorary rank of Naib Risaldar/Naib Subedar to the under mentioned NCOs on retirement under para 181 of the Regulations for the Army, 1962, with effect from their respective dates of retirement:—

## TO BE HONORARY NAIB RISALDARS/SUBEDARS ON RETIREMENT

				Date of Retirement
<b>8 CAVALRY</b>				
1	1026408M	Dfr	Tirlok Singh	31-01-79
<b>2 LANCERS</b>				
2	1026817A	Dfr	Bijay Pal Singh	28-02-79
<b>17 HORSE</b>				
3	1025256K	Dfr	Arjun Singh	30-09-78
4	1026633F	Dfr	Bhag Singh	28-02-79
5	1026422Y	Dfr	Harl Singh	31-01-79
<b>9 HORSE</b>				
6	1026477H	Dfr	Karan Singh	31-01-79
<b>THE CENTRAL INDIA HORSE</b>				
7	1026261F	Dfr	Nand Kishore	31-01-79
<b>62 CAVALRY</b>				
8	1023822A	Dfr	Dharam Pal	31-05-79
<b>66 ARMoured REGIMENT</b>				
9	1146194X	Dfr	Baliram Nawadkar	31-01-79
10	1146907X	Dfr	Shankar Nikam	28-02-79
<b>70 ARMoured REGIMENT</b>				
11	1025995W	Dfr	Chuni Lal	31-11-68
<b>72 ARMoured REGIMENT</b>				
12	1025239A	Dfr	Jugti Ram	06-01-79
13	1026776F	Dfr	Ram Avtar Singh	28-03-79
14	1027133W	Dfr	Suryanath Singh	30-04-79
<b>74 ARMoured REGIMENT</b>				
15	1026014N	Dfr	Pritam Singh	31-12-78
<b>81 ARMoured REGIMENT</b>				
16	1026337W	Dfr	Devi Gulam Singh	31-01-79
<b>82 ARMoured REGIMENT</b>				
17	1027152F	Dfr	Harbir Singh	30-04-79
<b>ARMoured CORPS</b>				
18	1025206Y	Dfr	Charan Singh Gill	30-11-78
19	1025492L	Dfr	K Mariappan	08-01-79
20	1024738M	Dfr	Tara Chand	17-12-78

## REGIMENT OF ARTILLERY

21	1145731L	Hav	Ajaib Singh Bala	31-12-78
22	1149267K	Hav	Amar Singh	31-05-79
23	1145944Y	Hav	Amarjit Singh	31-12-78
24	1145540W	Hav	Anandrao Bhatose	31-12-78
25	1145542F	Hav	Autar Singh	31-12-78
26	1146020X	Hav	Avtar Singh	31-01-79
27	1146693M	Hav	Avtar Singh	28-02-79
28	1147221H	Hav	BB Joyappa	28-02-79
29	1145758H	Hav	Baldev Singh	31-12-78
30	1146116A	Hav	Baslingappa Kunchnur	31-01-79
31	1147822N	Hav	Bhunnu	30-04-79
32	1146520P	Hav	Brown Donovan	31-01-79
33	1147462H	Hav	Bua Ditta	31-03-79
34	6632103P	Hav	Chhatrapati Tiwari	31-12-78
35	1147678K	Hav	Chikile Chendrayya	31-03-79
36	1145478P	Hav	Dalip Singh	31-12-78
37	1146592Y	Hav	Daya Nand Yadava	31-01-79
38	1149107K	Hav	Daya Ram	31-05-79
39	1146163X	Hav	Devi Chand	31-01-79
40	1146275X	Hav	Dhani Ram	31-01-78
41	1145099Y	Hav	Dharam Pal	30-11-78
42	1145492F	Hav	Dilip Kumar Proadhan	31-12-79
43	1146788M	Hav	Diwan Singh	28-02-79
44	1148320X	Hav	EP Appunni Menon	31-05-78
45	1147022P	Hav	Eapon Km	28-02-79
46	1149250W	Hav	Gian Chand	31-05-79
47	1146366F	Hav	Gulshan Singh	31-01-79
48	1148217M	Hav	Hardev Singh	30-04-79
49	1145541Y	Hav	Hari Singh	31-12-78
50	1148152K	Hav	Haridasan R	30-04-79
51	1145822P	Hav	Harka Bahadur Rai	31-12-78
52	1146067H	Hav	Het Ram	31-01-79
53	1146542N	Hav	Jagtar Singh	31-01-79
54	1147727F	Hav	Jangi Lal	31-03-78
55	1149278W	Hav	K V Narayanan	31-05-79
56	1145462K	Hav	Kabiraj Magar	31-12-78
57	1149090F	Hav	Kalwant Singh	31-05-79
58	1145260H	Hav	Kundan Singh	30-11-78
59	1147592L	Hav	Laxman Rawar	31-03-79
60	1145802F	Hav	Mr Gopalkrishnan Nair	31-12-78
61	1141925K	Hav	Matadin Mali	31-12-78
62	1148122M	Hav	Matu Ram	30-04-79
63	1145148W	Hav	Maya Ram	30-11-78
64	1147749A	Hav	Mewa Singh	31-03-79
65	1146013F	Hav	Mohan Singh	31-01-79
66	1146165H	Hav	Mohan Singh R	31-01-79
67	1146695X	Hav	Mohinder Singh	28-02-79
68	1145626P	Hav	Mukhtiar Singh	31-12-78
69	1145288H	Hav	NM Thomas	30-11-78
70	1146812X	Hav	Naib Singh	28-02-79
71	1144952L	Hav	Narayanan K	31-11-78
72	1145192A	Hav	Onkar Singh	30-11-78
73	1146421M	Hav	PK Krishnan Nair	31-01-79
74	1145611M	Hav	Parkash Singh	31-12-78
75	1146612F	Hav	Pirithvi Singh	31-01-79
76	1147072A	Hav	Prem Singh	28-02-79
77	1147013N	Hav	Raghavan N	28-02-79
78	1146561Y	Hav	Raghibir Singh	31-01-78
79	1145185K	Hav	Raghibir Singh Sharma	30-11-78
80	1146009Y	Hav	Rajinder Singh	31-01-79
81	1148380M	Hav	Rup Chand	31-05-79
82	1146413N	Hav	S Easwara Moorthy	31-01-79
83	1145580X	Hav	Santokh Singh	31-12-78
84	1145789H	Hav	Santokh Singh	31-12-78



85	1148207H	Hav	Santokh Singh	30-04-79
86	1146233L	Hav	Sarnukh Singh	31-01-79
87	1146032M	Hav	Shamsher Singh	31-01-79
88	1146855M	Hav	Shankar Singh	28-02-79
89	1148603Y	Hav	Shivram Singh	31-05-79
90	1146074Y	Hav	Shivsharan Singh	31-01-79
91	1146463Y	Hav	Sivasankara Pillay P.	31-01-79
92	1145329F	Hav	Suraj Bhan	31-12-78
93	1145601H	Hav	Swinder Singh	31-12-78
94	1148130L	Hav	TK Pichai	30-04-79
95	1147440K	Hav	Tarsem Singh	31-03-79
96	1146113M	Hav	Tilak Raj	31-01-79
97	1146499X	Hav	UM Manjunda	31-01-79
98	1148315M	Hav	V S Sivarama Pillay	31-05-78
99	1146921K	Hav	V Veerasamy	28-02-79
100	1148032L	Hav	V S Mani	30-04-79
101	1146961L	Hav	Visunath Singh	28-02-79
102	1141574M	Hav	Yasin	31-12-78

**MADRAS ENGINEER GROUP**

103	1314654K	Hav	C George	31-05-79
104	1312818W	Hav	Chinnappan	31-01-79
105	1314308N	Hav	F Solomon	31-01-79
106	1313493A	Hav	G Subbarayalu	30-06-79
107	1314808L	Hav	Kaliyamoorthy	31-07-79
108	1313118P	Hav	Kasi	31-07-79
109	1313021K	Hav	Muniswamy	31-03-79
110	1312888P	Hav	Murugesan	28-02-79
111	1314854A	Hav	P Krishnan Poduval	31-07-79
112	1312907P	Hav	Shanmugam	28-02-79
113	1314052W	Hav	S Reedharan Pillai	31-05-79
114	1314385H	Hav	T Ranganathan	31-03-79
115	1313012H	Hav	V Balakrishnan	31-03-79
116	1314546A	Hav	Viswanathan Nair Nele	31-03-79

**BENGAL ENGINEER GROUP**

117	1421581A	Hav	Dhan Singh Rauthan	16-01-79
118	1409875F	Hav	Hayat Singh	28-02-79
119	8360252M	Hav	Vithal Shinde	31-01-79

**BOMBAY ENGINEER GROUP**

120	1511924M	Hav	Ajmer Singh	31-05-79
121	1511680K	Hav	Atma Ram Pikulkar	31-03-79
122	1511528W	Hav	Bhagwan Singh	31-01-79
123	1511898W	Hav	Bhupinder Singh	31-05-79
124	1511541A	Hav	Chhaja Singh	31-01-79
125	1511915L	Hav	Gurmet Singh	31-05-79
126	1512085M	Hav	Kartar Singh	31-07-79
127	1511772W	Hav	Laxaman Bhatkande	30-06-79
128	1511976H	Hav	Limbaji Akolakar	30-06-79
129	1511522P	Hav	Mukhtiar Singh	31-01-79
130	1511899Y	Hav	Nachhatar Singh	31-05-79
131	1511940K	Hav	Naginder Singh	30-06-79
132	1511981N	Hav	Niaz Ahmad Khan	30-06-79
133	1562723W	Hav	Shivaji Dhimbire	31-07-79
134	1511662F	Hav	Shivaji Hasabe	28-02-79
135	1511559W	Hav	Shivling Jangam	31-01-79
136	1512064W	Hav	Vishnu Patil	30-06-79

**CORPS OF SIGNALS**

137	6270714A	Hav	Ajit Singh	31-01-79
138	6271921Y	Hav	Baij Nath Singh	31-05-79
139	6271672L	Hav	Bakhshish Singh, Sm	30-04-79
140	6272015N	Hav	Dattatraya Patange	31-05-79
141	6270625F	Hav	Ek Asokan	29-12-78
142	6272531H	Hav	Fransis Girkar	31-07-79

143	6271755W	Hav	George KJ	30-04-79
144	6271603P	Hav	Har Singh	30-04-79
145	6271699H	Hav	Hayat Singh	30-04-79
146	6271626W	Hav	Ishwar Singh	30-04-79
147	6270971X	Hav	Jagdish Chandra	28-02-79
148	6273819P	Hav	Jagjit Singh	31-01-79
149	6271917W	Hav	Janak Singh .	30-04-79
150	6272455F	Hav	K. Viswanathan	31-07-79
151	6271839K	Hav	Madho Singh	30-04-79
152	6271587H	Hav	Mahendra Singh	30-04-79
153	6274463Y	Hav	Makhan Lal	31-05-79
154	6271540X	Hav	Mohan Lal	31-03-79
155	6274488L	Hav	Nilambar Kothiyari	30-06-79
156	6272291W	Hav	Onkar Singh	31-07-79
157	6271988X	Hav	Raja Ram More	31-05-79
158	6272407F	Hav	Rajeshwar Singh	31-07-79
159	6272337N	Hav	Saroop Singh Samar	31-07-79
160	6267975H	Hav	Shiv Murat Singh	31-05-79
161	6271124N	Hav	Shree Narain Pandey	28-02-79
162	6269460F	Hav	Sita Ram	13-06-79
163	6269239M	Hav	Sohan Lal	09-09-78
164	6274666H	Hav	Sohan Lal Bhatia	31-07-79
165	6274653L	Hav	Uttam Pande	31-07-79
166	6271481W	Hav	Varughese OC	31-03-79
167	6271695M	Hav	Vishwanath Singh	30-04-79

**BRIGADE OF THE GUARDS**

168	3345863P	Hav	Balwant Singh	31-03-79
169	13651614H	Hav	Bastl Ram	21-05-79
170	13651325N	Hav	Diwan Singh	28-02-79
171	13651182Y	Hav	Hari Ram	31-01-79
172	13651427K	Hav	Hukam Chand	31-03-79
173	13651348P	Hav	Joseph M	28-02-79
174	13651536W	Hav	Kanhi Ram	30-04-79
175	2838673M	Hav	Karnabir Damai	30-04-79
176	13651681N	Hav	Karnail Singh	30-06-79
177	13651728N	Hav	Kundan Singh	31-07-79
178	13651218M	Hav	Laxmi Narain	31-01-79
179	13651695N	Hav	Manpal Singh	30-06-79
180	13651434A	Hav	Narain Singh	31-03-79
181	13651216F	Hav	Richhpal	31-01-79
182	4143532F	Hav	Sanwat Singh	31-03-79
183	4236108L	Hav	Sham Bihari Singh	31-03-79
184	13651537Y	Hav	Sheo Ram	30-04-79

**THE PARACHUTE REGIMENT**

185	2845219P	Hav	Balwant Singh	30-04-79
186	13600097N	Hav	Devi Dayal Singh	29-10-78
187	13716705K	Hav	Lachhman Dass	30-06-79
188	4143704L	Hav	Puran Singh	31-03-79
189	3949682Y	Hav	Uttam Singh	31-07-79

**THE PUNJAB REGIMENT**

190	2441078A	Hav	Bhagwan Singh	31-01-79
191	2441195L	Hav	Chagar Singh	31-01-79
192	2441354X	Hav	Chhotu Ram	30-04-79
193	2440933X	Hav	Choranjil Lal	31-01-79
194	2441016A	Hav	Dalip Singh	31-01-79
195	2441683N	Hav	Dalip Singh	31-07-79
196	2441144X	Hav	Jagat Ram	31-01-79
197	2441153Y	Hav	Jagdish Singh	31-01-79
198	2441282Y	Hav	Kahazur Singh	31-03-79
199	2441390H	Hav	Mehar Singh	30-04-79
200	2441102L	Hav	Naranjan Singh	31-01-79
201	2441000P	Hav	Nirmal Singh	31-01-79
202	2441255P	Hav	Safari Ram	28-02-79
203	2441643M	Hav	Sardar Singh	31-07-79
204	2441560F	Hav	Teju Ram	30-06-79
205	2441088K	Hav	Thuru Singh	31-01-79

## THE MADRAS REGIMENT

206	2546239W	Hav	Anatarajan	30-06-79
207	2546027L	Hav	CP Kalia Perumal	30-04-79
208	2545774K	Hav	GK Prabhakaran Nair	30-04-79
209	2545962L	Hav	K Ravindran Nair	31-05-79
210	2546025A	Hav	Krishnan Kutty Nair PT	30-06-79
211	2544675P	Hav	Kunhiraman Nair	30-09-78
212	2545072L	Hav	Mohamed Ibrahim	31-10-78
213	2546043H	Hav	P Balakrishnan Nair	30-06-79
214	2545745P	Hav	Purushothman Rao	30-04-79
215	2546049K	Hav	Raman	30-04-79
216	2545827X	Hav	Ramar	30-04-79
217	2546247P	Hav	S Loganathan	30-06-79
218	2545978H	Hav	S Selvanayagam	31-05-79
219	2545925X	Hav	Sandiagu	31-05-79
220	2546317H	Hav	Sukpal Harijan	31-07-79
221	2546022M	Hav	TV Kunhambu	30-06-79
222	2544944W	Hav	V Krishnamurthi	31-10-78

## THE GRENADIERS

223	2641361X	Hav	Baje Singh	30-04-79
224	2641333L	Hav	Bajrang Lal	30-04-79
225	2642683K	Hav	Chamel Singh	21-03-79
226	2641300A	Hav	Chand Ram	31-03-79
227	2641560L	Hav	Chatru Ram	31-05-79
228	*2641830P	Hav	Gharsi Ram	31-07-79
229	2641094F	Hav	Gian Singh	28-02-79
230	2641151X	Hav	Har Kishan	28-02-79
231	2641640H	Hav	Hari Singh	31-05-79
232	2641796A	Hav	Jaishi Singh	31-07-79
233	1026534Y	Hav	Jaswant Singh Vrc	31-01-79
234	2641816H	Hav	Karan Singh	31-07-79
235	2641072H	Hav	Mala Ram	28-02-79
236	2641326P	Hav	Mand Rup	31-03-79
237	2641650M	Hav	Nanchu Ram	31-05-79
238	2641011L	Hav	Om Parkash	31-01-79
239	2641352W	Hav	Pritam Chand	30-04-79
240	2641012N	Hav	Rameshvar Singh	31-01-79
241	2641136H	Hav	Sant Ram	28-02-79
242	2641813P	Hav	Sher Singh	31-07-79
243	2641213M	Hav	Siri Chand	31-03-79

## THE MARATHA LIGHT INFANTRY

244	2742880F	Hav	Bhagwan Sawant	28-02-79
245	2742866P	Hav	Bhiku Nikam	28-02-79
246	4142954A	Hav	Dyanu Salunkhe	31-08-79
247	2742906L	Hav	Laxman Mohite	31-01-79
248	2743026F	Hav	Mahadeo Shinde	28-02-79
249	2742295F	Hav	Martand Kakade	28-02-79
250	2742550H	Hav	Maruti Dnyanu Shenole	31-07-79
251	2742959K	Hav	Pandhari Naughare	31-12-78
252	2742923L	Hav	Sampat Rao Babar	28-02-79
253	2742636F	Hav	Shivaji Rao Bagane	28-02-79
254	2742455W	Hav	Tuka Ram Khamkar	31-07-79
255	2742511K	Hav	Vasant Rao Lawand	31-07-79
256	2742910N	Hav	Vishnu Mohite	31-07-79
257	2742931K	Hav	Vithal Gawas	31-10-79
258	2743079A	Hav	Vithoba Tone	28-02-79

## THE RAJPUTANA RIFLES

259	2845329K	Hav	Amrit	30-04-79
260	2844482N	Hav	Bhanwar Singh	22-01-79
261	2845164W	Hav	Bhanwar Singh	30-04-79
262	2844789Y	Hav	Devraj Singh	31-01-79
263	2845135F	Hav	Dharam Singh	31-03-79
264	2845601L	Hav	Makhtul Singh	30-06-79

265	2845488F	Hav	Nand Ram	30-06-79
266	2845218M	Hav	Rameshwar Singh	30-04-79
267	2845073M	Hav	Rangi Ram	31-03-79
268	2845203K	Hav	Sardar Singh	30-04-79
269	2843696X	Hav	Sewa Singh	19-09-78
<b>THE RAJPUT REGIMENT</b>				
270	2945616H	Hav	Kesar Singh	29-04-79
271	2945798F	Hav	Phool Singh	31-01-79
272	2946504P	Hav	Ranjit Singh	31-07-79
273	2945186K	Hav	Shrikant Singh	31-01-79
274	2944763Y	Hav	Subadi Ram	28-02-79
<b>THE JAT REGIMENT</b>				
275	3141736Y	Hav	Bhagu Ram	31-03-79
276	3141898K	Hav	Bhagwan Singh	30-04-79
277	2946400N	Hav	Giani	31-07-79
278	3141649L	Hav	Mauji Ram	31-01-79
279	3141808X	Hav	Om Parkash	31-03-79
280	3141647A	Hav	Vijendra Singh	31-01-79
<b>THE SIKH REGIMENT</b>				
281	3346632L	Hav	Gurdev Singh	31-01-79
282	3345878X	Hav	Gursharn Singh	31-03-79
283	3345635M	Hav	Kapoor Singh	31-01-79
284	3346265K	Hav	Piara Singh	31-07-79
285	3345745F	Hav	Sewak Singh	31-01-79
<b>THE SIKH LIGHT INFANTRY</b>				
286	4436916M	Hav	Ajmer Singh	31-01-79
287	4437038N	Hav	Munsha Singh	28-02-79
<b>THE DOGRA REGIMENT</b>				
288	3949164Y	Hav	Bachittar Singh	18-02-79
289	3948880X	Hav	Beldev Singh	31-01-79
290	9301040A	Hav	Bhakar Ram	31-05-79
291	3949014H	Hav	Bikram Singh	31-01-79
292	3946451X	Hav	Budhi Singh	31-06-79
293	3948855Y	Hav	Gandharb Singh	31-09-79
294	3948767H	Hav	Hem Raj	31-12-78
295	3947157K	Hav	Narpat Ram	30-06-79
296	3949400P	Hav	Pan Singh	31-05-79
297	3949005F	Hav	Prem Chand	31-01-79
298	3949620Y	Hav	Sant Ram	31-07-79
<b>THE GARHWAL RIFLES</b>				
299	4036675K	Hav	Autar Singh Gusain	31-01-79
300	4036635H	Hav	Bikri Ram	31-01-79
301	4036673Y	Hav	Hukam Singh Bartwal	31-01-79
302	4036944L	Hav	Jaswant Singh Negi	31-03-79
303	4036900N	Hav	Jeet Singh Kaintura	31-03-79
304	4037002F	Hav	Kundan Singh Negi	31-03-79
305	4036868K	Hav	Kutal Singh Negi	31-03-79
306	4036890P	Hav	Nanda Shingh Siffah	31-03-79
307	4036816N	Hav	Nathi Prasad Turkhandiyal	15-04-79
308	4036544Y	Hav	Pancham Singh Ramola	22-12-78
309	4036906P	Hav	Vidya Datt Petwal	31-03-79
<b>THE KUMAON REGIMENT</b>				
310	4143441X	Hav	Ami Lal	31-03-79
311	4143422M	Hav	Chanchal Singh	31-03-79
312	4143405M	Hav	Dalbir Singh	31-03-79
313	4143565M	Hav	Darwan Singh	31-03-79
314	4143478Y	Hav	Diwan Singh	31-03-79
315	1419977L	Hav	Ganesh Datt Vr C	15-05-79
316	4143545Y	Hav	Harphul Singh	31-03-79
317	4143919K	Hav	Kamla Pati	31-07-79
318	4143728P	Hav	Khushal Singh	30-04-79
319	4143724Y	Hav	Lal Singh	30-04-79

320	4143401W	Hav	Makhan Singh	31-03-79
321	4143469X	Hav	Moban Chandra Shatt	31-03-79
322	4143672N	Hav	Mohan Singh	31-03-79
323	4143358A	Hav	Nandan Singh	31-03-79
324	4143356P	Hav	Pushkar Singh	31-0-3-79
325	4143689F	Hav	Raghubir Singh	31-03-79
326	4143818W	Hav	Sher Singh	30-06-79
327	4143776P	Hav	Sirikant Singh Yadav	30-04-79
<b>THE ASSAM REGIMENT</b>				
328	4336297P	Hav	Beston Anal	31-07-79
329	4335734W	Hav	Raman Singha	31-05-79
<b>THE BIHAR REGIMENT</b>				
330	4235651X	Hav	Aziz Mian	31-08-78
331	4236074H	Hav	Babu Prasad Jha	31-03-79
332	4236167X	Hav	Dan Singh Sundi	30-04-79
333	4235908X	Hav	Hallan Kerketta	30-06-79
334	7038618K	Hav	Maha Kant Jha	30-06-79
335	4236053M	Hav	Matal Murmu	31-03-79
336	4236152P	Hav	Nagendra Pandey	30-04-79
337	4235975H	Hav	Raj Narain Singh	31-01-79
338	4235997F	Hav	Ram Prevesh Singh	31-01-79
339	4236014N	Hav	Ram Raj Singh	28-02-79
<b>THE MAHAR REGIMENT</b>				
340	9202692W	Hav	Bhagwan Sadafule	31-03-79
341	9202677F	Hav	Bishwarath Yadw	31-03-79
342	4437139F	Hav	Hem Singh	31-05-79
343	9202551L	Hav	Jiwan	28-02-79
344	4534385W	Hav	Keshav Kulkarni	31-03-79
345	9202538X	Hav	Kundan Singh Bisht	31-01-79
346	5032633W	Hav	Ran Bahadur Gurung	28-02-79
347	9202664K	Hav	Upananda Pani	31-03-79
<b>THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES</b>				
348	13717109F	Hav	Bodh Raj	31-07-79
349	13716579F	Hav	Chattar Singh	30-06-79
350	13716534F	Hav	Gandharab Singh	30-06-79
351	13716528N	Hav	Jagan Nath	30-06-79
352	13716526H	Hav	Jaswant Singh	30-06-79
353	13716822N	Hav	Om Parkash	31-07-79
354	13716890F	Hav	Parshotam Chand	31-07-79
355	13716593N	Hav	Pritam Singh	30-06-79
356	13716573L	Hav	Santokh Singh	30-06-79
357	13717008P	Hav	Thoru Ram	31-07-79
<b>THE NAGA REGIMENT</b>				
358	4036881N	Hav	Sundar Singh Pundir	31-03-79
<b>1 GORKHA RIFLES</b>				
359	5233939P	Hav	Bakhan Gurung	30-06-79
360	5032484N	Hav	Ganesh Bahadur Gurung	28-02-79
361	5032742H	Hav	Gunja Bir Thapa	31-03-79
<b>3 GORKHA RIFLES</b>				
362	5234324W	Hav	Bhabir Gurung	31-03-79
363	5234269L	Hav	Khamba Singh Ale	31-03-79
364	5232055W	Hav	Man Singh Thapa	30-11-78
365	5234277K	Hav	Om Parsad Gurung	31-03-79
366	5234244Y	Hav	Pas Bahadur Gurung	31-03-79
367	5234318H	Hav	Pirthe Rana	31-03-79
<b>4 GORKHA RIFLES</b>				
368	5334242M	Hav	Purna Bahadur Gurung	31-01-79
369	5032502L	Hav	Tek Bahadur Thapa	31-01-79

## 5 GORKHA RIFLES

370	5436238N	Hav	Bir Bahadur Thapa	31-03-79
371	5436465N	Hav	Chaman Sing Sahi	30-04-79
372	5436435W	Hav	Dal Bahadur Thapa	30-04-79
373	5436173L	Hav	Jang Bahadu Rana	28-02-79
374	5436381A	Hav	Karnan Singh Gurung	30-04-79
375	5436493A	Hav	Khiali Ram	30-06-79
376	5436151M	Hav	Nar Bahadur Thapa	31-01-79
377	5436176Y	Hav	Partha Bir Rana	28-02-79
378	5436341Y	Hav	Sher Bahadur Thapa	30-04-79
379	5436168A	Hav	Sukh Deo Thapa	28-02-79

## 8 GORKHA RIFLES

380	5737096M	Hav	Bal Bahadur Thapa	30-04-79
381	5737666X	Hav	Chis Bahadur Gurung	28-02-79
382	5737054L	Hav	Debi Ram Thapa	31-03-79
383	5737553P	Hav	Kulbahadur Pun	28-02-79
384	5737646K	Hav	Lal Bahadur Gurung	28-02-79
385	5737686L	Hav	Lok Bahadur Gurung	31-03-79
386	5736980Y	Hav	Mohan Lal Pun	31-03-79
387	5736913N	Hav	Purna Bahadur Rana	28-02-79
388	5737636A	Hav	Sasi Ram Pun	28-02-79

## 9 GORKHA RIFLES

389	5834294F	Hav	Bhim Bahadur Khatri	30-04-79
390	5834359K	Hav	Mohani Bahadur Mall	31-03-79
391	5834279M	Hav	Netra Bahadur Mall	28-02-79
392	5834391Y	Hav	Tek Bahadur Khattri	31-03-79

## 11 GORKHA RIFLES

393	9404002K	Hav	Aita Prasad Rai	31-03-79
394	9403881W	Hav	Dhan Bahadur Gurung	31-01-79
395	9403987H	Hav	Lachhi Man Gurung	31-03-79
396	9403984P	Hav	Man Sing Tamang	31-03-79
397	9403720N	Hav	Shanta Bahadur Sunwar	31-05-79
398	9404019X	Hav	Som Bahadur Thapa	31-03-79

## ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

399	6349479N	Hav	Ch Ganpathi	30-06-79
400	6348026W	Hav	Rattan Chand	30-09-78
401	6348886K	Hav	VV Narayana Variar	28-02-79

## ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

402	6443433K	Dfr	Anna Karav	31-01-79
403	6443905P	Dfr	Arjan Singh	31-05-79
404	6443600P	Dfr	Bahadur Singh	31-12-78
405	6443954X	Dfr	Kishun Lal	31-07-79
406	6443768F	Dfr	Mewa Singh	28-02-79

## ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

407	6595379L	Hav	Banshi Dhar Paul	30-06-79
408	6595467X	Hav	Bharat Singh	31-07-79
409	6596508M	Hav	Krishan Lal	30-04-79
410	6596678W	Hav	N Satyanarayana Murty	31-07-79
411	6596737X	Hav	R Jagatheesan	31-07-79
412	6594932W	Hav	Sarup Singh	31-01-79
413	6594928N	Hav	Thakur Singh	31-01-79
414	6596332M	Hav	Tilok Singh	31-01-79

## ARMY MEDICAL CORPS

415	6784613A	Hav	Anant Haval	31-01-79
416	9091822W	Hav	Babu Ram	31-07-79
417	6790663F	Hav	Devi Datt Joshi	12-02-79
418	6785017A	Hav	Duming Silva	28-02-79
419	6790661W	Hav	Gangadharan	30-06-79
420	6790535K	Hav	Gian Singh	31-01-79
421	6785388H	Hav	Gian Singh	31-05-79
422	6785366K	Hav	Kireti Seetaramayya	02-02-79

423	6792277N	Hav	Krishna Nand Pandey	31-07-79
424	6784785P	Hav	M Essakki	31-01-79
425	6791454W	Hav	MP Khanduri	02-12-78
426	6790506P	Hav	Mahabir Parsad	31-01-79
427	6784634W	Hav	Mansidh Kujur	31-12-78
428	6785475W	Hav	PM Damodar Nambiar	31-05-79
429	6784681W	Hav	R Bhaskaran Pillai	30-06-79
430	6784958F	Hav	S Abdul Rahim	28-02-79

## ARMY ORDNANCE CORPS

431	6868172A	Hav	Megh Singh	28-02-79
432	6868335H	Hav	Murahu Prasad	31-03-79

## CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

433	7029566X	Hav	Ajit Raj Sahni	30-04-79
434	7034792Y	Hav	Anandi Dev Sinha Mohapatra	31-01-79
435	7030401L	Hav	Balbir Singh Rawat	30-06-79
436	7030885W	Hav	Bimal Kumar Bhattacharjee	30-06-79
437	7035333M	Hav	Bishamber Prasad	31-07-79
438	7038417L	Hav	Boppana Subba Rao	31-05-79
439	7036410H	Hav	Cyprian Bhengra	30-06-79
440	7030294P	Hav	Dalip Singh	30-04-79
441	7034925K	Hav	Dhoom Singh	28-02-79
442	7033757F	Hav	Hukam Singh	31-01-79
443	7031828F	Hav	K Parthasarthy	31-05-79
444	7035021W	Hav	KM Seeni Nathan	31-03-79
445	7034922W	Hav	Kaloo Prasad	31-03-79
446	7030588H	Hav	Madan Mohan Pal	30-04-79
447	7030581Y	Hav	Man Singh	30-04-79
448	7029695X	Hav	Manbar Singh	28-02-79
449	7035274L	Hav	Michael Panna	30-06-79
450	7035018W	Hav	Namdev Salunkhe	31-03-79
451	7030169L	Hav	Narendar Datt	31-01-79
452	7032706K	Hav	Nari Singh	30-06-79
453	7040415Y	Hav	Pandurang Goro	30-06-79
454	7034847X	Hav	Phanindra Nath Sarkar	31-01-79
455	7033473A	Hav	Radhakrishnan M	31-05-79
456	7025756M	Hav	Ramadhass Naidu	30-06-79
457	7028856H	Hav	Ranvir Singh	28-02-79
458	7030963H	Hav	Rohtas Singh	30-06-79
459	7034843H	Hav	Santosh Kumar Sarker	31-03-79
460	7038390Y	Hav	Satrughan Prasad	31-05-79
461	7032804K	Hav	Shesh Nath Singh	31-07-79
462	7035355L	Hav	Shree Krison Singh	31-06-79
463	7034091H	Hav	Sukh Lal Singh	30-06-79
464	7033649A	Hav	Sultan Singh	30-06-79
465	7035110P	Hav	Surjit Singh	30-04-79
466	7035326W	Hav	Trilok Singh	31-07-79
467	7034133K	Hav	Uma Shankar	31-07-79
468	7032806P	Hav	Venkatesh Gaddana Keri	28-02-79

## REMOUNT &amp; VETERINARY CORPS

469	7230549N	Dfr	Ganu Jadhav	31-07-79
470	7230525K	Dfr	Mahfooz Alam	31-03-79
471	7230491F	Dfr	Mohd Yousof	28-02-79
472	7230528X	Dfr	Surendra Nath Sethi	31-03-79

## THE INTELLIGENCE CORPS

473	1027235M	Hav	Balvir Singh	31-05-79
-----	----------	-----	--------------	----------

## ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

474	4143308P	Hav	Bal Krishna Suryawanshi	28-02-79
475	3142075W	Hav	Birshal Singh	31-07-79
476	5834497L	Hav	Lachhim Bahadur Khatri	30-06-79
477	1147409X	Hav	Maljit Singh	30-04-79
478	13717009X	Hav	Nar Singh	31-07-79
479	3949316P	Hav	Prem Singh	30-04-79
480	2845646L	Hav	Rameshwar Dayal	30-06-79

## DEFENCE SECURITY CORPS

481	8795443X	Hav	Bansi Ram	28-02-79
482	8798240X	Hav	Behari	31-07-79
483	8808138X	Hav	Eknath Taware	31-01-79
484	8801845X	Hav	Joginder Singh	28-02-79
485	8795541X	Hav	Madho Ram	28-02-79
486	8802596X	Hav	Meharwan Singh Farshwan	30-04-79
487	4129780X	Hav	Musadi Lal	31-07-79
488	8809662	Hav	Niwrutti Waghmare	31-03-79
489	8799070	Hav	P Balakrishnan	31-03-79

B.B. SAHAY, Jt. Secy (P &amp; W)

सं० 11-ई दिनांक, 9 अगस्त 1979, राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं।

## भारतीय नौसेना

## स्थायी संदर्भ

## स्पेशल ड्यूटीज लिस्ट

निम्नलिखित मास्टर चीफ पेटी अफसरों को भारतीय नौसेना में 15 अगस्त, 79 से सक्रिय सूची पर अानरेरी कमीशन प्रदान किया जाता है:—

अानरेरी सब-लेफ्टिनेन्टस "स्पेशल ड्यूटीज" के पद पर

क्रमसं०	नाम	रैंक	नम्बर
1.	धर्मवीर	एम सी पी ओ 1	080163 के
2.	जे सिंह	एम सी पी ओ 1	061942 बी
3.	जी एस यादव	एम सी एम (ई) 1	036273 भार
4.	के के एस चेट्टियार	एम सी पी ओ टेल 1	033468 भारि
5.	बी सिंह	एम सी पी ओ (ए एम) 1	043864 टी

श०ना० बाजपे,संयुक्त सचिव

No 11-E dated 9th August, 1979, the President is pleased to make the following appointments:—

## INDIAN NAVY

## PERMANENT CADRE

## SPECIAL DUTIES LIST

The following Master Chief Petty Officers are granted Honorary Commission on the Active List in the Indian Navy with effect from 15 August, 79:—

To be Honorary Sub-Lieutenants "Special Duties"

Sl. No.	Name	Rank	Number
1.	Dharamvir	MCPO I	060163K
2.	J Singh	MCPO I	061942B
3.	GS Yadav	MCM (E) I	036273R
4.	KKS Chettiar	MCPO TEL I	033468R
5.	B Singh	MCPO (AH) I	043864T

S. N. BAJPE, Joint Secy.

## (बायु शाखा)

सं० 12-ई, दिनांक 13 अगस्त, 1979 बायुसेना विनियमावली के पैरा 344 के अन्तर्गत निम्नलिखित अानरेरी फ्लाईंग अफसरों को 15 अगस्त, 1979 से अानरेरी फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट के रूप में पदोन्नत किया जाता है:—

1.	20742	मा बा अ (अानरेरी फ्लाईंग अफसर)	माबिलाकेडि नारायणन	कलक जी डी
2.	35826	मा बा अ (अानरेरी फ्लाईंग अफसर)	नागसुन्दरम कुद्याला लिंगम	रेडियो फिटर
3.	22078	मा बा अ (अानरेरी फ्लाईंग अफसर)	राम नरेश मिश्र	वेपन फिटर
4.	15760	मा बा अ (अानरेरी फ्लाईंग अफसर)	बलजीत सिंह	रडार फिटर
5.	28704	मा बा अ (अानरेरी फ्लाईंग अफसर)	बामोवरन पिल्ले	एम टी डी
6.	30100	मा बा अ (अानरेरी फ्लाईंग अफसर)	जीवन कृष्ण बनू	इलेक्ट्रिक फिटर
7.	28973	मा बा अ (अानरेरी फ्लाईंग अफसर)	कृष्णमूर्ती रामोहली नारुम्बेटयाह	जी टी ग्राई



## AIR BRANCH

No. 12-E, dated 13th August 1979.—The undermentioned Honorary Flying Officers are promoted as Honorary Flight Lieutenants with effect from 15th August, 1979 under para 344 of Regulations for the Air Force:—

1. 20742	MWO (Hony Fg Offr) Mavilakandy Narayanan	Clk GD
2. 35826	MWO (Hony Fg Offr) Nagasundaram Kuthala Lingam	Rde Fit
3. 22078	MWO (Hony Fg Offr) Ram Naresh Misra	Wpn Fit
4. 15760	MWO (Hony Fg Offr) Baljit Singh	Rad Fit
5. 28704	MWO (Hony Fg Offr) Damodaran Pillai	M T D
6. 30100	MWO (Hony Fg Offr) Jiban Krishna Basu	Elect Fit
7. 28973	MWO (Hony Fg Offr) Krishnamurthy Ramohally Nanjundaiah	G T I

सं० 13-ई, दिनांक 13 अगस्त, 1979.—वायुसेना विनियमावली के पैरों 344 के अन्तर्गत निम्नलिखित मास्टर वारंट अफसरों/वारंट अफसरों को 15 अगस्त, 1979 से प्लाईंग अफसर के रैंक में आनरेरी कमीशन प्रदान किया जाता है :—

1.	45089	मा वा अ जीन बालाचन्द्रन	जी टी आई
2.	20474	मा वा अ बालानायर सुब्रामनिया सीतारामन	इलेक्ट फिटर
3.	45826	मा वा अ इषानूर थुपालाई बालाकृष्णन	क्लर्क जी डी
4.	27019	मा वा अ भंगामुत्थू पौल	ए सी एच जी डी
5.	23239	मा वा अ हरि हर पंडा	क्लर्क अकाउन्ट्स
6.	21004	मा वा अ अरुणोद्दाल सत्यनाथ	रेडियो फिटर
7.	22869	मा वा अ प्रकाश स्वरूप	इन्ज फिटर
8.	21950	मा वा अ निर्मल सिंह	ए एफ फिटर
9.	47138	मा वा अ लॉरेन्स कूज	पी जे आई
10.	41806	मा वा अ अजित कुमार बोस	रडार फिटर
11.	28938	मा वा अ पुथालाय शेखरन नामबीअर	रेडियो फिटर
12.	29845	मा वा अ कृष्णापानिकर बेल्लप्पान	वेपन फिटर
13.	31348	मा वा अ इयायाम दत्त	ए एफ एस ग्री
14.	13358	मा वा अ रामा आयर महादेवन	एम टी डी
15.	19036	मा वा अ सेम्मुअल जेम्स रोमिनिक	मेड असिस्टेंट
16.	200402	मा वा अ नन्दी शिवा प्रसाद	इन्स्ट्रूमेन्ट फिटर
17.	21226	मा वा अ सोम प्रकाश कोहली	ए एफ फिटर
18.	36763	मा वा अ वसन्त रामाचन्द्रा बाग्यातकर	इन्ज फिटर
19.	30433	मा वा अ पाटिल श्रीमानन्दाय धर्मप्पा	क्लर्क जी डी
20.	30522	मा वा अ राम पाल सिंह	इलेक्ट फिटर
21.	25645	मा वा अ भगतिराम सेमवाल	एम टी फिटर
22.	21902	मा वा अ सिवारामा कृष्णन नायर के पी	इक्व असिस्टेंट
23.	26521	मा वा अ मदन मोहन शर्मा	इक्व असिस्टेंट
24.	48347	मा वा अ परमेश्वरा पिल्ले भास्करन नायर	आई ए एफ पुलिस
25.	36567	मा वा अ सीतारामा कृष्णा मूर्थी	क्लाइट सिगनलर
26.	35833	मा वा अ अम्बीई नायडू प्यागाराजन	टैलिस्ट भारती ओपरेटर
27.	32185	मा वा अ बिलियम टेम्पलिटन	एस ई इन्सू
28.	37238	मा वा अ प्रिन्टीरिल जोस अगस्टाइन]	ए डी एस ग्री
29.	29823	मा वा अ श्रीनिवामा वर्धा राजन	क्रिप्टो
30.	41560	मा वा अ वीरेन्द्र सिंह चौहान]	मेड असिस्टेंट

No. 13-E, dated 13th August, 1979.—The undermentioned MWOs/WOs are granted Honorary Commission in the rank of Flying Officer with effect from 15th August, 1979 under para 344 of Regulations for the Air Force:—

1.	45089	MWO	John Palachandran	G T I
2.	20474	MWO	Thalanayar Subramania Sitaraman	Elect Fit
3.	45826	MWO	Ethanur Thuppalai Balakrishnan	Clk GD
4.	27019	MWO	Angamuthu Paul	Ach GD
5.	23239	MWO	Hari Har Panda	Clk Accts
6.	21004	MWO	Arunojjwal Sanyal	Rdo Fit
7.	22869	MWO	Prakash Swarup	Eng Fit
8.	21950	MWO	Nirmal Singh	Al Fit
9.	47138	MWO	Lawrence Cruz	P J I
10.	41806	MWO	Ajit Kumar Bose	Rad Fit
11.	28938	MWO	Puthalath Sekhharan Nambiar	Rdo Fit
12.	29845	MWO	Krishnapanicker Chellappan	Wpn Fit
13.	31348	MWO	Isadas Dutt	AFSO
14.	13358	MWO	Rama Iyer Mahadevan	M T D
15.	19036	MWO	Samuel James Dominic	Med Asst
16.	200402	MWO	Nandy Shiva Prasad	Inst Fit
17.	21226	MWO	Som Prakash Kohli	Al Fit
18.	36763	MWO	Vasant Ramachandra Bagayatkar	Eng Fit
19.	30433	MWO	Patil Shrimandar Dharmappa	Clk GD
20.	30522	MWO	Ram Pal Singh	Elect Fit
21.	25645	MWO	Bhagti Ram Semwal	MT Fit
22.	21902	MWO	Sivarama Krishnan Nair K P	Eqpt Asst
23.	26521	MWO	Madan Mohan Sharma	Eqpt Asst
24.	48347	MWO	Parameswara Pillai Bhaskaran Nair	IAF P
25.	36567	MWO	Sitarama Krishna Murthy	Flt Lt
26.	35833	MWO	Abboinaidu Thyagarajan	Telst Rt Opr
27.	32185	MWO	William Templeton	S E W
28.	37238	MWO	Perincherril John Augustine	A D S O
29.	29823	MWO	Srinivasa Varadha Rajan	Crypto
30.	41560	MWO	Birendra Singh Chauhan	Met Asst

सं० 14-ई, दिनांक, 13 अगस्त, 1979, 16571 मा वा अ जार्ज टी एम, रेडियो फ़िटर (सेवा निवृत्त) को वायुसेना नियमों के पैरा 345 के अन्तर्गत सेवा निवृत्त सूची पर 15 अगस्त, 1979 से प्लाईंग अफसर का आनरेरी रैंक प्रदान किया जाता है।

सं० ना० राव, संयुक्त सचिव

No. 14-E, dated 13th August, 1979.—16571 MWO George T M Rdo Fit (Retd) is granted the Honorary Rank of Flying Officer with effect from 15th August, 1979 on the retired list under para 345 of Regulations for the Air Force.

(S. N. RAO), Joint Secretary

